



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 43] नई दिल्ली, अक्टूबर 17—अक्टूबर 23, 2004, शनिवार/आश्विन 25—कार्तिक 1, 1926
No. 43] NEW DELHI, OCTOBER 17—OCTOBER 23, 2004, SATURDAY/ASVINA 25—KARTIKA 1, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

भारतीय रिज़र्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2004

का.आ. 2628.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 29 अप्रैल, 2003 की उनकी अधिसूचना ग्राआरवि. सं. 973/07-02-05/2002-03 के अधिक्रमण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला अपेक्षित औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) नीचे उल्लिखित तारीखों से प्रभावी, उनके सामने दर्शायेनुसार प्रतिशत पाईट रहेगा।

प्रभावी तारीख (अर्थात् निम्न तारीख से आरंभ होने वाला पखवाड़ा)	निवल मांग और मीयादी देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत)
18 सितम्बर, 2004	4.75
2 अक्टूबर, 2004	5.00

तथापि, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके कुल मांग और मीयादी देयताओं का अनुरक्षित प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित पूर्वोक्त 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

[ग्राआरवि. सं. 172/07-02-05/2004-05]

उपा थोरात, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(Rural Planning and Credit Department)

New Delhi, the 11th September, 2004

S.O. 2628.— In exercise of the powers conferred by the Proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification RPCD No. 973/07-02-05/2002-03 dated April 29, 2003, the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled State Co-operative Banks and Regional Rural Banks shall, from effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated there against.

Effective date (i.e. the fortnight beginning from)	CRR on net demand and time liabilities (per cent)
September 18, 2004	4.75
October 2, 2004	5.00

However, the effective CRR maintained by Scheduled State Co-operative Banks and Regional Rural Banks on total demand and time liabilities shall not be less than 3.00 per cent, as stipulated under the Act, *ibid*.

[RPCD No. 172/07-02-05/2004-05]

USHA THORAT, Executive Director

विदेश मंत्रालय

(सी. पी. वी. डिवीजन)

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2629.— राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा भारत का प्रधान कौंसलावास, शंघाई में श्री नेलियाप्पन पोन्नापन, सहायक को श्री ए. एम. जे. चन्द्रन के स्थान पर 01-10-2004 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[सं. टी. 4330/01/2004]

उपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव (कौंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(C.P.V. Division)

New Delhi, the 1st October, 2004

S.O. 2629.— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government, hereby authorises Shri Nelliappan Ponnappan, Assistant in the Consulate General of India, Shanghai to perform the duties of Assistant Consular Officer *vice* Shri A.M.J. Chandran with effect from 01-10-2004.

[No. T. 4330/01/2004]

U. S. RAWAT, Under Secy. (Cons.)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2630.— राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा भारत का राजदूतावास, अबीजाँ में श्री जिले सिंह नन्दल, सहायक को 04-10-2004 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[सं. टी. 4330/01/2004]

उपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव (कौंसुलर)

New Delhi, the 4th October, 2004

S.O. 2630.— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government, hereby authorises Shri Zile Singh Nandal, Assistant in the Embassy of India, Abidjan to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 04-10-2004.

[No. T. 4330/01/2004]

U.S. RAWAT, Under Secy. (Cons.)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2004

का.आ. 2631.— केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित कार्यालय में 80% से अधिक कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर एतद्द्वारा उसे अधिसूचित करती है।

सरकारी नाविक कार्यालय,
मेरिन हाऊस, हेस्टिंग्स, कोलकाता-700022

[फा. सं. ई-11011/1/2000-हिन्दी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

New Delhi, the 23rd September, 2004

S.O. 2631.— In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purpose of the Union) Rules, 1976 (as amended 1987), the Central Government hereby notifies the following office under the administrative control of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, more than 80% of the staff of which have acquired working knowledge of Hindi :—

Government Seamen's Office,
Marine House, Hastings, Kolkata-700022

[F.No. E-11011/1/2000-Hindi]

R.K. JAIN, Jr. Secy.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2632.— केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में संस्कृति मंत्रालय, के अधीन निम्नलिखित कार्यालय जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, बेलवेडियर, कोलकाता
2. अधीक्षण पुरातत्त्व रसायनज्ञ, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, (इन्दौर संभाग) इन्दौर, म. प्र.

[सं. 1-2/2003-हिन्दी]

मोहिनी हिंगोरानी, निदेशक (रा.भा.)

MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE

(Department of Culture)

New Delhi, the 11th October, 2004

S.O. 2632.— In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office under the Ministry of Culture more than 80% staff of which have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Central Reference Library, Belvedere, Kolkata.
2. Superintending Archaeological Chemist ASI, (Indore Division), Indore, M.P.

[No.1-2/2003-Hindi]

MOHINI HINGORANI, Director (O.L.)


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2633.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रांजली सिस्टम्स, सर्वे सं. 6, वंशीव बस्ती के पास, धनकवाडी, पुणे-411043 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) वाले "पी एस टी" शृंखला के अंकक सूचन सहित, स्वतः सूचक, अस्वचालित (टेबलटाप प्रकार) तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "टाइटन" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/28 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।



उक्त मॉडल एक विकृति गैज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबलटाप प्रकार) है। इसकी अधिकतम क्षमता 15 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) का मान 1 ग्रा. है। इसमें एक आद्येतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आद्येतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$ या $5 \times 10^*$ के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(324)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)


New Delhi, the 5th October, 2004

S.O. 2633.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "ST" series of high accuracy (accuracy class-II) and with brand name "TITAN" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Pranjali Systems, Survey No. 6, Near Vanshiv Vasti, Dhankawdi, Pune-411 043 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/28;

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 15 Kg. and minimum capacity of 50g. The verification scale interval (e) is 1g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36, of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,00 for 'e' value of 1mg. to 50mg. and with verification scale interval (n) in the range of 5,000 to 50,000 for 'e' value of 100 mg. or more and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.


[F. No. WM-21(324)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2634.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रांजली सिस्टम्स, सर्वे सं. 6, वंशीव बस्ती के पास, धनकवाडी, पुणे-411043 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) वाले “पी एस पी” शृंखला के अंकक सूचन संहिता, स्वतः सूचक, अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार) तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “टाइटन” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/29 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।



उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) है। इसकी अधिकतम क्षमता 110 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 500 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) का मान 10 ग्रा. है। इसमें एक आद्येतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आद्येतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्लैम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 5000 से 50,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. से 500 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$ या $5 \times 10^*$ के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(324)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 5th October, 2004

S.O. 2634.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of "PST" series of high accuracy (accuracy class-II) and with brand name "TITAN" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Pranjali Systems, Survey No. 6, Near Vanshiv Vasti, Dhankawdi, Pune-411 043 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/29;

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 110g. and minimum capacity of 500g. The verification scale interval (e) is 10g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36. of the said Act. the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg. and upto 500kg. with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100g. or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved said model has been manufactured.

[F. No. WM-21(324)/2001]


P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2635.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टेट्रा पाक इंडिया प्रा. लि., मेफेयर टावर्स, भू तल, वाक्डेवाडी, शिवाजी नगर, पुणे-411005 द्वारा विनिर्मित “टी डब्ल्यू ए-200 एस” शृंखला के भरण मशीन (अनुमापी प्रकार की भरण और सील मशीन) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “टेट्रा पाक” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/73 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

TBA/19 for Tetra Wedge™ Aseptic



उक्त मॉडल एक स्वचालित भरण मशीन (अनुमापी प्रकार की भरण और सील मशीन) है। इसकी अधिकतम क्षमता 200 मि. लीटर या समतुल्य भार की है। इसकी अधिकतम भरण दर 60 पैकेट प्रति मिनट है। यह 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती विद्युत प्रदाय पर कार्य करती है। मशीन को मिनरल वाटर, दुग्ध, ब्रेवरेज जूस इत्यादि जैसे मुक्त बहाव वाले अविसकस द्रव उत्पादों को भरने के लिए डिजाइन किया है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, से विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की स्वचालित भरण मशीन होंगी जो 1 मि.ली. से 200 मि.ली. तक की रेंज में अधिकतम क्षमता वाली हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(282)/2003]


पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 6th October, 2004

S.O. 2635.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (See the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of Automatic filling machine (Volumetric form fill and seal machine) of "TWA-200S" series with brand name "TETRA PAK" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Tetra Pak India Private Limited, Mayfair Towers, Ground Floor, Wakdewadi, Shivajinagar Pune-411005 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/73;

TBA/19 for Tetra Wedge™ Aseptic



The said Model is an automatic filling machine (Volumetric form fill and seal machine type). Its maximum capacity is 200 ml or equivalent weight. It has a maximum fill rate of 60 packs per minute. It operates on 440 V, 50 Hz alternative power supply. The machine is designed for filling free flowing non-viscous liquid products like mineral water, milk, beverage, juice etc.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the automatic filling machine of similar make, accuracy and performance of the same series with maximum capacity in the range of 1ml to 200ml manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the said approved model has been manufactured.


[F. No. WM-21(282)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2636.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ग्रेस प्रॉडक्ट्स, प्लॉट सं. ई-188, जी आई डी सी इलेक्ट्रॉनिक एस्टेट गांधी नगर-382028 गुजरात द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग II) वाले “ग्रेस” शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “ग्रेस” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/21 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।



उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार का) है। इसकी अधिकतम क्षमता 20 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 1 ग्रा. है। इसमें एक आद्येतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आद्येतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला की वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक “ई” मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल (एन) और 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान 1×10^{-3} , 2×10^{-3} या 5×10^{-3} के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समुच्चय हैं।


[फा.सं. डब्ल्यू.एम-21(311)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2636.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "GRACE" series of high accuracy (accuracy class-II) and with brand name "GRACE" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Grace Products, Plot No. E-188, GIDC, Electronics Estate, Gandhi Nagar (Gujarat)-382028 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/21;



The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 20 kg. and minimum capacity of 50 g. The verification scale interval (e) is 1 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 V, 50 Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50 kg. with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 1 mg. to 50 mg. or with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100 mg. or more and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(311)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2637.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एनक्सो टेक्नोलोजिज इंडिया लिमिटेड, प्लॉट सं. 157, नौरगपुरा, गुड़गांव द्वारा विनिर्मित अंकक सूचन सहित, स्वचालित ग्रेविमेट्रिक भरण उपकरण “एम सी एस 9003” शृंखला के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “एनक्सो रोटो पैकर” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/703 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत प्रकार का लोड सेल आधारित स्वचालित ग्रेविमेट्रिक भरण उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 50 कि. ग्रा. और उसमें कुल 12 टोंटी हैं। इसमें एक आद्येतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आद्येतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबंद की जाएगी।



और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के भरण भी होंगे जो 50 कि. ग्रा. का 1 से 16 टोंटी तक की क्षमता वाले हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(202)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान


New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2637.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of Automatic Gravimetric filling Instrument with digital indication of "MCS 9003" series and with brand name "ENEXCO ROTO PACKER" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Enexco Technologies India Limited, Plot No. 157, Naurangapur, Gurgaon, Haryana and which is assigned the approval mark IND/09/2003/703;

The said Model is a strain gauge type load cell based Automatic Gravimetric Filling Instrument with a maximum capacity of 50kg. and consisting of 12 number of spouts. The smallest scale division is 10g. the light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hz alternative current power supply. It fills 60 bags per minute.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36, of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the filling instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 50kg. of spouts 1 to 16 manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(202)/2003]

F. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2638.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स साल्टर स्केल इण्डस्ट्रीज, आर-2360, न्यू टेक्सटाइल मार्केट, सहार दरवाजा के सामने, रिंग रोड, सूरत, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले “एस ए टी” श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टाप प्रकार का) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “साल्टर” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/569 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) विकृतिमापी लोड सैल आधारित प्रकार का तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है। इसकी न्यूनतम क्षमता 20 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) अंतराल 1 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टैम्पिंग प्लेट के मुद्रांकन करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहार के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द भी किया जाएगा।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है। विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक “ई” मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 10,000 तक रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$ या $5 \times 10^*$, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम.-21(180)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान


New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2638.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "SAT" series of medium accuracy (accuracy class-III) and with brand name "SALTER" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Salter Scale Industries, R-2360, New Textile Market, Opp. Sahar Darwaja, Ring Road, Surat, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2003/569;

The said model (see the figure given below) is a strain gauge load cell based type non-automatic weighing instrument with a maximum capacity of 10 kg. and minimum capacity of 20 g. The verification scale interval (e) is 1 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50 Hz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100 mg. to 2g and with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(180)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2639.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मौरपेन लेबोरेट्रिज लि. 409 चौथी मंजिल अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले “पी एस-16” शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (व्यक्ति तोलन मापमान प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “ब्यूर” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/31 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है ;

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक लोड सैल आधारित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 140 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) का मान 100 ग्रा. हैं। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है। विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 100 कि. ग्रा. से अधिक और 150 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान 1×10^3 , 2×10^3 या 5×10^3 , के हैं जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम.-21(148)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान


New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2639.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument with digital indication (Person weighing scale) of "PS-16" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "BEURER" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Morepen Laboratories Ltd., 409, 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110 001 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/31;

The said model (see the figure given below) is a load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 140 kg. and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50 Hz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36, of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 100kg to 150kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k , 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved said model has been manufactured.

[F. No. WM-21(148)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2640.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मौरपेन लेबोरेट्रिज लि., 409 चौथी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा विनिर्मित साधारण यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले “एम एस-01” शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (व्यक्ति तोलन मापमान प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “ब्यूर” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/32 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है;

यह मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक स्प्रिंग आधारित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 120 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान (ई) अंतराल 1 कि. ग्रा. है। डायल पर पाइंटर द्वारा मापन के परिमाणों को निर्दिष्ट किया गया है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 100 से 1000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 100 कि. ग्रा. से 150 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$ या $5 \times 10^*$, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम.-21(148)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान


New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2640.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument with analogue indication (Person weighing scale) of "MS-01" series of ordinary accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "BEURER" (herein after referred to as said model), manufactured by M/s. Morepen Laboratories Ltd., 409, 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110 001 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/32;

The said model (see the figure given below) is a spring based weighing instrument with a maximum capacity of 120 kg. and minimum capacity of 10kg. The verification scale interval (e) is 1kg. The results of measurement are indicated by the pointer on dial.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 100kg to 150kg and with number of verifications scale interval (n) in the range of 100 to 1000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved said model has been manufactured.

[F. No. WM-21(148)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2641.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मौरपेन लेबोरेट्रिज लि., 409, चौथी मंजिल अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "बी एफ-60" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (व्यक्ति तोलन मापमान प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "व्यूर" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/33 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक लोड सेल आधारित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 140 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) का मान 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टैम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित माडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 100 कि. ग्रा. से 150 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$ या $5 \times 10^*$, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-21(148)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान


New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2641.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1977 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument with digital indication (Person weighing scale) of "BF-60" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "BEURER" (hereinafter referred to as said model), manufactured by M/s. Morepen Laboratories Ltd., 409, 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110 001 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/33;

The said model (see the figure given below) is a load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 140 kg. and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50-Hertz alternate current power supply ;

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36, of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 100kg to 150kg and with number of verifications scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved said model has been manufactured.

[F. No. WM-21(148)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology


नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2642.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मौरपेन लेबोरेट्रिज लि., 409 चौथी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा विनिर्मित साधारण यथार्थता (यथार्थता वर्ग-IV) वाले “एम एस-50” शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (व्यक्ति तोलन मापमान प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “ब्यूरर” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/34 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक स्प्रिंग आधारित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 135 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान (ई) का मान 1 कि. ग्रा. है।

स्टैम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 100 से 1000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 100 कि. ग्रा. से 150 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$ या $5 \times 10^*$, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम.-21(148)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2642.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument with analogue indication (Person weighing scale) of “MS-50” series of ordinary accuracy (Accuracy class-IV) and with brand name “BEURER” (hereinafter referred to as said model), manufactured by M/s. Morepen Laboratories Ltd., 409, 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110 001 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/34;

The said model (see the figure given below) is a spring based weighing instrument with a maximum capacity of 135kg. and minimum capacity of 10kg. The verification scale interval (e) is 1kg. The results of measurement are indicated by the pointer on dial.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 100kg to 150kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 100 to 1000 for ‘e’ value of 5g or more and with ‘e’ value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved said model has been manufactured.

[F. No. WM-21(148)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology


नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2643.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मौरपेन लेबोरेट्रिज लि., 409, चौथी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "पी एस-22" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (व्यक्ति तोलन मापमान प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "ब्यूर" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/35 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक लोड सेल आधारित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 140 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान (ई) का मान 100 कि. ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धातु आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टैमिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द किया जाएगा।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 100 कि. ग्रा. से 150 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^3 , 2×10^3 या 5×10^3 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(148)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान


New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2643.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument with digital indication (Person weighing scale) of "PS-22" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "BEURER" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Morepen Laboratories Ltd., 409, 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110 001 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/35;

The said model (see the figure given below) is a load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 140kg. and minimum capacity of 2kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36, of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 100kg to 150kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved said model has been manufactured.

[F. No. WM-21(148)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology


नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2644.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मौरपेन लेबोरेट्रिज लि., 409, चौथी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "पी एस-14" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (व्यक्ति तोलन मापमान प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "ब्यूरर" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/36 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक लोड सेल आधारित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 140 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) का मान 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टैम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द किया जाएगा।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 100 कि. ग्रा. से 150 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$ या $5 \times 10^*$, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(148)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान


New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2644.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument with digital indication (Person weighing scale) of "PS-14" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "BEURER" (hereinafter referred to as said model), manufactured by M/s. Morepen Laboratories Ltd., 409, 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110 001 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/36;

The said model (see the figure given below) is a load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 140kg. and minimum capacity of 2kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 100kg to 150kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved said model has been manufactured.


[F. No. WM-21(148)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2645 .—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एनरफ बी.वी. रोटेंगेनवेग 1,2624, बी डी डैल्फ्ट, नोदलैंड द्वारा विनिर्मित और वितरित नियंत्रण प्रणाली और भंडारण द्वारा प्रबंधन टैंक मॉनिटरिंग प्रणाली के सा मैसर्स टाटा हनीवेल लिमिटेड, 55-ए8/9 हंडपसर इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पुणे-411013 द्वारा समेकित और विपणित, अंकक सूचन सहित हाइड्रोस्टेटिक टैंक गेज माप प्रणाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "हाइड्रोस्टेटिक टैंक गेजिंग सिस्टम" है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/462 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।



यह मॉडल (ऊपर दी गई आकृति देखें) कुसन स्तर, सघनता और गेज प्रणाली से दाब और परिमाण के साथ समेकित प्रणाली और समरूपित भंडारण टैंक में परिमाण द्रव के माप के लिए एक मापन प्रणाली है। प्रणाली का ओ आइ एम एल-आर-125 मार्ग निर्देश सिद्धांत के अनुसार परिक्षण किया है। द्रवस्थैजिक टैंक गेज वाली प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

- दाब संचारी : मॉडल 3001 सी 3 ए 22 एम आई ए 5 क्यू 4/रेसोमाउंट इंक
- क्षेत्र सूचक अंतरापृष्ठ : मॉडल एक्स ई एफ जेड 877 सी टी वाई/एनराफ
- स्पॉट आर टी डी (तापमान परीक्षण) : 3 वायर पीटी-100/ताप नियंत्रण
- जल अन्तरापृष्ठ परीक्षण (क्षमता प्रकार) एमएसटी 9500/मिल्ट्रसनिक्स
- संचार अन्तरापृष्ठ एकक : मॉडल यू एन 858 पीएनसी/एनराफ
- डी सी एस : कुल योजना समाधान/हनी वेल
- एसडीएम/टीएमएम टाटा हनीवेल डीसीएस का साफ्टवेयर


[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(25)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2645.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of Hydrostatic Tank Gauge measuring system and with digital display (hereinafter referred to as the said model) with brand name "HYDRO STATIC TANK GAUGING SYSTEM", manufactured by M/s. Enraf B.V. Rontgenweg 1, 2624 BD Delft, Netherlands and integrated and marketed by M/s. Tata Honeywell Limited, 55-A8/9 Hadpsar Industrial Estate, Pune-411 013 with manufacturing of Distributed Control System and storage data management/tank monitoring system and which is assigned the approval mark IND/09/2003/462;



The model (see the figure given above) is a measuring system for measurement of mass liquids in storage tanks configured and system integrated with mass and volume calculated from derived level, density and pressures from the gauging system. The systems has been tested as per OIML-R-125 guidelines. The Hydro static tank gauging system comprises of the following :

- Pressure Transmitters : Model 3001C3A22M1A5Q4/Rsoemount Inc
- Field Display Interface : Model XEFZ877CTY/Enraf
- Spot RTD (Temperature Probe) : 3 wire PT-100/Tempcontrols
- Water Interface Probe (capacities type) MST9500/Milltronics
- Communication interface unit : Model UN 858PNC/Enraf
- DCS : total Plan solutions/Honeywell
- SDM/TMM Software of Tata Honeywell DCS


[F: No: WM-21(25)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2646.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एम जी लैगोक, सिस्टम्स, 11/33, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर-342008 (राजस्थान) द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) वाले “एम जी एल टी” शृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण (टेबलटॉप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “एम जी लैगोक” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/61 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है।



उक्त माडल एक विकृत गैज प्रकार का लोड सैल आधारित अस्वचालित (टेबलटॉप प्रकार) का उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 22 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) का मान 2 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक “ई” मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अंतराल (एन) और 100 मि. ग्रा. से या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान 1×10^6 , 2×10^6 या 5×10^6 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम.-21(185)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2646.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "MGLT" series of high accuracy (accuracy class-II) and with brand name "MG LAGOC" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. M.G. Lagoc Systems, 11/33, Chopasni Housing Board, Jodhpur—342 008 (Rajasthan) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/61;



The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 22 kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36, of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50000 for 'e' value of 1mg to 50mg and with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100mg or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(185)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2647.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एम जी लैंगोक, सिस्टम्स, 11/33, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर-342008 (राजस्थान) द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) वाले “एम जी एल पी” शृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “एम जी लैंगोक” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/62 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है।



उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सैल आधारित अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार) का उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 1100 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 5 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) का मान 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. से ऊपर और 5000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान 1×10^3 , 2×10^3 या 5×10^3 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम.-21(185)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2647.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of "MGLP" series of high accuracy (accuracy class-II) and with brand name "MG LAGOC" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. M.G. Lagoc Systems, 11/33, Chopasni Housing Board, Jodhpur-342 008 (Rajasthan) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/62;



The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1100 Kg. and minimum capacity of 5kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and upto 5000kg with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50000 for 'e' value of 100mg and more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.


[F. No. WM-21(185)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का०आ० 2648.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 की 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स टू वे डिजिटल टेक्नोलोजीज, दुकान सं० 3, प्रथम तल, मोहन पैलेस, जंजी रोड, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-11) वाले "टी डब्ल्यू टी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप) के मॉडल को, जिसके ब्रांड का नाम "टू" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन बिहू आई एन डी/09/2004/9 संमन्वित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है;



उक्त मॉडल एक विकृतिमापी प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप प्रकार का) है। इसकी अधिकतम क्षमता 12 कि० ग्रा० और न्यूनतम क्षमता 50 ग्रा० है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) का मान 1 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि० ग्रा० से 50 मि. ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल (एन) और 100 मि० ग्रा० या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि०ग्रा० तक अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^6 , 2×10^6 या 5×10^6 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।


[फा०सं० डब्ल्यू. एम.-21(213)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2648.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "TWT" series of high accuracy (accuracy class-II) and with brand name "TRUE" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. True Weigh Digital Technologies, Shop No. 3, 1st Floor, Mohan Place, Jandi Road, Sonapat (Haryana) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/09;



The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 12 Kg. and minimum capacity of 50g. The verification scale interval (e) is 1g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36, of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 1mg. to 50mg and with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100mg or more and with 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.


[F. No. WM-21(213)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का०आ० 2649.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स टू वे डिजिटल टेक्नोलोजीज, दुकान सं० 3, प्रथम तल, मोहन पैलेस, जंजी रोड, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-3) वाले "टी डब्ल्यू पी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "टू" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/10 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है;



उक्त मॉडल एक विकृतिमापी प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि०ग्रा० और न्यूनतम क्षमता 1 कि०ग्रा० है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) का मान 50 ग्रा० है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द की जाएगी।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा० या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि० ग्रा० से 1000 कि० ग्रा० तक अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान $1 \times 10^*$, $2 \times 10^*$ या $5 \times 10^*$, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा०सं० डब्ल्यू एम-21(213)/2003]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2649.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of non-automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of "TWP" series of medium accuracy (accuracy class-III) and with brand name "TRUE" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. True Weigh Digital Technologies, Shop No. 3 1st Floor, Mohan Place, Jandi Road, Sonapat (Haryana) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/10;



The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 500 Kg. and minimum capacity of 1kg. The verification scale interval (e) is 50g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36, of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg and up to 1000 kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.


[F. No. WM-21(213)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2650.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एफ एस टी इलैक्ट्रॉनिक्स, प्रथम तल, प्लॉट सं० 64, इण्डस्ट्रीयल फोकल प्वाइण्ट, फेस-9, मोहाली, जिला रोपड़, पंजाब द्वारा विनिर्मित मध्य यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले “सी टी 202” शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबलटाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “एवर राइट” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/39 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है;



उक्त मॉडल विकृतिमापी प्रकार का भार सेल आधारित यथार्थता वर्ग टेबलटाप प्रकार का तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 20 कि.ग्रा. है। इसकी न्यूनतम क्षमता 40 ग्रा. सत्यापन मापमान (ई) अंतराल 2 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सोलबन्द किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित माडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक “ई” मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान 1×10^6 , 2×10^6 या 5×10^6 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।


[फा.सं. डब्ल्यू. एम.-21(317)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2650.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "CT202" series of high accuracy (accuracy class-III) and with brand name "Ever right" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. F.S.T. Electronics, 1st Floor, Plot No. 64, Industrial Focal Point, Phase-IX, Mohali, Distt. Ropar, Punjab and which is assigned the approval mark IND/09/2004/139;



The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table Top type) with a maximum capacity of 20 Kg. and minimum capacity of 40g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36, of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10000 for 'e' value of 100mg to 2g. or with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10000 for (e) value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^4 , 2×10^4 or 5×10^4 , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(317)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2651.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एफ एस टी इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रथम तल, प्लॉट सं० 64, इण्डस्ट्रीयल फोकल प्वाइण्ट, फेस-9, मो, जिला रोपड़, पंजाब द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले “सी पी 100” श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबलटॉप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “एवर राइट” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/40 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है;



उक्त मॉडल विकृतिमापी प्रकार का भार सेल आधारित यथार्थता वर्ग टेबलटॉप प्रकार का तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 100 कि.ग्रा. है। इसकी न्यूनतम क्षमता 200 ग्रा.। सत्यापन मापमान (ई) अंतराल 10 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सीलबन्द किया जाएगा।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 300 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान 1×10^6 , 2×10^6 या 5×10^6 , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू. एम.-21(317)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 2651.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of "CP100" series of high accuracy (accuracy class-III) and with brand name "Ever right" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. F.S.T. Electronics, 1st Floor, Plot No. 64, Industrial Focal Point, Phase-IX, Mohali, Distt. Ropar, Punjab and which is assigned the approval mark IND/09/2004/40:



The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 100 Kg. and minimum capacity of 200g. The verification scale interval (e) is 10g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36, of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg and upto 300 kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10000 for 'e' value of 5g or more and 'e' value of 1×10^k , 2×10^k or 5×10^k , k, being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(317)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का० आ० 2652.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम सं०	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
1.	2	3	4
1.	आई एस 7329 : 1974	संशोधन की संख्या 3, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
2.	आई एस 10720 : 1992	संशोधन की संख्या 2, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
3.	आई एस 13239:1991	संशोधन की संख्या 2, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
4.	आई एस 1060 (भाग 3) : 1969	संशोधन की संख्या 1, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
5.	आई एस 1398 : 1982	संशोधन की संख्या 1, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
6.	आई एस 1776 : 1989	संशोधन की संख्या 2, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
7.	आई एस 2483 : 1986	संशोधन की संख्या 3, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
8.	आई एस 3962 : 1967	संशोधन की संख्या 4, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
9.	आई एस 5134 : 1977	संशोधन की संख्या 1, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
10.	आई एस 5285 : 1998	संशोधन की संख्या 2, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
11.	आई एस 8970 : 1991	संशोधन की संख्या 1, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
12.	आई एस 9588 : 1990	संशोधन की संख्या 2, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
13.	आई एस 6615 : 1972	संशोधन की संख्या 2, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
14.	आई एस 14746 : 1999	संशोधन की संख्या 2, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004
15.	आई एस 4251 : 1967	संशोधन की संख्या 2, अगस्त 2004	31 अगस्त 2004

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : सी एच डी/जी एन]

एस० दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2652.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rules (1) of Rule (7) of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
1.	2	3	4
1.	IS 7329 : 1974	Amendment No. 3, AUG 2004	31-08-2004
2.	IS 10720 : 1992	Amendment No. 2, AUG 2004	31-08-2004
3.	IS 13239:1991	Amendment No. 2, AUG 2004	31-08-2004
4.	IS 1060 (Part 3) : 1969	Amendment No. 1, AUG 2004	31-08-2004
5.	IS 1398 : 1982	Amendment No. 1, AUG 2004	31-08-2004
6.	IS 1776 : 1989	Amendment No. 2, AUG 2004	31-08-2004
7.	IS 2483 : 1986	Amendment No. 3, AUG 2004	31-08-2004
8.	IS 3962 : 1967	Amendment No. 4, AUG 2004	31-08-2004
9.	IS 5134 : 1977	Amendment No. 1, AUG 2004	31-08-2004
10.	IS 5285 : 1998	Amendment No. 2, AUG 2004	31-08-2004
11.	IS 8970 : 1991	Amendment No. 1, AUG 2004	31-08-2004
12.	IS 9588 : 1990	Amendment No. 2, AUG 2004	31-08-2004
13.	IS 6615 : 1972	Amendment No. 2, AUG 2004	31-08-2004
14.	IS 14746 : 1999	Amendment No. 2, AUG 2004	31-08-2004
15.	IS 4251 : 1967	Amendment No. 2, AUG 2004	31-08-2004

Copy to these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : CHD/GN]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का० आ० 2653.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम सं०	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
1.	2	3	4
1.	आई एस 384 : 2002	संशोधन की संख्या 1, अगस्त 2004	15 अक्टूबर, 2004
2.	आई एस 3976 : 2003	संशोधन की संख्या 1, अगस्त 2004	15 अक्टूबर, 2004
3.	आई एस 1848 : 1991	संशोधन की संख्या 4, अगस्त 2004	30 सितम्बर, 2004
4.	आई एस 14572 : 1998	संशोधन की संख्या 1, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
5.	आई एस 4955 : 2001	संशोधन की संख्या 1, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
6.	आई एस 3008 : 2002	संशोधन की संख्या 2, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
7.	आई एस 3009 : 2002	संशोधन की संख्या 1, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
8.	आई एस 4208 : 1985	संशोधन की संख्या 1, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
9.	आई एस 4580 : 1986	संशोधन की संख्या 2, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
10.	आई एस 4584 : 2002	संशोधन की संख्या 1, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
11.	आई एस 486 : 1983	संशोधन की संख्या 1, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
12.	आई एस 1103 : 1984	संशोधन की संख्या 2, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
13.	आई एस 1104 : 1984	संशोधन की संख्या 1, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
14.	आई एस 2622 : 1986	संशोधन की संख्या 3, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
15.	आई एस 2701 : 1986	संशोधन की संख्या 2, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
16.	आई एस 2488 (भाग 5) : 1976	संशोधन की संख्या 2, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
17.	आई एस 5683 : 1970	संशोधन की संख्या 2, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
18.	आई एस 7473 : 1974	संशोधन की संख्या 3, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
19.	आई एस 7477 : 1974	संशोधन की संख्या 2, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
20.	आई एस 11750 : 1986	संशोधन की संख्या 2, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004
21.	आई एस 12920 : 1990	संशोधन की संख्या 1, सितम्बर 2004	30 सितम्बर, 2004

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : सी एच डी/जी एन]

एस० दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2653.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rules (1) of Rule (7) of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
1.	2	3	4
1.	आई एस 384 : 2002	Amendment No. 1, AUG 2002	15-10-2004
2.	आई एस 3976 : 2003	Amendment No. 1, AUG 2004	15-10-2004
3.	आई एस 1848 : 1991	Amendment No. 4, AUG 2004	30-09-2004
4.	आई एस 14572 : 1998	Amendment No. 1, SEP 2004	30-09-2004
5.	आई एस 4955 : 2001	Amendment No. 1, SEP 2004	30-09-2004
6.	आई एस 3008 : 2002	Amendment No. 2, SEP 2004	30-09-2004
7.	आई एस 3009 : 2002	Amendment No. 1, SEP 2004	30-09-2004
8.	आई एस 4208 : 1985	Amendment No. 1, SEP 2004	30-09-2004
9.	आई एस 4580 : 1986	Amendment No. 2, SEP 2004	30-09-2004
10.	आई एस 4584 : 2002	Amendment No. 1, SEP 2004	30-09-2004
11.	आई एस 486 : 1983	Amendment No. 1, SEP 2004	30-09-2004
12.	आई एस 1103 : 1984	Amendment No. 2, SEP 2004	30-09-2004
13.	आई एस 1104 : 1984	Amendment No. 1, SEP 2004	30-09-2004
14.	आई एस 2622 : 1986	Amendment No. 3, SEP 2004	30-09-2004
15.	आई एस 2701 : 1986	Amendment No. 2, SEP 2004	30-09-2004
16.	आई एस 2488 (Part 5) : 1976	Amendment No. 2, SEP 2004	30-09-2004
17.	आई एस 5683 : 1970	Amendment No. 2, SEP 2004	30-09-2004
18.	आई एस 7473 : 1974	Amendment No. 3, SEP 2004	30-09-2004
19.	आई एस 7477 : 1974	Amendment No. 2, SEP 2004	30-09-2004
20.	आई एस 11750 : 1986	Amendment No. 2, SEP 2004	30-09-2004
21.	आई एस 12920 : 1990	Amendment No. 1, SEP 2004	30-09-2004

Copy of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: CHD/GN]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का० आ० 2654.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम संशोधित भारतीय मानक की संख्या सं० और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
1.	2	3
1.	7231 : 1994	2, जुलाई 2004
		10 सितम्बर, 2004

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : सी ई डी/गजट]

एस० दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक(तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2654.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
1.	2	3
1.	7231 : 1994	2, July 2004
		10 September, 2004

Copy of this standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : CED/Gazette]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का० आ० 2655.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1.	2	3	4.
1.	आई एस 15518 (भाग-1) : 2004 तापदीप्ति लैम्पों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं : भाग 1 घरेलू और ऐसे ही सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए टंगस्टन फिलामेंट लैम्प	—	अगस्त, 2004

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : ई टी डी/जी-136]

एस० दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2655.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule (7) of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
1.	2	3	4
1.	IS 15518 (Part-I) : 2004 Safety Requirements for Incandescent Lamps Part-I Tungsten Filament Lamps for Domestic and similar General Lighting purposes	—	August 2004

Copy to this standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: ETD/G-136]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का० आ० 2656.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1.	2	3	4
1.	आई. एस. 15454 : 2004 “खुले प्रणालों में द्रव प्रवाह मापन-उर्ध्वाधरों की सीमित संख्या में प्रयुक्त करते हुए वेग-क्षेत्र पद्धति”	—	31-08-2004
2.	आई. एस. 11105 : 2004 “सुरंग प्लगों के डिजाइन तथा निर्माण पहलू की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)”	आई. एस. 11105 : 1984	31-08-2004
3.	आई. एस. 11855 : 2004 “द्रवचालित गेट के लिए विभिन्न प्रकार की रबड की सीलों के डिजाइन एवं उपयोग के दिशानिर्देश (पहला पुनरीक्षण)”	आई. एस. 11855 : 1986	31-08-2004

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : डब्ल्यू आर डी/जी-117]

एस० दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2656.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
1.	2	3	4
1.	IS 15454 : 2004 “Liquid flow measurement in open channels - Velocity-area method using a restricted number of verticals”	—	31-08-2004
2.	IS 11105 : 2004 “Design and construction of tunnel plugs - Code of practice (First revision)”	IS 11105 : 1984	31-08-2004

1.	2	3	4
3.	IS : 11855 : 2004 "Guidelines for design and use of different types of rubber seals for hydraulic gates (First revision)"	IS 11855 : 1986	31-08-2004

Copy to this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : WRD/G-117]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का० आ० 2657.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गए हैं:—

अनुसूची

क्रम सं. सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
1	2	3	4
1.	9282 : 2002 निलम्बन वाले पुलों के लिए तार और लड़े- विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	संशोधन सं. 1/अगस्त, 2004	14-09-2004

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ एम ई डी/जी-2 : 1]

एस० दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक(तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2657.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
1.	2	3	4
1.	9282 : 2002 Wire ropes and Strands for Suspension Bridges-Specification (First revision)	Amendment No. 1/Aug., 2004	14-09-2004

Copy of this Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : MED/G-2 : 1]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का० आ० 2658.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गए हैं:

अनुसूची

क्रम सं. संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
1	2	3
1. आई एस 628 : 1993	संशोधन संख्या 1 अगस्त, 2004	31 अगस्त, 2004

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : टी ई डी/जी-17 : 2]

एस० दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक(तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2658.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule (I) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
1	2	3
1. 628 : 1993	Amendment No. 1 August, 2004	31 August, 2004

Copy to these Standards is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : TED/G-17 : 2]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2659.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रान्त भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1	2	3	4
1.	आई एस 3387 : 2004 दुधब्रश-विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस 3387 : 1973	30 अगस्त, 2004
2.	आई एस 2307 : 2004 विस्फोटक और आतिशबाजी संघर्षन के लिए मैग्नीशियम पाउडर की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस 2307 : 1977	30 अगस्त, 2004

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : सी एच डी/जी एन]

एस. दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2659.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule (7) of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards Established	No. and year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standards	Date of Established
1	2	3	4
1.	IS 3387 : 2004 Tooth Brush-Specification (Second Revision)	IS 3387 : 1973	31 August, 2004
2.	IS 2307 : 2004 Magnesium Powder for Explosive and Pyrotechnic composition-specification (Second Revision)	IS 2307 : 1977	31 August, 2004

Copy to these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards. Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: CHD/GN]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2660.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1	2	3	4
1.	5890 : 2004 चल हाट-मिक्स एस्फाल्ट प्लांट हल्का उपयोग-अपेक्षाएँ (पहला पुनरीक्षण)	5890 : 1970	30 सितम्बर, 2004
2.	15475 (भाग 1) : 2004 मनोरंजन के लिए सुरक्षित सवारी की रीति संहिता भाग 1 सामान्य सूचना	—	30 सितम्बर, 2004

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एम ई डी/जी-2 : 1]

एस. दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2660.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards Established	No. and Year of Indian standards, if any, Superseded by the New Indian Standards	Date of Established
1	2	3	4
1.	5890 : 2004 (First Revision) Mobile hot mix Asphalt plant, Light duty- Requirements	5890 : 1970	30 September, 2004
2.	15475 (Part 1) : 2004 Code of recommended practice for amusement rides safety Part 1 General information	—	30 September, 2004

Copy to these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards. Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: MED/G-2 : 1]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2661.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1	2	3	4
1.	4925 : 2004 कंक्रीट बैचिंग और मिश्रण संयंत्र विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	4925 : 1968	31 अगस्त 2004
2.	5500 (भाग 1) : 2004 कंपन रोलर सामान्य अपेक्षाएँ भाग 1 : स्वतः नोदनित एकल ड्रम (दूसरा पुनरीक्षण)	5500 (भाग 1) : 1977 (पहला पुनरीक्षण)	31 अगस्त 2004
3.	5500 (भाग 2) : 2004 कंपन रोलर सामान्य अपेक्षाएँ भाग 2 : स्वतः नोदनित अग्रपश्च ड्रम (तीसरा पुनरीक्षण)	5500 (भाग 2) : 1992 (दूसरा पुनरीक्षण)	31 अगस्त 2004
4.	8198 : 2004 संपीडित गैस के लिए इस्पात के सिलिंडर वायुमंडली गैस, हाईड्रोजन, उच्च दाब (द्रवहीय गैस और घुलनशील एसिटलीन गैस) रीति संहिता	8198 (भाग 1 से भाग 4) : 1984	31 अगस्त 2004
5.	15449 (भाग 1) : 2004 घरेलू प्रयोजनों के लिए जिग-जैग सिलाई मशीन हैड भाग 1 : सामान्य अपेक्षाएँ	—	31 अगस्त 2004
6.	15449 (भाग 2) : 2004 घरेलू प्रयोजनों के लिए जिग-जैग सिलाई मशीन हैड भाग 2 : परिशुद्धता अपेक्षाएँ	—	31 अगस्त 2004
7.	15449 (भाग 3) : 2004 घरेलू प्रयोजनों के लिए जिग-जैग सिलाई मशीन हैड भाग 3 : सिलाई की अपेक्षाएँ	—	31 अगस्त 2004
8.	15449 (भाग 4) : 2004 घरेलू प्रयोजनों के लिए जिग-जैग सिलाई मशीन हैड भाग 4 : टिकाऊपन की अपेक्षाएँ	—	31 अगस्त 2004
9.	15475 (भाग 4) : 2004 मनोरंजन के लिए सुरक्षित सवारी की रीति संहिता भाग 4 : चयन प्रशिक्षण और प्रचालकों का पर्यवेक्षण	—	31 अगस्त 2004
10.	15485 : 2004 फोटोग्राफी-फ्लैश अनावरण मीटर-अपेक्षाएँ	—	31 अगस्त 2004
11.	15486 : 2004 फोटोग्राफी-कैमरे के लेंस-आई एस ओ स्पेक्ट्रमी संचरण का मापन	—	31 अगस्त 2004

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तपुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एम ई डी/जी-2 : 1]

एस. दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-I)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2661.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules (1) of Rule (7) of Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards Established	No. and Year of Indian standards, if any, Superseded by the New Indian Standards	Date of Establishment
1	2	3	4
1.	4925 : 2004 (First Revision) Concrete batching and mixing plant-Specification	4925 : 1968	31-08-2004
2.	5500 (Part 1) : 2004 (Second Revision) Vibratory roller—General requirements Part 1 Self-propelled tandem drum	5500 (Part 1) : 1977 (First Revision)	31-08-2004
3.	5500 (Part 2) : 2004 (Third Revision) Vibratory roller—General requirements Part 2 Self-propelled single drum	5500 (Part 2) : 1992 (Second Revision)	31-08-2004
4.	8198 : 2004 Steel cylinders for compressed gases (Atmospheric gases, Hydrogen, High pressure liquefiable gases and dissolved acetylene gases)—Code of practice	8198 (Part 1 to Part 4) : 1984	31-08-2004
5.	15449 (Part 1) : 2004 Household Zig-zag Sewing machine head : part 1 General requirements	—	31-08-2004
6.	15449 (Part 2) : 2004 Household Zig-zag Sewing machine head : part 2 Accuracy requirements	—	31-08-2004
7.	15449 (Part 3) : 2004 Household Zig-zag Sewing machine head : part 3 sewing requirements	—	31-08-2004
8.	15449 (Part 4) : 2004 Household Zig-zag Sewing machine head : part 4 Durability requirements	—	31-08-2004
9.	15475 (Part 4) : 2004 Code of recommended practice for amusement rides safety Part 4 Selection, Training and supervision of operators	—	31-08-2004
10.	15485 : 2004 Photography—Flash exposure meter - Requirements	—	31-08-2004
11.	15486 : 2004 Photography—Camera lenses - Measurement of ISO spectral transmittance	—	31-08-2004

Copy of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards. Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and all Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

(Ref: MED/G-2 : I)

S. DAS GUPTA, Scientist 'E' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2662.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1	2	3	4
1.	आई एस 15510 : 2004 भारी कार्य के लिए क्रैकित प्रेषण चेन	—	31-8-2004
2.	आई एस 15511 : 2004 साइकिल जंजीरें—अभिलक्षण और परीक्षण पद्धतियाँ	—	31-8-2004
3.	आई एस 6623 : 2004 उच्च सामर्थ्य वाली संरचना ढिबरियाँ—विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	—	31-8-2004

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एमजीपी 30/टी-35 व 30, एमजीपी 33/टी-92]

एस. दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2662.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules (1) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each.

SCHEDULE

Sl. No.	No. years and Title of the Indian Standards Established	No. & Year of Indian standards, if any, Superseded by the New Indian Standards	Date of Establishment
1	2	3	4
1.	IS 15510 : 2004 Heavy duty cranked-link transmission chains	—	31-08-2004
2.	IS 15511 : 2004 Cycle chains—Characteristics and test methods	—	31-08-2004
3.	IS 6623 : 2004 High strength structural nuts—Specification (Second revision)	—	31-08-2004

Copy of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards. Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : MGP 30/T-35 & 30/MGP 33/T-92]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2663.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या, वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
1	2	3	4
1.	आई एस 628 : 1993 साइकिल - पेडल समुच्चय - विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 अगस्त 2004	31 अगस्त 2004

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : टी ई डी/जी 17 : 2]

एस. दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2663.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. year and Title of the Indian Standards	No. & Year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
1	2	3	4
1.	IS 628 : 1993 Bicycles Pedal Assembly - Specification (Second Revision)	Amendment No. 1 August 2004	31 August 2004

Copy of this Standards is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: TED/G 17:2]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2664.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 15487 : 2004/आई एस ओ 15871 : 2000 औद्योगिक ट्रक्स - आधानों का प्रहस्तन और ग्रैपलर आर्म कार्यों की सूचक लाइट की विशिष्टि	नया	31 जुलाई 2004
2.	आई एस 15488 : 2004/आई एस ओ 15870 : 2000 पावर औद्योगिक ट्रक्स - सुरक्षा संकेत और संकट सूचक चित्रांकन - सामान्य सिद्धांत	नया	31 जुलाई 2004
3.	आई एस 9435 : 2004 दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों को छोड़कर सड़क वाहनों के आयाम से संबंधित शब्दावली एवं परिभाषाएं (पहला पुनरीक्षण)	आई एस 9435 : 1980	31 अगस्त 2004
4.	आई एस 12511 (भाग 2) : 2004 कमनियां - चकती कमानी भाग 2 विशिष्टि - दूसरा पुनरीक्षण	आई एस 12511 (भाग 2) : 1989	31 अगस्त 2004
5.	आई एस 15453 : 2004 विमान के लिए रेडियल/क्रास प्लॉई टायरों की रिफिलिंग - विशिष्टि	नया	31 अगस्त 2004
6.	आई एस 15453 : 2004 स्प्रिंग - मरोड सरिया स्प्रिंग - विशिष्टि	नया	31 अगस्त 2004
7.	आई एस 12511 (भाग 1) : 2004 कमनियां - चकती कमानी भाग 1 डिजाइन परिकलन (पहला पुनरीक्षण)	आई एस 12511 (भाग 1) : 1989	30 सितम्बर 2004
8.	आई एस 9574 : 2004 पट्टा कमानी समुच्चय क्लिप्स - विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस 9574 : 1989	30 सितम्बर 2004

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ.: टी ई डी/जी-17 : 2]

एस. दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2664.—In pursuance of clause (b) of sub rule (1) of Rules (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. Year and Title of the Indian Standards Established	No. & Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 15487 : 2004/ISO 15871 : 2000 Industrial Trucks - Specification for indicator lights for container handling and grappler arm operations	New	31 July 2004
2.	IS 15488 : 2004/ISO 15870 : 2000 Powered Industrial Trucks - Safety signs & hazard pictorials - General principles	New	31 July 2004
3.	IS 9435 : 2004 Terms and Definitions relating to dimensions of road vehicles other than 2 and 3 wheelers (First revision)	IS 9435 : 1980	31 August 2004
4.	IS 12511 (Part 2) : 2004 Springs - Disc spring Part 2 Specification (First revision)	IS 12511 (Part 2) : 1989	31 August 2004
5.	IS 15428 : 2004 Retreading of radial/cross ply tyres for aircraft - Specification	New	31 August 2004
6.	IS 15453 : 2004 Spring - Torsion bar springs - Specification	New	31 August 2004
7.	IS 12511 (Part 1) : 2004 Springs - Disc spring Part 1 Design calculation (First revision)	IS 12511 (Part 1) : 1989	30 September 2004
8.	IS 9574 : 2004 Leaf springs assembly clips - Specification (Second revision)	IS 9574 : 1989	30 September 2004

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram

[Ref: TED/G-17:2]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2665.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1	2	3	4
1.	आई एस 15470 : 2004/आई. एस. ओ. 6645 : 1981	—	31 जुलाई 2004
गेहूँ का आटा - शुष्क लासा का निर्धारण			

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एफ ए डी/जी/128]

एस. दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2665.—In pursuance of clause (b) of Sub rule (1) of Rules (1) of Rule (7) of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards Established	No. and Year of Indian standards, if any, superseded by the New Indian Standards	Date of Established
1	2	3	4
I.	IS 15470 : 2004/ISO 6645 : 1981	—	31 July, 2004
WHEAT FLOUR DETERMINATION OF DRY GLUTEN			

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : FAD/G/128]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2666.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक (को) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1	2	3	4
1.	आई एस 13805 : 2004 - अविनाशी परीक्षण में लगे कार्मिकों का प्रमाणन और योग्यताओं के लिए सामान्य प्रतिमान (पहला पुनरीक्षण)	आई एस 13805 : 1993 - अविनाशी परीक्षण में लगे कार्मिकों का प्रमाणन और योग्यताओं के लिए सामान्य प्रतिमान	अगस्त 2004

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एम.टी.डी. 21/टी-44]

एस. दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2666.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules (1) of Rule (7) of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and years of the Indian Standards Established	No. and Year of Indian standards, if any, Superseded by the New Indian Standards	Date of Established
1	2	3	4
1.	IS 13805 : 2004 General Standard for Qualification and Certification of Non-Destructive Testing Personnel Specification (First Revision)	IS 13805 : 1993 General Standard for Qualification and Certification of Non-Destructive Testing Personnel	August 2004

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-I 10002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: MTD 21/T-44]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2667.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1	2	3	4
1.	आई एस 8780 : 2004 - इस्पात ढलाइयों के अविनाशी परीक्षण हेतु - रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	आई एस 8780 : 1978 - इस्पात ढलाइयों के अविनाशी परीक्षण हेतु - रीति संहिता	सितम्बर 2004

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एम.टी.डी. 21/टी-35]

एस. दास गुप्ता, वैज्ञानिक 'एफ' उप महानिदेशक (तकनीकी-1)

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2667.—In pursuance of clause (b) of sub rule (1) of Rules (1) of Rule (7) of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and years of the Indian Standards Established	No. and year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standards	Date of Established
1	2	3	4
1.	IS 8780 : 2004 Non-Destructive Testing of Steel Castings - Code of Practice (First Revision)	IS 8780 : 1978 Code of Practice Non-Destructive Testing of Steel Castings	September 2004

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: MTD 21/T-35]

S. DAS GUPTA, Scientist 'F' Dy. Director General (Tech-I)

**कोयला और खान मंत्रालय
(कोयला विभाग)**

अदेश

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2668.—केन्द्रीय धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्यां का.आ. 343, तारीख 05 फरवरी, 2004 जो भारत के राजपत्र, तारीख 14 फरवरी, 2004 को प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से अनुसूची में वर्णित भूमि उपाबद्ध उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का, समाधान हो गया है, कि सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त और सरकारी कंपनी कहा गया है) ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उस पर के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, तारीख 14 फरवरी, 2004 से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधिन रहते हुए, उक्त सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे अर्थात्—

1. सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबधों के अधीन अवधारित प्रतिकर, ब्याज, और नुकसानियों इत्यादि की बाबत किये गये सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी ;
2. सरकारी कंपनी द्वारा शर्त 1 के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अबधारण करने के प्रयोजन के लिये एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा अधिकरण की सहायता के लिये नियुक्त सभी व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी वहन करेगी और इसी प्रकार निहित भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों जैसे अपील आदि की बाबत उपगत सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी वहन करेगी ;

3. सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में, जो इस प्रकार निहित भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उस पर के अधिकारों के बारे में, आवश्यक हो, क्षतिपूर्ति करेगी ;

4. सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ;

5. सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित की जाएं, पालन करेगी ।

[फा. सं. -43015/22/2000-पी.आर.आई. डब्ल्यू.]
गार्गी मुखर्जी, निदेशक

**Ministry of Coal and Mines
(Department of Coal)
ORDER**

New Delhi, the 13th October, 2004

S. O. 2668.— Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal (Department of Coal) number S.O.343 dated the 5th February, 2004, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), and published in the Gazette of India dated 14th February, 2004 the land described in the said schedule appended to the said notification vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said act;

And whereas the Central Government is satisfied that the Central Coalfields Limited, Ranchi (hereinafter referred to as the "Government Company" is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the lands and rights vested shall with effect from the 14th February, 2004 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the said Government Company, subject to the following terms and conditions, namely :-

- (1). The Government Company shall reimburse of Central Government all payments made in respect of compensation, interest and damages etc , as determined under the provisions of the said Act.
- (2). A tribunal shall be constituted for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government Company under condition (1) and all persons

appointed to assist the tribunal shall be borne by the Government Company, and, similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals etc. for or in connection with the rights, in or over the lands, so vesting shall also be borne by the Government Company.

- (3). The Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditures that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights or in over the lands so vesting.
- (4). The Government Company shall have no powers to transfer the lands specified in the schedule to the said notification to any other person without the previous approval of the Central Government.
- (5). The Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas, as and necessary.

[No. 43015/22/2000-P.R.I.W.]
GARGI MUKHERJEE, Director

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2669.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957, (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले रेखांक सं० एसईसीएल/बीएसपी/जीम/ (पीएलजी)/भूमि/286 तारीख, 17 मार्च, 2004 का निरीक्षण कलेक्टर, शहडोल (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 700001 या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), सीपत रोड, बिलासपुर - 495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में, हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर भारसाधक अधिकारी/विभागाध्यक्ष (राजस्व), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सीपत रोड, बिलासपुर - 495006 (छत्तीसगढ़) को भेजेंगे।

अनुसूची
दुलहरा ब्लाक, सोहागपुर क्षेत्र
जिला - शहडोल (मध्यप्रदेश)

(रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/पीएलजी/भूमि/286 तारीख 17 मार्च, 2004) (पूर्वक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए)

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं०	तहसील	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टर लगभग)	टिप्पणी
1	सेमरिया	16	सोहागपुर	शहडोल	381.840	संपूर्ण
2	हर्रा	16	सोहागपुर	शहडोल	266.542	संपूर्ण
3	चटहा	16	सोहागपुर	शहडोल	160.230	संपूर्ण
4	भानपुर	18	सोहागपुर	शहडोल	515.973	संपूर्ण
5	दगदहा	19	सोहागपुर	शहडोल	80.890	संपूर्ण
6	करुई	19	सोहागपुर	शहडोल	223.883	संपूर्ण
7	मिठौरी	20	सोहागपुर	शहडोल	723.670	संपूर्ण
8	दुलहरा	20	सोहागपुर	शहडोल	174.932	संपूर्ण
9	छीरपानी	20	सोहागपुर	शहडोल	206.631	संपूर्ण
10	सिंगुडी	20	सोहागपुर	शहडोल	200.448	भाग
11	करुआँताल	20	सोहागपुर	शहडोल	155.882	संपूर्ण
12	निपनिया	20	सोहागपुर	शहडोल	212.881	संपूर्ण
13	बकतावल	20	सोहागपुर	शहडोल	74.376	संपूर्ण
कुल योग:- 3378.178 हेक्टर (लगभग) या 8347.48 एकड़ (लगभग)						

सीमा विवरण:

- क-ख रेखा ग्राम मिठौरी की सीमा पर बिन्दु “क” से आरंभ होती है और ग्राम मिठौरी, दगदहा, करुई की उत्तरी सीमा के साथ-साथ गुजरती है और बिन्दु “ख” पर मिलती है।
- ख-ग रेखा ग्राम करुई, दुलहरा, करुआँताल की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गुजरती है और बिन्दु “ग” पर मिलती है।
- ग-घ रेखा ग्राम निपनिया, बकतावल, सिंगुडी, की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ और फिर ग्राम सिंगुडी से होते हुए गुजरती है और बिन्दु “घ” पर मिलती है।
- घ-क रेखा ग्राम सिंगुडी, छीरपानी, चटहा, हर्रा, सेमरिया, मिठौरी, की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ गुजरती है और आरम्भिक बिन्दु “क” पर मिलती है।

New Delhi, the 14th October, 2004

S. O. 2669.— Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisitions and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The Plan bearing Number: SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/286 dated the 17th March, 2004 of the area covered by this notification can be inspected in the Office of the Collector, Shahdol (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-700 001 or in the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur – 495006 (Chhattisgarh).

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Officer-in-Charge/Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur – 495006 (Chhattisgarh), within ninety days from the date of publication of this notification in the official gazette.

Schedule

Dulahra Block, Sohagpur Area District-Shahdol (Madhya Pradesh)

(Plan No. SECL/BSP/GM(Plg)/Land 286 dated 17th March 2004, (showing the land notified for prospecting))

Serial number	Name of village	Patwari halka number	Tahsil	District	Area in (hectares)	Remarks
1.	Semrlya	16	Sohapur	Shahdol	381.840	Full
2.	Harra	16	Sohapur	Shahdol	266.542	Full
3.	Chatha	16	Sohapur	Shahdol	160.230	Full
4.	Bhanpur	18	Sohapur	Shahdol	515.973	Full
5.	Dagdaha	19	Sohapur	Shahdol	80.890	Full
6.	Karui	19	Sohapur	Shahdol	223.883	Full
7.	Mithori	20	Sohapur	Shahdol	723.670	Full
8.	Dulahra	20	Sohapur	Shahdol	174.932	Full
9.	Chhirpani	20	Sohapur	Shahdol	206.631	Full
10.	Siguri	20	Sohapur	Shahdol	200.448	Part
11.	Karuatal	20	Sohapur	Shahdol	155.882	Full
12.	Nipaniya	20	Sohapur	Shahdol	212.881	Full
13.	Baktaval	20	Sohapur	Shahdol	74.376	Full
Total area: 3378.178 (hectares) (approximately) or 8347.48 acres (approximately)						

Boundary description

- A-B** Line starts from point "A" on the boundary of Mithori village and passes along the Northern boundary of villages Mithori, Dagdaha, Karui and meets at point "B".
- B-C** Line passes along the Eastern boundary of villages Karui, Dulahra, Karuatal and meets point "C".
- C-D** Line passes along the Southern Boundary of villages Nipaniya, Baktaval, Siguri, then through village Siguri and meets point "D".
- D-A** Line passes along the western boundary of village Siguri, Chhirpani, Chatha Harra, Semriya, Mithori and meets point "A".

[No. 43015/16/2004-P.R.I.W.]
GARGI MUKHERJEE, Director

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2670.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957, (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक सं० एमसीएल/एसएएमबी/जीएम (सी पी एण्ड पी) कोणार्क/2003/16, तारीख 26.12.2003 का निरीक्षण महाप्रबंधक (सी पी एण्ड पी) , महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, संबलपुर -768020 (उड़ीसा) के कार्यालय में या कलक्टर और जिला माजिस्ट्रेट अंगुल, उड़ीसा के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नब्बे दिन के भीतर भारसाधक अधिकारी/विभागाध्यक्ष (राजस्व/सम्पदा), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, संबलपुर -768020 (उड़ीसा) को देंगे ।

अनुसूची

कोणार्क ब्लाक, तलचेर कोलफील्ड्स

जिला - अंगुल (उड़ीसा)

पूर्वक्षेत्र के लिए अधिसूचित भूमि

क्र. सं.	ग्राम	पुलिस खाना और क्रम सं०	तहसील/उप खंड	जिला राज्य खंड	क्षेत्र (एकड़ लगभग)	टिप्पियां
1	2	3	4	5	6	7
1	बाघबासपुर	कोलियरी/11	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	297.530	संपूर्ण
2	सोलडा	कोलियरी/12	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	2160.060	भाग
3	बनबासपुर	कोलियरी/10	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	549.230	भाग
4	तेलीपुर	कोलियरी/13	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	368.900	संपूर्ण
5	गोपालप्रसाद खमार	कोलियरी/09	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	132.050	संपूर्ण
6	खुरिगां	कोलियरी/14	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	162.040	संपूर्ण
7	सत्यबादीपुर	कोलियरी/20	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	73.980	संपूर्ण
8	तेलीपसी	कोलियरी/21	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	239.760	संपूर्ण
9	सरांग	तालचेर/67	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	248.130	संपूर्ण
10	किशोरचन्द्रपुर	तालचेर/68	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	104.140	संपूर्ण
11	जोरागाडिया	तालचेर/69	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	90.000	भाग
12	गोपालप्रसाद आरक्षित बन	कोलियरी/07	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	170.000	भाग
13	खजुरीया	तालचेर/66	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	202.490	संपूर्ण
14	नीलादीपुर	तालचेर/22	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	34.630	संपूर्ण
15	प्रसन्न नगर	कोलियरी/19	तालचेर	अंगुल/उड़ीसा	196.660	भाग
कुल 5029.60 एकड़ (लगभग) या 2035.451 हेक्टर (लगभग)						

सीमा वर्णन:-

क-ख-ग रेखा सिंगडा नदी के पूर्वी किनारे पा ग्राम बाघबासपुर की उत्तरी सीमा पर बिन्दु 'क' से आरंभ होती है। यह ग्राम बाघबासपुर, सोलडा, खजुरीया, सरांग और किशोरचन्द्रपुर की उत्तरीसीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जाती है। यहां से यह ग्राम जोरागाडिया से होकर पूर्व ओर बिन्दु 'ग' तक जाती है।

ग-घ-ङ बिन्दु ' ग' से यह ग्राम जोरागाडिया से होकर दक्षिण की ओर जाती है और ग्राम किशोरचन्द्रपुर की पूर्वी सीमा को बिन्दु ' घ' पर छूती है। बिन्दु ' घ' से यह ग्राम किशोरचन्द्रपुर की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दु ' ङ' तक जाती है ।

ङ-च-छ-ज-झ रेखा बिन्दु ' ङ' से ग्राम किशोरचन्द्रपुर और सरांग की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु ' च' तक जाती है । तब यह ग्राम प्रसन्नगर की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दु ' छ' तक जाती है। तब यह ग्राम प्रसन्नगर, सोल्डा और बीरबरपुर से होती हुई पश्चिम की ओर बिन्दु ' ज' तक जाती है । तब यह ग्राम खुरिंगा की पूर्वी और दक्षिणी सीमा के साथ-साथ दक्षिण और पश्चिम की ओर जाती है गोपालप्रसाद खमार की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ सिंगडा नदी के पूर्वी किनारे पर बिन्दु ' झ' तक आगे जाती है ।

झ-क रेखा ग्राम गोपालप्रसाद खमार, बनबासपुर और बाघबासपुर, जो सिंगडा नदी का पूर्वी किनारे है, की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर जाती है और आरंभिक बिन्दु ' क' पर मिलती है ।

[फा. सं. - 43015/21/2004-पो.आर.आई. डब्ल्यू.]
गार्गी मुखर्जी, निदेशक

New Delhi, the 15th October, 2004

S. O. 2670.— Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisitions and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The Plan bearing No. MCL/SAMB/GM(CP&P)/Konark/2003/16 dated 26.12.2003 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Chief General Manager(CP&P), Mahanadi Coalfields Limited, Jagriti Vihar, Post Office Jagriti Vihar, Sambalpur -- 768020 (Orissa) or at the office of the Collector and District Magistrate, Angul, Orissa or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the officer-in-charge/Head of the Department (Revenue/Estate), Mahanadi Coalfields Limited Jagriti Vihar Post Office, Jagriti Vihar, Sambalpur -- 768020 (Orissa) within ninety days from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

**Konark Block, Talcher Coalfield
District Angul (Orissa)**

(Land notified for prospecting)

Sl. no	Village	Police station & no	Tahsil/ sub division	District/ state	Area in (acres)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Baghabasapur	Colliery/11	Talcher	Angul/Orissa	297.53	Full
2.	Solada	Colliery/12	Talcher	Angul/Orissa	2160.060	Part
3.	Banabaspur	Colliery/10	Talcher	Angul/Orissa	549.230	Part
4.	Telipura	Colliery/13	Talcher	Angul/Orissa	368.900	Full
5.	Gopalprasadkhamar	Colliery/9	Talcher	Angul/Orissa	132.050	Full
6.	Khuringa	Colliery/14	Talcher	Angul/Orissa	162.040	Full
7.	Satyabadipur	Colliery/20	Talcher	Angul/Orissa	73.980	Full
8.	Tileipasi	Colliery/21	Talcher	Angul/Orissa	239.760	Full
9.	Saranga	Talcher/67	Talcher	Angul/Orissa	248.130	Full
10.	Kishorechandrapur	Talcher/68	Talcher	Angul/Orissa	104.1400	Full
11.	Joragadia	Talcher/69	Talcher	Angul/Orissa	90.000	Part
12.	Gopalprasad Reserve Forest	Talcher/07	Talcher	Angul/Orissa	170.000	Part
13.	Khajuria	Colliery/66	Talcher	Angul/Orissa	202.490	Full
14.	Niladripur	Colliery/22	Talcher	Angul/Orissa	34.630	Full
15.	Prasananagar	Colliery/19	Talcher	Angul/Orissa	196.660	Part
Total area: 5029.60 acres (approximately) or 2035.451 hectares (approximately)						

Boundary description

- A-B-C** The line starts from point 'A' on the northern boundary line of village Baghabasapur on the eastern bank of Singda river. It proceeds towards east along the northern boundary of village Baghabasapur, Solda, Khajuria, Saranga and Kishorechandrapur upto point 'B'. From here it moves towards east through village Jaragadia upto point 'C'.
- C-D-E** From point 'C' it moves towards south through village Joragadia and touches the eastern boundary line of village Kishorechandrapur at point 'D'. From point 'D' it moves towards south along the eastern boundary of village Kishorechandrapur upto point 'E'.
- E-F-G-H-I** From point 'E' the line moves towards west along the southern boundary of villages Kishorechandrapur and Saranga upto point 'F'. Then it proceeds towards south along the eastern boundary of village Prasananagar upto point 'G'. Then it moves towards west through villages Prasananagar, Solda and Birabarpur upto point 'H'. Then it moves towards south and west along the eastern and southern boundary of village Khuringa. Then it proceeds towards north-west through Gupalprasad Reserve Forest and along the western boundary of village Gopalprasad Khamar upto the eastern bank of Singda river at point 'I'.

I-A

The line proceeds towards north along the western boundary of village Gopalprasad Khamar, Banabaspur and Raghabaspur which is the eastern bank of Singda river and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/21/2004-P.R.I.W.]
GARGI MUKHERJEE, Director

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2004

का. अ. 2671.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1979 तारीख 30 जून, 2003 द्वारा, जो भारत के राजपत्र 2, खण्ड 3, उपखंड (ii), तारीख 19 जुलाई, 2003 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 4695.52 एकड़ (लगभग) या 1900.25 (हेक्टेयर) (लगभग) है, कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी। और केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 2527.460 एकड़ (लगभग) या 1022.849 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि में सभी अधिकारों अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

1. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं० एमसीएल/एस ए एम बी/महा प्रबंधक (सी.पी. और पी/ गोपालप्रसाद (पश्चिम) /04/28 तारीख 28-4-2004 का निरीक्षण कलक्टर, अंगुल, (उड़ीसा) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता के कार्यालय में या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (निगमित/योजना और परियोजना विभाग), जाग्रति विहार, डाकघर जाग्रति विहार, बुरला, जिला सम्बलपुर (उड़ीसा) के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :—

अर्जन की बाबत आक्षेप

8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आक्षेप कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के अन्तर्गत यह आक्षेप नहीं माना जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएँ करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएँ केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों के सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित

भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आक्षेपों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्याक्त किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता, यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।”

अनुसूची

गोपालप्रसाद (पश्चिम) खंड
तलचर कोलफिलडस (हिंगुला क्षेत्र)
जिला अंगुल (उड़ीशा)

सभी अधिकारः—

प्लान सं० एमसीएल/एसएएमबी/जीएम(सीपी- पी)/गोपालप्रसाद (पश्चिम)/04/28 दिनांक 28.4.2004

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पुलिस स्टेशन और सं	तहीसल/ उपखंड	जिला/ राज्य	क्षेत्र एकड में	टिप्पणी
1	बलीचन्द्रपुर	जारापाडा-67	छेंडिपाडा	अंगुल/ उड़ीसा	225.990	भाग
2	पिराखमाना	जरापाडा-66	छेंडिपाडा	अंगुल/ उड़ीसा	246.150	पूर्ण
3	छोटाबेरिनी	जरापाडा-64	छेंडिपाडा	अंगुल/ उड़ीसा	173.780	भाग
4	कनकरी	जारापाडा-65	छेंडिपाडा	अंगुल/ उड़ीसा	733.670	भाग
5	कौंसिधिपा	जारापाडा-63	छेंडिपाडा	अंगुल/ उड़ीसा	8.930	भाग
6	भालूगडिया	कोलेरी-01	तलचर	अंगुल/ उड़ीसा	653.290	भाग
7	बागुआबोला	कोलेरी-01	तलचर	अंगुल/ उड़ीसा	40.730	पूर्ण
8	कुमुदा	कनिहा-03	अंगुल	अंगुल/ उड़ीसा	63.500	भाग
9	कुसुमपाल	कोलेरी-01	अंगुल	अंगुल/ उड़ीसा	20.320	भाग
10	जैतपुर रक्षित वन	छेंडिपाडा	तलचर	अंगुल/ उड़ीसा	5.000	भाग
11	निसा रक्षित वन	जारापाडा	तलचर	अंगुल/ उड़ीसा	356.100	भाग
योग					2527.460 एकड (लगभग) या 1022.849 हेक्टेयर (लगभग)	

1. बालीचंदरपुर ग्राम (भाग) में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट सं०

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45(भाग), 46(भाग), 47(भाग), 51(भाग), 52, 53(भाग), 75(भाग), 76, 77(भाग), 78(भाग), 76/269, 36/271(भाग), 39/272(भाग), 46/273, 46/274, 35/284, 26/288, 36/291, 33/292, 15/297, 177/306, 177/311(भाग) & 177/329(भाग).

2. पिराखमाना ग्राम (पूर्ण) में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट सं०

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 104/134, 103/135, 110/136, 130/137, 9/138, 2/139, 132/140, 132/141, 127/192, 127/193, 127/194, 127/195, 127/196, 127/197, 127/198, 127/199, 127/200, 127/201, 127/202, 127/203, 127/212, & 127/216.

3. छोटाबेरिनी ग्राम (भाग) में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट सं०

84(भाग), 85(भाग), 87(भाग), 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132(भाग), 137(भाग), 138(भाग), 140(भाग), 141(भाग), 150(भाग), 171(भाग), 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184(भाग), 187(भाग), 188, 189, 190, 191, 192(भाग), 193(भाग), 204(भाग), 205(भाग), 206(भाग), 207, 208, 209(भाग), 210(भाग), 213(भाग), 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 271/311, 84/312, 88/323, 204/325, 229/334, 229/335, 297/336, 296/337, 85/338(भाग), 270/339, 92/341, 243/345, 243/346, 234/347, 272/348, 285/349, 278/350, 278/351, 109/352, 91/353, 249/355, 249/356, 100/357, 221/359, 97/363, 251/365, 234/366, 296/367, 222/368, 223/369 & 268/370.

4. कनकेरी ग्राम (भाग) में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट सं०

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728(भाग), 735(भाग), 738(भाग), 739(भाग), 740(भाग), 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747(भाग), 748(भाग), 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,

1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686(भाग), 1689(भाग), 1690(भाग), 1692(भाग), 1726(भाग), 1727(भाग), 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739(P), 1740(भाग), 1743, 1744, 1745, 1746(भाग), 1747(भाग), 1748(भाग), 1760(भाग), 1829, 1830, 1831(भाग), 1837(भाग), 1848(भाग), 1849(भाग), 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867,

1868, 1869, 1870(भाग), 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876(भाग), 1877(भाग), 26/1942, 83/1943, 595/1944, 607/1945, 607/1946, 850/1947, 1031/1948, 1024/1949, 757/1950, 1524/1951, 598/1952, 946/1953, 334/1954, 83/1955, 1417/1957, 465/1958, 1521/1959, 295/1963, 1674/1964, 1674/1965, 1673/1966, 1676/1971, 89/1972, 495/1973, 774/1974, 60/1976, 60/1977, 62/1978, 624/1979, 783/1980, 685/1981, 63/1982, 94/1983, 1866/1990, 38/1993, 61/1994, 1384/1996, 1680/2001, 221/2003, 1246/2004, 83/2005, 60/2006, 1417/2007, 780/2008, 498/2009, 241/2010, 1392/2011, 246/2012, 1105/2016, 778/2017, 1865/2018, 330/2019, 334/2020, 543/2022, 552/2023, 500/2024, 199/2025, 557/2026, 1870/2173(भाग), 1870/2176, 1870/2177, 1870/2178, 1870/2179, 1870/2180, 1870/2181(भाग), 1870/2182, 1870/2183, 1870/2184, 1870/2194(भाग), 1870/2195 & 1870/2196(भाग).

5. कौंसिधिपा ग्राम (भाग) में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट सं०

800(भाग), 801, 802, 803, 804, 805, 806(भाग), 807(भाग), 808(भाग), & 809(भाग).

6. भालूगड्डिआ ग्राम (भाग) में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट सं०

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580.

581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608,

609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335,

1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025,

2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040,
 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055,
 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070,
 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085,
 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100,
 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115,
 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130,
 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145,
 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160,
 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175,
 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189,
 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204,
 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219,
 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234,
 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249,
 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264,
 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279,
 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294,
 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309,
 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324,
 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339,
 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354,
 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369,
 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384,
 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398,
 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413,
 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428,
 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443,
 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458,
 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473,
 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488,
 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503,
 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518,
 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533,
 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548,
 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563,
 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578,
 2579, 2580, 2581, 2583, 2007/2584, 2029/2585, 2028/2586, 1912/2587, 160/2588, 291/2589(P),
 1788/2590, 2057/2591, 1/2592, 12/2593, 22/2594, 1550/2595, 448/2596, 449/2597, 477/2598,
 125/2599, 996/2600, 762/2601, 1235/2602, 564/2603, 1450/2604, 1499/2605, 2165/2606,
 2165/2607, 42/2608, 1522/2609, 2123/2610, 2498/2611, 2090/2612, 1521/2613, 1521/2614,
 1521/2615, 1278/2616, 119/2617, 1456/2618, 69/2619, 1519/2620, 2417/2621, 2073/2622,
 2083/2623, 479/2624, 2122/2625, 1968/2626, 2144/2627, 1570/2628, 1913/2629, 2089/2630,
 1725/2631, 1074/2632, 2220/2633, 1778/2634, 583/2635, 36/2636, 36/2637, 1467/2638,
 1765/2639, 1765/2640, 1765/2641, 1765/2642, 1765/2643, 1731/2644, 2007/2645, 2008/2646,
 2013/2647, 2013/2648, 2577/2649, 2574/2650, 2574/2651, 2574/2652, 2553/2653, 158/2654,

158/2655, 158/2656, 158/2657, 158/2658, 392/2659, 1828/2660, 2113/2661, 2270/2662, 2272/2663, 2271/2664, 280/2665, 1191/2666, 162/2667, 2369/2668, 2370/2669, 2368/2670, 576/2671, 787/2672, 1789/2673, 503/2674, 1314/2675, 1315/2676, 2464/2677, 2287/2678, 384/2679, 384/2680, 148/2681, 1727/2682, 1557/2683, 2572/2684, 2531/2685, 62/2686, 62/2687, 2156/2688, 2319/2689, 2246/2690, 2471/2691, 191/2692, 2553/2693, 1028/2694, 2180/2695, 2358/2696, 1833/2697, 2025/2698, 1016/2699, 1010/2700, 1008/2701, 520/2702, 1012/2703, 1016/2704, 1815/2705, 1816/2706, 1787/2707, 425/2708, 2154/2709, 889/2710, 46/2711, 2553/2712, 2163/2713, 2193/2714, 2193/2715, 2412/2716, 171/2717, 1365/2718, 270/2719, 452/2720, 380/2721 & 32/2722.

7. बागुआबोला ग्राम (पूर्ण) में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट सं०

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 & 83/121.

8. कुमुदा ग्राम (भाग) में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट सं०

650, 651, 652, 656, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1404, 978/5782, 979/5783, 1404/5785, 984/5803, 956/6013, 956/6014 & 956/6015.

9. कुसुमपाल ग्राम (भाग) में अर्जित किये जाने वाले प्लॉट सं०

345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 434, 450/989 & 434/1085.

सीमा वर्णन —

क-ख-ग-घ- रेखा ग्राम कुमुदा भालुगाडिआ और कुसुमपाल के त्रयीमिलन स्तम्भ बिन्दु "क" से आरंभ होती है फिर धुरुडियानाला के पूर्वी किनारे के साथ-साथ होती हुई बिन्दु ख पर पहुँचती है उसके बाद रेखा प्लॉट सं. 383 के दक्षिणी सीमा, ग्राम कुसुमपाल के बिन्दु "ग" पर मिलती है प्लॉट सं 434 की, उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गुजरती हुई बिन्दु "ग" पर मिलती है उसके बाद धुरुडिआनाला के पूर्वी किनारे के साथ-साथ बिन्दु "घ" तक गुजरती है जो ग्राम भालुगाडिआ, गोपालप्रसाद और नुहुआमुहीन संरक्षित वन त्रयीमिलन स्तम्भ है।

घ - ङ - च - रेखा बिन्दु "घ" से प्रारंभ होती है निसा संरक्षित वन के पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु "ङ" तक गुजरती है उसके बाद निसा संरक्षित वन की पश्चिम एवं दक्षिणी सीमा की तरफ मुड़ती है और निसा संरक्षित वन से होकर गुजरती है।

च - छ - ज - रेखा बिन्दु "च" से प्रारंभ होती है, प्लॉट सं. 272, 39, 38 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ प्लॉट सं. 285, 45, 46, 47 से होकर जाती है और प्लॉट सं. 51, 271, 53, 75, 77, 78, 311 से होकर गुजरती है और प्लॉट सं. 306 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गुजरती है और फिर बिन्दु "छ" तक ग्राम बालीचंदरपुर के प्लॉट सं. 329 से होकर गुजरती है एवं उसके बाद रेखा ग्राम कनकेरी के प्लॉट सं. 2194, 2196, 1870 से होकर गुजरती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है।

ज - झ -ञ - रेखा बिन्दु "ज" से प्लॉट सं. 1870, 2173, 2181 से होकर उत्तर की ओर मुड़ती है और पश्चिम की ओर मुड़ती है और प्लॉट सं. 1870 से होकर दोबारा गुजरती है और प्लॉट सं. 1874 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ गुजरती है फिर प्लॉट सं. 1877, 1876, 1848, 1849 से गुजरती है उसके बाद प्लॉट सं. 1837 एवं 1836 के पश्चिम सीमा के साथ-साथ होती हुई दोबारा प्लॉट सं. 1831, 1739, 1740, 1747, 1746, 1748, 1727, 1726, 1692, 1690, 1689, 1686 से गुजरती है और फिर सड़क के प्लॉट सं. 1785 को पार करती है उसके बाद प्लॉट सं. 1760 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गुजरती है, ग्राम कनकेरी के प्लॉट सं. 740, 739, 938, 735 से होकर गुजरती है और धरुडियानाला को पार करती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है उसके बाद रेखा ग्राम कौसिधिया के प्लॉट सं. 807, 808, 809, 800 से गुजरती हुई बिन्दु "त्र" पर मिलती है जो ग्राम कौसिधिया और छोटाबेरिनी का सांझा सम्मिलित सीमा है।

ञ - ट - रेखा बिन्दु "ञ" से प्रारंभ होती है, ग्राम छोटाबेरिनी के प्लॉट सं. 204, 205, 206, 209, 210, 213, 193, 192, 187, 184, 171, 150, 132, 137, 138, 140, 141, 87, 338, 85, 84 से होकर गुजरती है और सिंगडा जोरा अर्थात् प्लॉट सं. 312 को पार करती है और बिन्दु "ट" पर मिलती है अर्थात् ग्राम छोटाबेरिनी एवं जैपुर संरक्षित वन का सम्मिलित सीमा।

ट - ठ - रेखा बिन्दु "ट" से जैपुर संरक्षित वन से होकर बिन्दु "ठ" तक जाती है अर्थात् ग्राम कनकेरी, कुमुंदा और जैपुर संरक्षित वन का त्रयीमिलन स्तम्भ।

ठ - क - रेखा बिन्दु "ठ" से ग्राम कुमुंदा के प्लॉट सं. 972 की पश्चिमी और उत्तरी सीमा ग्राम कुमुंदा के प्लॉट सं. 973, 974, 967, 963, 650, 958, 652, 656, 952, 951, 950, 993, 995 के साथ-साथ गुजरती है और सिंगडा जोरा अर्थात् प्लॉट सं. 1404 के उत्तरी किनारे के साथ साथ गुजरती है और दोबारा सिंगडा जोरा को पार करती है और सिंगडा जोरा के दक्षिणी किनारे अर्थात् प्लॉट सं. 2589 के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "क" अर्थात् प्रारम्भिक बिन्दु पर मिलती है।

New Delhi, the 15th October, 2004

S. O. 2671.— Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Coal, S.O. Number 1979 dated 30th June 2003 Under sub-section (i) of section-4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) hereinafter referred to as the said Act, published in part-II, section-3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated 19th July 2003, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 4695.52 acres (approximately) or 1900.25 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification.

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 2527.46 acres (approximately) or 1022.849 hectares (approximately) in all right as described in the Schedule appended hereto.

1. The Plan bearing NO. MCL/SAMB/GM(CP&P)/GOPALPRASAD(W)/04/28 dated 28.04.04 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Angul, (Orissa) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata, or in the office of the Mahanadi Coalfields Limited (Corporate Planning & Project Deptt.), Jagriti Vihar, P.O. Jagriti Vihar, Burla, District Sambalpur (Orissa).

2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act, which provide as follows:-

Objection to acquisition

8(i) - Any person interested in land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation

(1) It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operation in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

Schedule
Gopalprasad (West) Block
Talcher Coalfield (Hingula Area)
District : Angul (Orissa)

ALL RIGHTS

(Plan No. MCL/SAMB/GM(CP&P)/GOPALPRASAD(W)/04/28 dated. 28.4.2004)

Sl. No.	Village	Police Station & No	Tahsil / Sub Div.	District/State	Area in acres	Remarks
1	Balichandrapur	Jarapada - 67	Chhendipada	Angul/Orissa	225.990	Part
2	Pirakhaman	Jarapada -66	Chhendipada	Angul/Orissa	246.150	Full
3	Chhotaberini	Jarapada -64	Chhendipada	Angul/Orissa	173.780	Part
4	Kankarei	Jarapada -65	Chhendipada	Angul/Orissa	733.670	Part
5	Kaunsidhip	Jarapada -63	Chhendipada	Angul/Orissa	8.930	Part
6	Bhalugadia	Colliery -01	Talcher	Angul/Orissa	653.290	Part
7	Baghua-bol	Colliery -02	Talcher	Angul/Orissa	40.730	Full
8	Kumunda	Kaniha - 119	Angul	Angul/Orissa	63.500	Part
9	Kusumapal	Colliery -03	Angul	Angul/Orissa	20.320	Part
10	Jaypur Protected Forest	Chhendupada	Talcher	Angul/Orissa	5.000	Part
11	Nisa Protected Forest	Jarapada	Talcher	Angul/Orissa	356.100	Part
Total 2527.460 acres (approximately) or 1022.849 hectares (approximately)						

1 PLOTS NOS. TO BE ACQUIRED IN VILLAGE BALICHANDRAPUR(PART)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45(P), 46(P), 47(P), 51(P), 52, 53(P), 75(P), 76, 77(P), 78(P), 76/269, 36/271(P), 39/272(P), 46/273, 46/274, 35/284, 26/288, 36/291, 33/292, 15/297, 177/306, 177/311(P) & 177/329(P).

2 PLOTS NOS TO BE ACQUIRED IN VILLAGE PIRAKHAMAN(FULL)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 104/134, 103/135, 110/136, 130/137, 9/138, 2/139, 132/140, 132/141, 127/192, 127/193, 127/194, 127/195, 127/196, 127/197, 127/198, 127/199, 127/200, 127/201, 127/202, 127/203, 127/212, & 127/216.

3 PLOTS NOS. TO BE ACQUIRED IN VILLAGE CHHOTOBERINI(PART)

84(P), 85(P), 87(P), 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132(P), 137(P), 138(P), 140(P), 141(P), 150(P), 171(P), 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184(P), 187(P), 188, 189, 190, 191, 192(P), 193(P), 204(P), 205(P), 206(P), 207, 208, 209(P), 210(P), 213(P), 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 271/311, 84/312, 88/323, 204/325, 229/334, 229/335, 297/336, 296/337, 85/338(P), 270/339, 92/341, 243/345, 243/346, 234/347, 272/348, 285/349, 278/350, 278/351, 109/352, 91/353, 249/355, 249/356, 100/357, 221/359, 97/363, 251/365, 234/366, 296/367, 222/368, 223/369 & 268/370.

4 PLOTS NOS. TO BE ACQUIRED IN VILLAGE KANKAREI(PART)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728(P), 735(P), 738(P), 739(P), 740(P), 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747(P), 748(P), 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852,

853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473,

1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686(P), 1689(P), 1690(P), 1692(P), 1726(P), 1727(P), 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739(P), 1740(P), 1743, 1744, 1745, 1746(P), 1747(P), 1748(P), 1760(P), 1829, 1830, 1831(P), 1837(P), 1848(P), 1849(P), 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870(P), 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876(P), 1877(P), 26/1942, 83/1943, 595/1944, 607/1945, 607/1946, 850/1947, 1031/1948, 1024/1949, 757/1950, 1524/1951, 598/1952, 946/1953, 334/1954, 83/1955, 1417/1957, 465/1958, 1521/1959, 295/1963, 1674/1964, 1674/1965, 1673/1966, 1676/1971, 89/1972, 495/1973, 774/1974, 60/1976, 60/1977, 62/1978, 624/1979, 783/1980, 685/1981, 63/1982, 94/1983, 1866/1990, 38/1993, 61/1994, 1384/1996, 1680/2001, 221/2003, 1246/2004, 83/2005, 60/2006, 1417/2007, 780/2008, 498/2009, 241/2010, 1392/2011, 246/2012, 1105/2016, 778/2017, 1865/2018, 330/2019, 334/2020, 543/2022, 552/2023, 500/2024, 199/2025, 557/2026, 1870/2173(P), 1870/2176, 1870/2177, 1870/2178, 1870/2179, 1870/2180, 1870/2181(P), 1870/2182, 1870/2183, 1870/2184, 1870/2194(P), 1870/2195 & 1870/2196(P).

5- PLOTS NOS. TO BE ACQUIRED IN VILLAGE KAUNSIDHIPA(PART)

800(P), 801, 802, 803, 804, 805, 806(P), 807(P), 808(P), & 809(P).

6- PLOTS NOS. TO BE ACQUIRED IN VILLAGE BHALUGADIA(PART)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428,
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,
469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528,
529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548,
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568,
569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648,
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668,
669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708,
709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728,
729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768,
769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788,
789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808,
809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828,
829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848,
849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868,
869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888,

889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908,
 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928,
 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948,
 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968,
 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988,
 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070,
 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,
 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102,
 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118,
 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134,
 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150,
 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166,
 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,
 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198,
 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214,
 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230,
 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246,
 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262,
 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278,
 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294,
 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310,
 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326,
 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342,
 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358,
 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374,
 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390,
 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,
 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422,
 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438,
 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454,
 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470,
 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486,
 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502,

1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094.

2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2583, 2007/2584, 2029/2585, 2028/2586, 1912/2587, 160/2588, 291/2589(P), 1788/2590, 2057/2591, 1/2592, 12/2593, 22/2594, 1550/2595, 448/2596, 449/2597, 477/2598, 125/2599, 996/2600, 762/2601, 1235/2602, 564/2603, 1450/2604, 1499/2605, 2165/2606, 2165/2607, 42/2608, 1522/2609, 2123/2610, 2498/2611, 2090/2612, 1521/2613, 1521/2614, 1521/2615, 1278/2616, 119/2617, 1456/2618, 69/2619, 1519/2620, 2417/2621, 2073/2622, 2083/2623, 479/2624, 2122/2625, 1968/2626, 2144/2627, 1570/2628, 1913/2629, 2089/2630, 1725/2631, 1074/2632, 2220/2633, 1778/2634, 583/2635, 36/2636, 36/2637,

1467/2638, 1765/2639, 1765/2640, 1765/2641, 1765/2642, 1765/2643, 1731/2644, 2007/2645, 2008/2646, 2013/2647, 2013/2648, 2577/2649, 2574/2650, 2574/2651, 2574/2652, 2553/2653, 158/2654, 158/2655, 158/2656, 158/2657, 158/2658, 392/2659, 1828/2660, 2113/2661, 2270/2662, 2272/2663, 2271/2664, 280/2665, 1191/2666, 162/2667, 2369/2668, 2370/2669, 2368/2670, 576/2671, 787/2672, 1789/2673, 503/2674, 1314/2675, 1315/2676, 2464/2677, 2287/2678, 384/2679, 384/2680, 148/2681, 1727/2682, 1557/2683, 2572/2684, 2531/2685, 62/2686, 62/2687, 2156/2688, 2319/2689, 2246/2690, 2471/2691, 191/2692, 2553/2693, 1028/2694, 2180/2695, 2358/2696, 1833/2697, 2025/2698, 1016/2699, 1010/2700, 1008/2701, 520/2702, 1012/2703, 1016/2704, 1815/2705, 1816/2706, 1787/2707, 425/2708, 2154/2709, 889/2710, 46/2711, 2553/2712, 2163/2713, 2193/2714, 2193/2715, 2412/2716, 171/2717, 1365/2718, 270/2719, 452/2720, 380/2721 & 32/2722.

7- PLOTS NOS. TO BE ACQUIRED IN VILLAGE BAGHUABOLA(FULL)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 & 83/121.

8- PLOTS NOS. TO BE ACQUIRED IN VILLAGE KUMUNDA(PART

650, 651, 652, 656, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1404, 978/5782, 979/5783, 1404/5785, 984/5803, 956/6013, 956/6014 & 956/6015.

9- PLOTS NOS. TO BE ACQUIRED IN VILLAGE KUSUMAPAL(PART)

345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 434, 450/989 & 434/1085.

BOUNDARY DESCRIPTION -.

A-B-C-D : "A" point starts from the trinjunction pillar of village – Kumunda ,Balugadia & kusumpal ,then proceeds along the Eastern bank of Ghurudia Nalla upto point "B" then the line passes along the Southern boundary of plot No.383, Northern ,Eastern ,Southern boundary of plot No. 434 of village – kusumpal and meets on point "C" line again passes along the Earstern bank of Ghuridia Nalla to Point "D",the trinjunction pillar of village Bhalugadia ,Gopal Prasad and Nuhuamuhin Protected forest.

D-E-F: the line starts from point "D" passes along the Eastern boundary of Nisa Protected forest up to point "E" then the line turns towards Western & Southern boundary of NISA P,F. & passes through NISA P,F & NISA Village .

F-G-H: From Point "F" the line proceeds through Plot No. 285,45,46,47 along the southern boundary of plot No.272,39,38 and passes through plot No. 51,271,53,75,77,78,311 and along the Southern boundary of plot No. 306 and then passes through the plot No. 329 of village Balichandrapur ,Up to Point 'G' then the line passes through plot No. 2194,2196,1870 of village Kankerei & meets on the point 'H'.

H-I-J : From point 'H' the line turns towards north through Plot No. 1870,2173 2181 and moves towards west & passes through again Plot No. 1870 and passes along Western boundary of plot No. 1874 then passes through Plot No, 1877 ,1876,1848,1849, then along the Eastern boundary of 1837,1836 again passes through 1831, 1739, 1740,1747,1747,1746,1748,1727,1726,1692,1690,1689,1686, and then crossed the road plot no. 1785 then passes along the Eastern boundary of plot No. 1760 the passes through plot No. 740,739,738,735 of village Kankerei and crossed the Ghurudia Nalla and meets on point -I" then the line passes through plot No. 807.808,809, 800 of village - Kaunsidipha & meets on point 'J' i.e. the common boundary of village Kaunsidhipa & Chhotaberini.

J-K: From the point J the line passes through plot No. 204, 205,206,209, 210,213, 193, 192, 187, 184, 171, 150, 132, 137, 138,140,141,87,338, 85, 84 of village Chhotaberini. & crossed Singda Jora i.e Plot No. 312 and meets on the Point 'K' i.e common boundary of village Chhotaberini. Jaipur Protected Forest.

K-L : From point 'K the line proceeds through Jaipur Protected forest up to Point 'L' i.e trinjunction pillar of village Kankarei ,Kumunda & Jaipur protected forest .

L-A: From the point 'L' the line passes along Western & Northern Boundary of plot No, 972 Northern boundary of Plot No, 973,074,967,963,950,958,652 ,656,952 ,951,950,993,995 of Villgae Kumunda & passes along the Northern bank of Singda Jora i.e Plot No. 1404 and again crossed the Singda Jora and proceeds along the Southern bank of Singda Jora i.e Plot No 2589 and meets at point 'A" i.e the starting point.

[No. 43015/6/2003-P.R.I.W.]
GARGI MUKHERJEE, Director

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2672.— केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 13 सितम्बर, 2003 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यां का.आ. 2588 तारीख 4 सितम्बर, 2003 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में, जिसका माप 13.599 हेक्टर (लगभग) या 33.60 एकड़ (लगभग) है, खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई और तलाश करने, और खनिजों को तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

[illegible]

- (1) ग्राम बंधापाली (भाग) में अर्जित किए गये प्लॉट संख्याक:- 410 (भाग).
- (2) ग्राम नवापारा (भाग) में अर्जित किए गये प्लॉट संख्याक:- 479 (भाग), 480, 481, 482 (भाग) 483 (भाग) , 484 (भाग) , 485 (भाग), 486 (भाग).
- (3) ग्राम खेडापाली (भाग) में अर्जित किए गये प्लॉट संख्याक:- 5/2 (भाग) , 5/4 (भाग).

सीमा वर्णन:

- क - ख** रेखा बिन्दु “क” से ग्राम खेडापाली-बंधापाली की सम्मिलित सीमा पर आरंभ होती है, और भागतः खेडापाली-बंधापाली ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ जाकर बिन्दु “ख” पर मिलती है ।
- ख-ग-घ** रेखा भागतः प्लॉट 410 की पश्चिमी सीमा, बाद में प्लॉट संख्या 410 से होते हुए ग्राम नवापारा में प्रवेश करती है। और प्लॉट संख्या 479, 484, 485, 486 से होते हुए बिन्दु “ घ” पर मिलती है ।
- घ-ङ-ड़1** रेखा ग्राम नवापारा के संख्या 486, 485, 484, 483, 482 से होकर प्लॉट संख्या 481 की दक्षिणी सीमा से जाकर बिन्दु “ ङ1” पर मिलती है ।
- ड़1-च-क .** रेखा ग्राम बंधापाली के प्लॉट 410 से होकर ग्राम खेडापाली में प्रवेश करती है और प्लॉट संख्या 5/2, 5/4 से होकर आरंभिक बिन्दु “ क” पर मिलती है ।

[फा. सं. -43015/12/2001-पी.आर.आई. डब्ल्यू.]

गंगी मुखर्जी, निदेशक

New Delhi, the 15th October, 2004

S. O. 2672.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2588 dated the 4th September, 2003, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in Part – II, Section- 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, dated the 13th September, 2003, the Central Government gave notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 13.599 hectares (approximately) or 33.60 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification ;

And whereas the competent authority, in pursuance of section 8 of the said Act, has made its report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid report and after consulting the Government of Chhattisgarh, is satisfied that the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 13.599 hectares (approximately) or 33.60 acres (approximately) described in Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 13.599 hectares (approximately) or 33.60 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto are hereby acquired.

2.. The plan bearing No. SECL/BSP/GM(Plg)/Land/290 dated 9th June, 2004 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Raigarh (Chhattisgarh) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur – 495006 (Chhattisgarh).

Schedule

Chhal Block (Extension) Raigarh Area District – Raigarh (Chhattisgarh)

Mining Rights

Serial Number	Name of village	Patwari halka number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
01	Bandhapali	30	Dharamjaygarh	Raigarh	8.550	Part
02	Navapara	31	Dharamjaygarh	Raigarh	3.299	Part
03	Khedapali	31	Dharamjaygarh	Raigarh	1.750	Part
Total area 13.599 hectares (approximately) or 33.60 acres (approximately)						

- (1) Plot numbers acquired in Village Bandhapali (part):- 410 (part).
- (2) **Plot numbers acquired in village Navapara (part):-**
479 (part), 480, 481, 482 (part), 483 (part), 484(part), 485(part), 486(part).
- (3) **Plot numbers acquired in village Khedapali (part):-**
5/2 (part), 5/4 (part).

Boundary description :-

- A-B :** Line starts from point “A” on the common boundary of villages Khedapali-Bandhapali and passes partly along the common boundary of village Khedapali-Bandhapali and meets at point “B”.
- B-C-D :** Line passes partly along the Western boundary of plot number 410, then through plot number 410 of village Bandhapali, then enter in village Navapara and passes through plot numbers 479,484,485,486 and meets at point “D”.
- D-E-E1 :** Line passes through plot numbers 486,485,484,483,482, southern boundary of plot number 481 of village Navapara and meets at point “E1”.

E1-F-A : Line passes through plot number 410 of village Bandhapali, then enters in village Khedapali passes through plot numbers 5/2, 5/4 and meets at starting point "A".

[No. 43015/12/2001-P.R.I.W.]
GARGI MUKHERJEE, Director

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2673.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में लोनी से पकनी तक हजारवाडी के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री. एम. वी. चिटनिस, सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-पुणे पाइपलाइन विस्तार परियोजना (लोनी से पकनी तक हजारवाडी के रास्ते) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोनी - टर्मिनल, कदमवाक वस्ती गाँव, हवेली तालुका, पुणे जिला, महाराष्ट्र - 412 201 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालूका : कडेगाँव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उपाले वागी	121			00	41	23
		120			00	47	20
	सर्वे नंबर 120 और						
	119 के बीच का रास्ता				00	01	88
	119			1 अ + 2 अ	00	00	10
	सर्वे नंबर 119/1अ						
	और 2 अ के बीच का				00	01	80
	नाला						
	119			2 क	00	10	80
	119			2 ड	00	01	50
	119			2 जी	00	09	90
	119			2 एच	00	00	07
	119			2 के	00	09	00
	119			2 एल	00	06	30
	सर्वे नंबर 119 और						
	118 के बीच का रास्ता				00	02	58
	118			1	00	45	26
	118			2	00	21	28
	113			1	00	00	50
	143			1	00	31	06
	143			2	00	00	47
	143			3/ब + 4/अ	00	14	69
	143			4 ब	00	07	34
	सर्वे नंबर 143 और						
	148 के बीच का नाला				00	02	41
	148				00	06	39
	147				00	08	94
	146				00	23	87
	145			3	00	19	02
	158				00	21	81
	156			1	00	00	50
	159			2	00	30	79
	सर्वे नंबर 159/2 में						
	का अस्फालटेड रास्ता				00	02	98
	160			3	00	31	67
कुल :					04	01	34

तालूका : कडेगाँव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	उपाळे मायणी		160		00	42	15
			158		00	32	17
			157		00	14	43
			156		00	13	65
			146		00	34	67
			गट नंबर 146 और				
			200 के बीच		00	02	76
			का नाला				
			199		00	00	20
			200		00	11	10
			गट नंबर 200 के बीच				
			में नाला		00	01	81
			203		00	08	70
			204		00	00	16
			247	अ	00	15	90
			246	अ	00	67	68
			गट नंबर 246 (अ) के				
			बीच का रास्ता		00	02	66
			269		00	72	67
			281		00	10	92
			279		00	10	22
			277		00	11	54
			278		00	18	75
			कुल :				
					03	72	14
3	तोडोली		224		00	05	53
			225		00	19	22
			226		00	00	87
			222		00	09	98
			220		00	04	55
			219		00	11	46
			217		00	09	87
			216		00	08	22
			215		00	17	50
			214		00	08	66
			213		00	10	63
			212		00	04	56
			211		00	06	64
			161		00	19	41
			261		00	00	10
			264		00	08	50

me

तालूका : कडेगाँव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	तोंडोली (निरंतर)		262		00	00	67
			263		00	09	33
			265		00	00	52
			284		00	13	73
			285		00	05	27
			286		00	04	79
			287		00	05	23
			290		00	04	92
			291		00	20	79
			292		00	16	90
			297		00	00	34
			293		00	16	32
			295		00	19	65
			294		00	01	73
			गट नंबर 294 और				
			307 के बीच का		00	03	42
			अस्फालटेड रास्ता				
			307		00	36	73
			277		00	12	94
			311		00	03	18
			310		00	20	25
			309		00	13	41
			314		00	02	43
			315		00	06	71
			316		00	07	60
			29		00	05	59
			403		00	02	51
			404		00	08	67
			402		00	26	82
			408		00	02	57
			400		00	00	72
			399		00	01	36
			398		00	06	78
			397		00	04	09
			396		00	03	37
			395		00	04	83
			375		00	04	48
			380		00	10	71

तालूका : कडेगाँव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	तोडोली (निरंतर)		393		00	01	31
			381		00	05	75
			382		00	05	38
			383		00	17	16
			379		00	10	76
			2002		00	01	61
			385		00	00	08
			589		00	00	73
			594		00	13	22
			595		00	21	03
			596		00	14	84
			597		00	26	45
			598		00	01	56
			603		00	14	79
			602		00	26	17
			696		00	13	84
			697		00	06	75
			गट नंबर 697 और 701 के बीच का रास्ता		00	03	55
			701		00	11	95
			692		00	04	83
			700		00	02	53
			691		00	32	35
			690		00	01	90
			689		00	09	49
			688		00	03	25
			687		00	00	07
कुल :					07	06	31
4	अमरापुर		895		00	24	97
			898		00	07	48
			899		00	05	03
			900		00	05	69
			901		00	05	65
			872		00	20	43
			856		00	01	92
			864		00	27	64
			863		00	01	74
			862		00	08	69

तालूका : कडेगाँव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
4	अमरापुर (मिहंर)		860		00	04	91
			859		00	08	02
			858		00	06	58
			834		00	03	71
			823		00	03	35
			925		00	08	47
			830		00	04	47
			827		00	03	48
			826		00	08	96
			825		00	02	10
			824		00	06	41
			929		00	15	43
			933		00	07	25
			1739		00	06	56
			940		00	29	88
			945		00	11	62
			946		00	12	18
			957		00	06	89
			958		00	05	15
			959		00	05	10
			960		00	05	86
			961		00	02	19
			955		00	00	79
			963		00	03	83
			964		00	03	65
			962		00	00	10
			965		00	04	19
			967		00	01	24
			968		00	02	15
			969		00	02	28
			973		00	03	17
			974		00	00	21
			975		00	12	23
			980		00	09	10
			981		00	08	76
			983		00	04	80
			984		00	02	28
			985		00	04	23

तालूका : कडेगाँव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
4	अमरापुर (निरंतर)		988		00	01	43
			989		00	03	84
			990		00	04	46
			991		00	01	99
			994		00	02	73
			995		00	01	28
			996		00	02	74
			1000		00	03	47
			1001		00	02	65
			1006		00	08	28
			1012		00	03	01
			1011		00	02	80
			1015		00	05	23
			1016		00	03	56
			1017		00	03	90
			1018		00	24	19
			1030		00	11	05
			1031		00	04	50
			1032		00	04	52
			1033		00	05	78
			1036		00	05	00
			1037		00	04	96
			1038		00	03	68
			1039		00	01	80
			1040		00	02	14
			1041		00	02	48
			1042		00	02	74
			1043		00	05	64
			1044		00	06	55
			1045		00	05	02
			1046		00	05	35
			1048		00	16	32
			1049		00	12	67
			1050		00	07	82
			1051		00	03	08
कुल :					05	27	48
5	येवलेवाडी		206		00	04	18
			205		00	29	25
			207		00	10	11
			208		00	03	69

तालूका : कडेगाँव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
5	येवलेवाडी (भिरंतर)		212		00	04	98
			211		00	08	46
			204		00	04	41
			210		00	05	13
			213		00	17	09
			219		00	04	93
			220		00	04	99
			218		00	05	81
			221		00	15	93
			225		00	05	32
			226		00	04	04
			230		00	15	54
			231		00	02	66
			234		00	02	97
			236		00	03	75
			237		00	16	72
			245		00	09	26
			248		00	05	30
			249		00	17	61
			गट नंबर 265/5 और				
			249 के बीच का राज्य				
			मार्ग 78				
			256	6	00	05	24
			256	5	00	04	69
			193		00	05	41
			192		00	02	93
			190		00	02	76
			188		00	03	30
			187		00	06	22
			186		00	11	05
			175		00	05	99
			174		00	04	89
			173		00	01	21
			गट नंबर				
			173, 172, 171 के बीच				
			की कनाल				
			172		00	00	05
			171		00	05	30
			168		00	04	28
			167		00	01	50
			162		00	05	39

तालूका : कडेगाँव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र				
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल				
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6	7	8		
5	येवलेवाडी (निरंतर)		159		00	02	95		
			156		00	03	60		
			155		00	13	42		
			149		00	04	27		
			148		00	03	47		
			146		00	06	32		
			134		00	10	87		
			133		00	02	48		
			132		00	08	22		
			131		00	08	11		
			130		00	08	76		
			128		00	00	61		
			127		00	15	18		
			126		00	01	71		
			125		00	13	29		
			122		00	05	36		
			121		00	05	09		
			120		00	05	41		
			119		00	00	38		
			गट नंबर 120 और शिवणी गाँव सीमा के बीच का रास्ता		00	03	63		
कुल :					04	09	55		
6	हणमंत वडिये		गट नंबर 182 और अमरापुर गाँव सीमा के बीच का रास्ता		00	02	08		
			182		00	49	15		
			गट नंबर 182 का गाडी रास्ता		00	06	11		
			गट नंबर 181 का गाडी रास्ता		00	01	71		
			181		00	14	94		
			180		00	30	27		
			179		00	28	55		
			175		00	32	60		
		कुल :					01	65	41
		7	शिवणी		209		00	13	75
	211				00	26	58		

तालूका : कडेगाँव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
7	शिवणी (निर्गतर)		210		00	14	94
			गट नंबर 210 और 212 का गाडी रास्ता		00	03	98
			212		00	10	69
			214		00	07	19
			171		00	49	50
			247		00	02	69
			249		00	00	10
			248		00	16	92
			264		00	34	91
			263		00	02	55
			262		00	05	54
			गट नंबर 262 और गाँव सीमा के बीच में चेरला नदी		00	13	71
कुल :					02	03	05
8	वडिये रायबाग		गट नंबर 1413 और गाँव सीमा के बीच में चेरला नदी		00	14	01
			1413	3	00	00	10
			1413	4	00	01	79
			1413	16	00	11	12
			1413	5	00	06	35
			1413	6	00	02	42
			1413	7	00	00	85
			1413	15	00	00	10
			1413	17	00	03	72
			1413	18	00	03	12
			1413	19	00	13	77
			1413	20	00	06	06
			1413	21	00	00	72
			1383		00	11	41
			1384		00	00	03
			1382		00	09	14
			1381		00	02	26
			1380		00	01	31
			1379		00	02	63
			1378		00	03	87
			1377		00	04	22

तालूका : कडेगाँव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
8	वडिये रायबाग (निरंतर)		1374		00	09	49
			1373		00	09	04
			1372		00	04	19
			1349		00	04	88
			1347		00	02	77
			1345		00	03	61
			1344		00	01	88
			1343		00	03	21
			1340		00	04	45
			1339		00	05	31
			1338		00	03	45
			1337	4	00	04	12
			1337	9	00	05	22
			1337	7	00	03	21
			1337	14	00	05	39
			1329		00	05	31
			1333		00	16	55
			1332		00	04	80
			1293		00	05	33
			1292		00	04	82
			1291		00	06	12
			1290		00	04	42
			1289		00	03	50
			1288		00	02	32
			1287		00	04	23
			1277		00	02	81
			1276		00	03	84
			1275		00	00	10
			1259		00	04	51
			1261		00	00	19
			1262		00	02	32
			1255		00	08	51
			1254		00	03	40
			1253		00	06	74
			1252		00	06	09
			1251		00	02	25
			1249		00	02	69
			1246		00	03	29
			1247		00	02	59
			1248		00	01	99
			1245		00	12	42

तालूका : कडेगाँव							
जिला : सांगली				राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
8	वडिये रायबाग (निरंतर)		1244		00	02	63
			1243		00	02	36
			1239		00	02	24
			1238		00	02	66
			1237		00	00	21
			गट नंबर 1237 और				
			1235 का गाडी रास्ता		00	04	99
			1235		00	12	48
			1116		00	01	11
			गट नंबर 1114 और				
			1115 के बीच का		00	00	89
			नाला				
			1109		00	00	37
			1115		00	00	91
			गट नंबर 1114,				
			1115 और 1116 के		00	01	95
			बीच का नाला				
			1114		00	04	49
			1112		00	06	67
			1111		00	06	65
			1102		00	31	13
			1118		00	57	51
			1065		00	15	95
			1063		00	47	70
			1062		00	12	16
			1120		00	12	50
			1121		00	08	06
			कुल :		05	25	98
9	सेलकबाव		258		00	50	19
			259		00	17	18
			370		00	24	48
			372		00	08	64
			404		00	10	08
			411		00	04	32
			413		00	14	76
			414		00	09	36
			415		00	10	08
			402		00	27	36
			389		00	00	41
			388		00	00	54
			384		00	00	34
			382		00	00	45

तालूका : कडेगाँव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
9	सेलकबाव		566	1	00	13	88
	(जिंतिर)		566	2	00	08	38
			565		00	01	46
			567		00	23	25
			564		00	00	68
			गट नंबर 562/1 और				
			564 के बीच का		00	03	67
			अस्फालटेड रास्ता				
			563		00	00	97
			562	1	00	20	56
			562	5	00	02	07
			562	6	00	19	47
			562	9	00	00	04
			562	10	00	31	35
			562	3	00	19	78
कुल :					03	23	75

[फा. सं. आर-31015/29/2004-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 18th October, 2004

S.O. 2673.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Loni to Pakni via Hazarwadi in the State of Maharashtra, an extension pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline

under the land to Shri M.V.Chitnis, Competent Authority, Mumbai-Pune Pipeline Extension Project (from Loni to Pakni via Hazarwadi), Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Loni Terminal, Kadamwakwasti Village, Haveli Taluka, Pune District, Maharashtra-412 201

SCHEDULE

Taluka : KADEGAON		Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UPALE VANGI	121			00	41	23
		120			00	47	20
	Nala in between						
	Survey No				00	01	88
	120 and 119						
	119			1A+2A	00	00	10
	Nala in Survey No				00	01	80
	119/1A & 2A						
	119			2 C	00	10	80
	119			2 D	00	01	50
	119			2 G	00	09	90
	119			2 H	00	00	07
	119			2 K	00	09	00
	119			2 L	00	06	30
	Road in between						
	Survey No				00	02	58
	119 and 118						
	118			1	00	45	26
	118			2	00	21	28
	113			1	00	00	50
	143			1	00	31	06
	143			2	00	00	47
	143			3/B + 4/A	00	14	69
	143			4 B	00	07	34
	Nala in between						
	Survey No				00	02	41
	143 and 148						
	148				00	06	39
	147				00	08	94
	146				00	23	87
	145			3	00	19	02
	158				00	21	81
	156			1	00	00	50
	159			2	00	30	79
	Asphalted Road in				00	02	98
	Survey No 159/2						
	160			3	00	31	67
Total :					04	01	34

Taluka : KADEGAON			Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
2	UPALE MAYNI		160		00	42	15
			158		00	32	17
			157		00	14	43
			156		00	13	65
			146		00	34	67
			Nala in between Gat No 146 & 200		00	02	76
			199		00	00	20
			200		00	11	10
			Nala in Gat No 200		00	01	81
			203		00	08	70
			204		00	00	16
			247	A	00	15	90
			246	A	00	67	68
			Mud Road in Gat No. 246 A		00	02	66
			269		00	72	67
			281		00	10	92
			279		00	10	22
			277		00	11	54
			278		00	18	75
		Total :			03	72	14
3	TONDOLI		224		00	05	53
			225		00	19	22
			226		00	00	87
			222		00	09	98
			220		00	04	55
			219		00	11	46
			217		00	09	87
			216		00	08	22
			215		00	17	50
			214		00	08	66
			213		00	10	63
			212		00	04	56
			211		00	06	64
			161		00	19	41
			261		00	00	10
			264		00	08	50

Taluka : KADEGAON			Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TONDOLI (Contd.)		262		00	00	67
			263		00	09	33
			265		00	00	52
			284		00	13	73
			285		00	05	27
			286		00	04	79
			287		00	05	23
			290		00	04	92
			291		00	20	79
			292		00	16	90
			297		00	00	34
			293		00	16	32
			295		00	19	65
			294		00	01	73
			Asphalted Road in between Gat No 294 & 307		00	03	42
			307		00	36	73
			277		00	12	94
			311		00	03	18
			310		00	20	25
			309		00	13	41
			314		00	02	43
			315		00	06	71
			316		00	07	60
			29		00	05	59
			403		00	02	51
			404		00	08	67
			402		00	26	82
			408		00	02	57
			400		00	00	72
			399		00	01	36
			398		00	06	78
			397		00	04	09
			396		00	03	37
			395		00	04	83
			375		00	04	48
			380		00	10	71

Taluka : KADEGAON			Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Acre	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TONDOLI (Contd.)		393		00	01	31
			381		00	05	75
			382		00	05	38
			383		00	17	16
			379		00	10	76
			2002		00	01	61
			385		00	00	08
			589		00	00	73
			594		00	13	22
			595		00	21	03
			596		00	14	84
			597		00	26	45
			598		00	01	56
			603		00	14	79
			602		00	26	17
			696		00	13	84
			697		00	06	75
			Metalled Road in between Gat No 697 & 701		00	03	55
			701		00	11	95
			692		00	04	83
			700		00	02	53
			691		00	32	35
			690		00	01	90
			689		00	09	49
			688		00	03	25
			687		00	00	07
Total :					07	06	31
4	AMRAPUR		895		00	24	97
			898		00	07	48
			899		00	05	03
			900		00	05	69
			901		00	05	65
			872		00	20	43
			856		00	01	92
			864		00	27	64
			863		00	01	74
			862		00	08	69

Taluka : KADEGAON			Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
4	AMRAPUR (Contd.)		860		00	04	91
			859		00	08	02
			858		00	06	58
			834		00	03	71
			823		00	03	35
			925		00	08	47
			830		00	04	47
			827		00	03	48
			826		00	08	96
			825		00	02	10
			824		00	06	41
			929		00	15	43
			933		00	07	25
			1739		00	06	56
			940		00	29	88
			945		00	11	62
			946		00	12	18
			957		00	06	89
			958		00	05	15
			959		00	05	10
			960		00	05	86
			961		00	02	19
			955		00	00	79
			963		00	03	83
			964		00	03	65
			962		00	00	10
			965		00	04	19
			967		00	01	24
			968		00	02	15
			969		00	02	28
			973		00	03	17
			974		00	00	21
			975		00	12	23
			980		00	09	10
			981		00	08	76
			983		00	04	80
			984		00	02	28
			985		00	04	23

Taluka : KADEGAON			Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
4	AMRAPUR (Contd.)		988		00	01	43
			989		00	03	84
			990		00	04	46
			991		00	01	99
			994		00	02	73
			995		00	01	28
			996		00	02	74
			1000		00	03	47
			1001		00	02	65
			1006		00	08	28
			1012		00	03	01
			1011		00	02	80
			1015		00	05	23
			1016		00	03	56
			1017		00	03	90
			1018		00	24	19
			1030		00	11	05
			1031		00	04	50
			1032		00	04	52
			1033		00	05	78
			1036		00	05	00
			1037		00	04	96
			1038		00	03	68
			1039		00	01	80
			1040		00	02	14
			1041		00	02	48
			1042		00	02	74
			1043		00	05	64
			1044		00	06	55
			1045		00	05	02
			1046		00	05	35
			1048		00	16	32
			1049		00	12	67
			1050		00	07	82
			1051		00	03	08
Total:					05	27	48
5	YEVELEVADI		206		00	04	18
			205		00	29	25
			207		00	10	11
			208		00	03	69

Taluka : KADEGAON			Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
5	YEVELEVADI (Contd.)		212		00	04	98
			211		00	08	46
			204		00	04	41
			210		00	05	13
			213		00	17	09
			219		00	04	93
			220		00	04	99
			218		00	05	81
			221		00	15	93
			225		00	05	32
			226		00	04	04
			230		00	15	54
			231		00	02	66
			234		00	02	97
			236		00	03	75
			237		00	16	72
			245		00	09	26
			248		00	05	30
			249		00	17	61
			SH - 78 in between				
			Gat No		00	07	11
			249 & 253/5				
			258	6	00	05	24
			256	5	00	04	69
			193		00	05	41
			192		00	02	93
			190		00	02	76
			188		00	03	30
			187		00	06	22
			186		00	11	05
			175		00	05	99
			174		00	04	89
			173		00	01	21
			Unlined Canal in				
			Gat No 173,		00	06	97
			172 & 171				
			172		00	00	05
			171		00	05	30
			168		00	04	28
			167		00	01	50
			162		00	05	39

Taluka : KADEGAON			Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA				
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area				
					Hectare	Are	Sq.mt		
1	2	3	4	5	6	7	8		
5	YEVELEVADI (Contd.)		159		00	02	95		
			156		00	03	60		
			155		00	13	42		
			149		00	04	27		
			148		00	03	47		
			146		00	06	32		
			134		00	10	87		
			133		00	02	48		
			132		00	08	22		
			131		00	08	11		
			130		00	08	76		
			128		00	00	61		
			127		00	15	18		
			126		00	01	71		
			125		00	13	29		
			122		00	05	36		
			121		00	05	09		
			120		00	05	41		
			119		00	00	38		
				Metalled Road in between Gat No 120 & V.B of Shivni		00	03	63	
Total :					04	09	55		
6	HANMANT VADIYE		Metalled Road in between V.B of Amarapur & Gat No 182		00	02	08		
			182		00	49	15		
			Cart Track in Gat No 182		00	06	11		
			Cart Track in Gat No 181		00	01	71		
			181		00	14	94		
			180		00	30	27		
			179		00	28	55		
			175		00	32	60		
		Total :					01	65	41
		7	SHIVNI		209		00	13	75
	211				00	26	58		

Taluka : KADEGAON		Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
7	SHIVNI (Contd.)		210		00	14	94
			Cart Track in Gat No 210 & 212		00	03	98
			212		00	10	69
			214		00	07	19
			171		00	49	50
			247		00	02	69
			249		00	00	10
			248		00	16	92
			264		00	34	91
			263		00	02	55
			262		00	05	54
			Yerla River between Gat No 262 & V.B		00	13	71
Total :					02	03	05
8	VADIYE RAYBAGH		Yerla River between Gat No 1413 & V.B		00	14	01
			1413	3	00	00	10
			1413	4	00	01	79
			1413	16	00	11	12
			1413	5	00	06	35
			1413	6	00	02	42
			1413	7	00	00	85
			1413	15	00	00	10
			1413	17	00	03	72
			1413	18	00	03	12
			1413	19	00	13	77
			1413	20	00	06	06
			1413	21	00	00	72
			1383		00	11	41
			1384		00	00	03
			1382		00	09	14
			1381		00	02	26
			1380		00	01	31
			1379		00	02	63
			1378		00	03	87
			1377		00	04	22

Taluka : KADEGAON			Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
8	VADIYE		1374		00	09	49
	RAYBAGH		1373		00	09	04
	(Contd.)		1372		00	04	19
			1349		00	04	88
			1347		00	02	77
			1345		00	03	61
			1344		00	01	88
			1343		00	03	21
			1340		00	04	45
			1339		00	05	31
			1338		00	03	45
			1337	4	00	04	12
			1337	9	00	05	22
			1337	7	00	03	21
			1337	14	00	05	39
			1329		00	05	31
			1333		00	16	55
			1332		00	04	80
			1293		00	05	33
			1292		00	04	82
			1291		00	06	12
			1290		00	04	42
			1289		00	03	50
			1288		00	02	32
			1287		00	04	23
			1277		00	02	81
			1276		00	03	84
			1275		00	00	10
			1259		00	04	51
			1261		00	00	19
			1262		00	02	32
			1255		00	08	51
			1254		00	03	40
			1253		00	06	74
			1252		00	06	09
			1251		00	02	25
			1249		00	02	69
			1246		00	03	29
			1247		00	02	59
			1248		00	01	99
			1245		00	12	42

Taluka : KADEGAON		Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA					
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area				
					Hectare	Are	Sq.mt		
1	2	3	4	5	6	7	8		
8	VADIYE RAYBAGH (Contd.)		1244		00	02	63		
			1243		00	02	36		
			1239		00	02	24		
			1238		00	02	66		
			1237		00	00	21		
			Cart Track between Gat No 1237 & 1235		00	04	99		
			1235		00	12	48		
			1116		00	01	11		
			Nala in between Gat No 1114 & 1115		00	00	89		
			1109		00	00	37		
			1115		00	00	91		
			Nala in between Gat No 1114, 1115 & 1116		00	01	95		
			1114		00	04	49		
			1112		00	06	67		
			1111		00	06	65		
			1102		00	31	13		
			1118		00	57	51		
			1065		00	15	95		
			1063		00	47	70		
			1062		00	12	16		
			1120		00	12	50		
			1121		00	08	06		
							05	25	98
		9	SHELEGBAV		258		00	50	19
					259		00	17	18
					370		00	24	48
					372		00	08	64
					404		00	10	08
	411				00	04	32		
	413				00	14	76		
	414				00	09	36		
	415				00	10	08		
	402				00	27	36		
	389				00	00	41		
	388				00	00	54		
	384				00	00	34		
	382				00	00	45		

Taluka : KADEGAON			Dist : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	SHELEGBAV (Contd.)		566	1	00	13	88
			566	2	00	08	38
			565		00	01	46
			567		00	23	25
			564		00	00	68
			Asphalted Road in Between Gat No 564 & 562/1		00	03	67
			563		00	00	97
			562	1	00	20	56
			562	5	00	02	07
			562	6	00	19	47
			562	9	00	00	04
			562	10	00	31	35
			562	3	00	19	78
Total :					03	23	75

[No. R-31015/29/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2674.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में लोनी से पकनी तक हज़ारवाडी के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री. एम. वी. चिटनिस,

सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-पुणे पाइपलाइन विस्तार परियोजना (लोनी से पकनी तक हजारवाडी के रास्ते), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोनी - टर्मिनल, कदमवाक वस्ती गाँव, हवेली तालुका, पुणे जिला, महाराष्ट्र - 412 201 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालूका : खानापूर		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भाळवणी		1081		00	25	05
			1080		00	25	42
			1166		00	46	56
			1165		00	00	10
			1163		00	09	59
			1164		00	06	86
			1152		00	54	12
			1129		00	13	22
			1130		00	09	05
			1150		00	16	20
			1140		00	35	95
			गट नंबर 1150				
			का रास्ता		00	00	47
			गट नंबर 1140				
			का रास्ता		00	07	12
			1142		00	26	01
			1498		00	13	13
			1499		00	04	81
			1500		00	00	04
			1497		00	28	50
			1382		00	00	60
			1513		00	01	07
			1507		00	01	48
			1509		00	06	72
			1510		00	09	53
			1512		00	00	17
			1511		00	01	93
			1513		00	15	16
			1524		00	46	57
			1547		00	00	03
			1523		00	12	15
			1521		00	03	31
			1522		00	01	60

तालूका : खानापुर			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भाळवणी (निरंतर)		गट नंबर 1522				
			और 43 के बीच		00	06	07
			का नाला				
			43		00	28	83
			गट नंबर 43 का		00	03	50
			रास्ता				
			98		00	38	88
			99		00	16	50
			गट नंबर 98 और				
			99 का रास्ता		00	03	11
			97		00	01	62
			95		00	01	14
			94		00	21	61
			93		00	30	10
			92		00	10	40
			91		00	07	28
			90		00	07	87
			89		00	12	14
			88		00	26	86
			280		00	18	88
			283		00	11	64
			281		00	11	72
			282		00	15	91
			296		00	00	15
			297		00	26	61
			298		00	19	51
			293		00	27	26
			298		00	18	77
			293		00	04	36
			311		00	26	27
			312		00	32	78
			310		00	06	22
			313		00	26	66
कुल :					08	85	17
2	अळसुद		240		00	04	87
			237		00	04	29
			236		00	04	66
			234		00	07	30
			232		00	08	12
			142	1	00	37	18

तालूका : खानापुर		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	अळसुंद (निरंतर)		230		00	28	35
			229		00	32	31
			224		00	41	36
			225		00	24	77
			221		00	45	83
			गट नंबर 221 का				
			अस्फालटेड रास्ता		00	04	31
			2271		00	18	14
			2270		00	10	68
			2269		00	22	01
			2268		00	00	62
			2267		00	37	89
			2266		00	00	89
			2245		00	31	59
			2243		00	19	00
			2242		00	19	14
			2241		00	16	49
			2216		00	04	41
			2217		00	24	71
			2218		00	18	55
			2219		00	18	26
			2220		00	07	03
			2221		00	05	91
			2222		00	05	22
			2223		00	00	76
			2202		00	11	96
			2201		00	27	46
			2200		00	03	75
			2198		00	22	65
			गट नंबर 2198 और				
			2193 के बीच का		00	04	68
			राज्य मार्ग नं. 111				
			2193		00	06	75
			2195		00	06	86
			2196		00	05	17
			2197		00	11	81
कुल :					06	05	74
3	तांदुळवाडी		119		00	21	25
			346		00	31	59
			118		00	16	43
			112	3	00	13	48
			112	8	00	02	17
			112	7	00	03	79

तालूका : खानापुर		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	तांदुळवाडी (निरंतर)		112	6	00	02	82
			112	5	00	00	32
			112	9	00	00	20
			126		00	39	24
			129		00	04	80
			140		00	05	13
			142		00	03	35
			143		00	02	60
			144		00	04	34
			145		00	08	81
			146		00	08	71
			151		00	08	09
			152		00	03	35
			154		00	08	87
			155		00	03	50
			158		00	16	53
			159		00	03	38
			160		00	05	56
			179		00	17	03
			196		00	14	04
			197		00	07	69
			198		00	13	17
			213		00	08	78
			212		00	00	05
			214		00	01	30
			215		00	01	48
			216		00	05	07
			217		00	04	35
			220		00	15	22
			गट नंबर 220 का				
			रास्ता		00	01	19
			गट नंबर 220 और				
			260 के बीच की		00	08	09
			बलवाडी कनाल				
			260		00	07	16
			259		00	07	83
			258		00	05	49

तालूका : खानापुर		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	तांदुळवाडी (निरंतर)		256	2	00	06	72

गट नंबर 256 और
आंधली गाँव - सीमा
के बीच में येरला
नदी

00 11 44

कुल : 03 54 41

[फ. सं. आर-31015/28/2004-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 18th October, 2004

S. O. 2674.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Loni to Pakni via Hazarwadi in the State of Maharashtra, an extension pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri M.V.Chitnis, Competent Authority, Mumbai-Pune Pipeline Extension Project (from Loni to Pakni via Hazarwadi), Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Loni Terminal, Kadamwakwasti Village, Haveli Taluka, Pune District, Maharashtra-412 201

SCHEDULE

Taluka : KHANAPUR			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq. m t
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BHALAVANI		1081		00	25	05
			1080		00	25	42
			1166		00	46	56
			1165		00	00	10
			1163		00	09	59
			1164		00	06	86
			1152		00	54	12
			1129		00	13	22
			1130		00	09	05
			1150		00	16	20
			1140		00	35	95
			Metalled Road in				
			Gat No 1150		00	00	47
			Metalled Road in				
			Gat No 1140		00	07	12
			1142		00	26	01
			1498		00	13	13
			1499		00	04	81
			1500		00	00	04
			1497		00	28	50
			1382		00	00	60
			1513		00	01	07
			1507		00	01	48
			1509		00	06	72
			1510		00	09	53
			1512		00	00	17
			1511		00	01	93
			1513		00	15	16
			1524		00	46	57
			1547		00	00	03
			1523		00	12	15
			1521		00	03	31
			1522		00	01	60

Taluka : KHANAPUR			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.m t
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BHALAVANI		Nala between Gat No 1522 & 43		00	06	07
			43		00	28	83
			Asphalted Road in Gat No 43		00	03	50
			98		00	38	88
			99		00	16	50
			Metalled Road in between Gat No 99 & 98		00	03	11
			97		00	01	62
			95		00	01	14
			94		00	21	61
			93		00	30	10
			92		00	10	40
			91		00	07	28
			90		00	07	87
			89		00	12	14
			88		00	26	86
			280		00	18	88
			283		00	11	64
			281		00	11	72
			282		00	15	91
			296		00	00	15
			297		00	26	61
			298		00	19	51
			293		00	27	26
			298		00	18	77
			293		00	04	36
			311		00	26	27
			312		00	32	78
			310		00	06	22
			313		00	26	66
Total :					08	85	17
2	ALSUND		240		00	04	87
			237		00	04	29
			236		00	04	66
			234		00	07	30
			232		00	08	12
			142	1	00	37	18

Taluka : KHANAPUR			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq. m t
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ALSUND		230		00	28	35
			229		00	32	31
			224		00	41	36
			225		00	24	77
			221		00	45	83
			Asphalted Road in				
			Gat No 221		00	04	31
			2271		00	18	14
			2270		00	10	68
			2269		00	22	01
			2268		00	00	62
			2267		00	37	89
			2266		00	00	89
			2245		00	31	59
			2243		00	19	00
			2242		00	19	14
			2241		00	16	49
			2216		00	04	41
			2217		00	24	71
			2218		00	18	55
			2219		00	18	26
			2220		00	07	03
			2221		00	05	91
			2222		00	05	22
			2223		00	00	76
			2202		00	11	96
			2201		00	27	46
			2200		00	03	75
			2198		00	22	65
			SH - 111 in				
			between Gat No		00	04	68
			2198 & 2193				
			2193		00	06	75
			2195		00	06	86
			2196		00	05	17
			2197		00	11	81
Total :					06	05	74
3	TANDULVADI		119		00	21	25
			346		00	31	59
			118		00	16	43
			112	3	00	13	48
			112	8	00	02	17
			112	7	00	03	79

Taluka : KHANAPUR			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.m t
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TANDULVADI		112	6	00	02	82
			112	5	00	00	32
			112	9	00	00	20
			126		00	39	24
			129		00	04	80
			140		00	05	13
			142		00	03	35
			143		00	02	60
			144		00	04	34
			145		00	08	81
			146		00	08	71
			151		00	08	09
			152		00	03	35
			154		00	08	87
			155		00	03	50
			158		00	16	53
			159		00	03	38
			160		00	05	56
			179		00	17	03
			196		00	14	04
			197		00	07	69
			198		00	13	17
			213		00	08	78
			212		00	00	05
			214		00	01	30
			215		00	01	48
			216		00	05	07
			217		00	04	35
			220		00	15	22
			Metalled Road In Gat No. 220		00	01	19
			Balavadi Canal between Gat No 220 & 260		00	08	09
			260		00	07	16
			259		00	07	83
			258		00	05	49

Taluka : KHANAPUR			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.m t
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TANDULVADI		256	2	00	06	72
			Yerla River between Gat No 256 & V.B of Andhali		00	11	44
Total :					03	54	41

[No. R-31015/28/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2004

अधिसूचना

का. आ. 2675.— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1528 तारीख 25 जून, 2004 द्वारा उड़ीसा राज्य में पारादीप से पश्चिमी बंगाल राज्य में हल्दिया तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट तहसील सोरो और बालासोर, जिला बालासोर, उड़ीसा की भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 29-07-2004 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और, केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु अर्जित किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला : बालेसर

राज्य : उड़ीसा

तहसिल का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
सोरो	गुड़	618	0	02	40
		6194	0	05	80
		619	0	00	10
		6193	0	04	52
		622	0	12	95
		624	0	00	52
		6191	0	00	57
		623	0	01	45
		678	0	01	72
		676	0	00	38
		683	0	04	20
		682	0	05	10
		681	0	01	12
		677	0	01	60
		504	0	05	04
		199	0	01	19
		498	0	00	34
		200	0	13	69
		201	0	01	33
		203	0	00	20
		202	0	04	00
		204	0	00	10
		205	0	08	86
		207	0	06	37
		233	0	07	73
		234	0	05	15
		264	0	12	48
		265	0	01	69
		267	0	03	40
		266	0	04	01
		85	0	03	17

1	2	3	4	5	6
		94	0	06	45
		95	0	00	77
		100	0	02	45
		101	0	02	72
		103	0	01	53
		105	0	02	49
		115	0	05	92
		116	0	11	62
		113	0	00	10
		112	0	00	37
		117	0	03	74
		118	0	01	48
		122	0	01	12
		123	0	01	58
		124	0	01	82
		125	0	02	13
		121	0	01	35
		127	0	06	99
		128	0	05	93
		131	0	07	63
		132	0	00	10
		141	0	01	66
		142	0	04	33
		140	0	02	30
		892	0	03	33
		893	0	00	10
		891	0	01	32
		894	0	00	37
		895	0	01	22
		896	0	01	65
		890	0	05	07
		889	0	01	95
		1471	0	07	14
		1473	0	00	18
		1464	0	00	77
		1472	0	05	55
		1484	0	02	79
		1503	0	04	01
		1463	0	04	43
		1504	0	09	44

1	2	3	4	5	6
		1537	0	00	10
		1538	0	04	97
		1536	0	02	26
		1553	0	07	24
		1554	0	05	99
		1531	0	01	70
		1555	0	02	32
		1556	0	05	92
		1592	0	00	10
		1583	0	00	58
		1581	0	11	49
		1582	0	00	10
		1585	0	00	79
		1584	0	00	10
		1587	0	01	63
		1586	0	00	10
		1654	0	01	60
		1655	0	03	71
		1653	0	01	38
		1656	0	01	78
		1657	0	03	52
		1658	0	00	67
		1648	0	01	96
		1661	0	04	85
		1662	0	05	23
		1644	0	02	30
		1643	0	02	32
		1660	0	00	10
		1684	0	00	32
		1642	0	01	74
		1641	0	01	24
		1687	0	07	59
		1688	0	01	71
		1686	0	00	39
		1689	0	04	53
		1690	0	01	22
		1196	0	03	08
		1695	0	01	21
		1696	0	00	10
		1694	0	01	92

1	2	3	4	5	6
		1697	0	09	73
		1180	0	00	17
		1177	0	02	81
		2526	0	07	78
		2527	0	04	20
		2528	0	02	74
		2529	0	00	10
		2533	0	08	15
		2535	0	01	05
		2532	0	06	31
		2531	0	04	86
		2581	0	00	27
		2537	0	04	02
		2580	0	07	06
		2579	0	00	10
		2582	0	02	99
		2612	0	02	99
		2611	0	00	48
		2613	0	04	07
		2614	0	00	10
		2615	0	10	73
		2623	0	00	67
		2624	0	00	81
		2621	0	00	88
		2628	0	01	10
		2622	0	03	53
		2625	0	00	10
		2627	0	00	59
		2630	0	05	24
	पाटीमुन्डा	142	0	02	57
		71	0	01	97
		72	0	02	86
		74	0	02	21
		238	0	01	40
		46	0	02	83
		47	0	05	60
		48	0	11	04
		6	0	03	86
		5	0	01	29
		4	0	02	69

1	2	3	4	5	6
	दिनापाही	219	0	05	49
		220	0	16	06
		216	0	03	10
		223	0	17	28
		207	0	00	61
		206	0	05	09
		205	0	04	72
		224	0	01	08
		204	0	04	09
		200	0	06	39
		198	0	00	28
		201	0	00	10
		199	0	11	24
		154	0	19	52
		153	0	05	18
		152	0	00	29
		1	0	03	25
	बालीकतीरन	770	0	02	92
		792	0	01	03
		584	0	01	69
		581	0	03	45
		586	0	02	65
		585	0	03	07
		590	0	11	58
		591	0	00	10
		589	0	00	42
		595	0	06	43
		594	0	01	55
		596	0	05	85
		598	0	02	06
		600	0	02	17
		774	0	01	53
		607	0	11	72
		606	0	06	02
		470	0	00	47
		454	0	09	71
		456	0	03	76
		455	0	00	94
		457	0	06	81
		451	0	00	10

1	2	3	4	5	6
		450	0	00	31
		449	0	01	27
		447	0	06	81
		460	0	01	43
		438	0	03	38
		436	0	09	44
		434	0	00	87
		435	0	00	91
		433	0	01	63
		348	0	06	46
		345	0	01	86
		346	0	09	00
		349	0	03	16
	छट्टूपाटी	141	0	03	15
		169	0	01	20
		294	0	03	38
		290	0	04	58
		295	0	01	36
		289	0	16	32
		296	0	00	24
		288	0	16	32
		285	0	08	81
		286	0	07	72
		283	0	03	79
		281	0	00	94
		282	0	05	61
		284	0	06	33
		277	0	02	11
		276	0	05	80
		278	0	02	09
		272	0	07	76
		271	0	00	49
		270	0	00	26
		267	0	00	30
		268	0	09	95
		269	0	00	37
		262	0	02	50
		261	0	02	06
		206	0	04	33

1	2	3	4	5	6
		259	0	05	07
		257	0	01	99
		258	0	02	61
	पोराडिहा	1236	0	03	75
		1237	0	01	58
		1238	0	00	46
		1239	0	06	70
		1240	0	00	10
		1244	0	03	54
		1223	0	04	50
		1222	0	01	75
		1208	0	02	71
		1217	0	02	52
		1216	0	02	15
		1215	0	01	01
		1214	0	02	56
		909	0	03	54
	ब्रह्मपुर	1262	0	00	97
		619	0	07	31
		620	0	00	46
		618	0	03	670
		614	0	04	02
		615	0	00	30
		612	0	01	38
		611	0	04	61
		610	0	01	38
		529	0	17	04
		609	0	01	08
		535	0	01	79
		534	0	01	23
		530	0	00	70
		531	0	00	86
		528	0	02	95
		525	0	10	14
		524	0	00	10
		469	0	15	03
		468	0	13	74
		464	0	01	75
		463	0	01	96

1	2	3	4	5	6
		414	0	03	71
		465	0	01	43
		413	0	02	30
		411	0	08	91
		412	0	03	75
		406	0	14	40
		403	0	04	05
		402	0	00	36
		401	0	05	56
		400	0	00	10
		395	0	01	66
		396	0	03	45
		319	0	10	61
		358	0	04	85
		357	0	00	79
		327	0	03	86
		1245	0	01	77
		328	0	06	11
		330	0	04	07
		332	0	01	23
		333	0	02	87
		334	0	04	80
		337	0	01	78
		336	0	03	46
		206	0	01	59
		200	0	03	31
		198	0	00	99
		197	0	02	50
		180	0	01	37
		179	0	01	99
		49	0	00	19
		50	0	02	14
		178	0	00	80
		177	0	01	02
		176	0	04	68
		175	0	00	28
		168	0	00	11
		169	0	06	67
		158	0	01	03

1	2	3	4	5	6
		170	0	01	56
		157	0	04	00
		151	0	01	24
		156	0	00	47
		152	0	04	68
		154	0	03	17
		153	0	03	80
		155	0	00	15
		142	0	00	10
		143	0	02	25
		144	0	01	22
		145	0	02	02
		146	0	00	89
		127	0	00	55
		107	0	01	13
		108	0	06	11
		106	0	01	88
		109	0	01	62
		110	0	03	36
		1221	0	01	13
		96	0	11	06
		99	0	04	55
		931	0	01	30
		992	0	03	98
		993	0	03	57
		994	0	02	25
		995	0	02	18
		996	0	04	59
		997	0	05	07
		1002	0	09	52
		1220	0	01	43
	अन्जी	1333	0	01	63
		1335	0	03	53
		1339	0	00	14
		1336	0	01	21
		1338	0	13	25
		1341	0	11	22
		1342	0	04	31

1	2	3	4	5	6
		1346	0	03	90
		1352	0	01	97
		1347	0	05	98
		1351	0	05	04
		1353	0	00	10
		1350	0	05	28
		2954	0	00	47
		1349	0	00	10
		2793	0	02	30
		2791	0	01	29
		2794	0	11	63
		2927	0	00	53
		2928	0	02	12
		2804	0	04	15
		2807	0	00	77
		2806	0	00	67
		2805	0	02	86
		2789	0	00	10
		2819	0	01	73
		2821	0	02	32
		2820	0	02	29
		2825	0	04	81
		2779	0	00	81
		2776	0	03	16
		2726	0	00	76
		2772	0	00	75
		2771	0	05	04
		2770	0	01	94
		2769	0	05	66
		2768	0	08	17
		2840	0	02	27
		2762	0	01	47
		2767	0	00	10
		2761	0	07	89
		2760	0	03	30
		2634	0	29	39
		2635	0	00	10
		2484	0	00	10

1	2	3	4	5	6
		2483	0	02	63
		2636	0	00	10
		2482	0	02	90
		2638	0	01	91
		2480	0	05	42
		2950	0	02	38
		2479	0	02	68
		2478	0	00	83
		2463	0	07	34
		2464	0	14	60
		2414	0	08	48
		2405	0	05	16
		2404	0	01	43
		2403	0	01	53
		2406	0	00	73
		2383	0	03	73
		2384	0	02	94
		2382	0	03	14
		2381	0	10	33
		2368	0	09	74
		2367	0	00	83
		2339	0	03	04
		2355	0	12	61
		2356	0	01	76
		2352	0	01	89
		2353	0	02	61
		2354	0	00	34
		2356	0	06	75
		2355	0	12	61
		2241	0	03	00
		2240	0	04	49
		2245	0	00	10
		2238	0	10	36
		2239	0	03	40
		2237	0	03	33
		2236	0	01	33
	साहसपुरा	2927	0	03	34
		2928	0	00	10
		2926	0	01	22

1	2	3	4	5	6
		2925	0	01	00
		2924	0	04	27
		2929	0	00	44
	रतभन्जपुर	7	0	01	74
		8	0	02	88
		6	0	08	21
		9	0	01	73
		5	0	03	95
		15	0	00	41
		4	0	03	70
		407	0	00	17
	कान्हेओगालपुर	677	0	01	60
		713	0	01	12
		714	0	07	36
		712	0	06	42
		711	0	00	10
		708	0	08	28
		685	0	02	19
		707	0	02	01
		705	0	01	29
		706	0	02	18
		686	0	02	27
		692	0	01	25
		690	0	00	76
		691	0	00	21
		693	0	05	44
		673	0	01	31
		696	0	00	77
		695	0	02	67
		694	0	00	28
		744	0	02	33
		743	0	06	03
		745	0	03	12
		1091	0	00	72
		742	0	02	93
		747	0	01	15
		758	0	04	61
		757	0	01	68
		759	0	04	38

1	2	3	4	5	6
		765	0	01	13
		763	0	02	02
		761	0	02	23
		762	0	05	76
		791	0	00	91
		792	0	01	09
		793	0	04	17
		787	0	02	15
		1070	0	00	48
		779	0	13	60
		781	0	08	41
		1104	0	02	17
		794	0	00	42
		1105	0	02	77
		1027	0	01	01
		1026	0	00	54
		1025	0	00	80
		855	0	00	62
		856	0	00	85
		860	0	03	88
		861	0	01	41
		858	0	00	10
		863	0	05	91
		887	0	00	97
		890	0	00	73
		889	0	05	10
		888	0	05	82
		917	0	00	14
		898	0	00	20
		915	0	02	73
		916	0	05	06
		920	0	04	30
		913	0	01	89
		912	0	05	41
		908	0	04	42
		910	0	01	05
		909	0	03	10
		907	0	00	10
		940	0	02	83

1	2	3	4	5	6
		941	0	08	03
		942	0	07	23
		943	0	01	17
	रानीगन्ज	923	0	00	10
		924	0	06	22
		933	0	00	10
		932	0	15	59
		961	0	10	42
		955	0	10	25
		954	0	09	29
		952	0	00	10
		951	0	11	56
		979	0	03	20
		981	0	05	52
		980	0	00	72
		982	0	01	07
		983	0	06	93
		989	0	05	39
		990	0	02	47
		991	0	00	45
		988	0	05	03
		992	0	03	51
		993	0	08	41
		860	0	24	32
		859	0	02	15
		857	0	00	10
		833	0	06	93
		834	0	04	62
		831	0	02	11
		835	0	04	18
		836	0	02	96
		830	0	05	01
		829	0	08	02
		827	0	00	80
		488	0	07	25
	करन्जाबीन्धा	1856	0	01	81
		1855	0	06	22
		1945	0	01	11
		1854	0	05	34

1	2	3	4	5	6
		1853	0	06	26
		1844	0	00	10
		1847	0	07	33
		1848	0	00	78
		1759	0	10	43
		1796	0	00	10
		1797	0	01	24
		1795	0	02	94
		1760	0	04	69
		1761	0	04	23
		1747	0	03	86
		1748	0	00	39
		1746	0	11	08
		1742	0	08	66
		1743	0	00	10
		1744	0	00	10
		1689	0	12	53
		1692	0	11	14
		1691	0	04	09
		1705	0	01	44
		1695	0	00	34
		1703	0	02	04
		1704	0	01	75
		1698	0	00	45
		1697	0	01	50
		1072	0	02	88
		1206	0	00	50
		1073	0	04	91
		1205	0	01	41
		1074	0	01	56
		1204	0	07	47
		1203	0	02	16
		1202	0	00	95
		1201	0	06	78
		1169	0	05	76
		1170	0	05	57
		1171	0	06	21
		1172	0	06	01

1	2	3	4	5	6
		1173	0	00	10
		1197	0	04	35
		1176	0	07	32
		1174	0	00	87
		1175	0	00	20
		978	0	09	38
		977	0	03	96
		976	0	05	08
		975	0	02	46
		974	0	04	02
		705	0	00	78
		706	0	03	69
		707	0	12	24
		708	0	03	30
		710	0	04	56
		711	0	04	21
		712	0	04	29
		900	0	03	57
		899	0	03	29
		734	0	02	33
		733	0	02	70
		735	0	02	03
		731	0	00	27
		732	0	00	36
		740	0	02	46
		730	0	00	10
		741	0	01	66
		746	0	02	36
		742	0	02	01
		745	0	04	28
		750	0	07	45
		751	0	01	11
		744	0	00	10
		756	0	00	43
		755	0	04	93
		758	0	05	15
		759	0	04	02
		281	0	00	10
		282	0	06	18

1	2	3	4	5	6
		283	0	05	27
		285	0	05	20
		286	0	04	76
		295	0	00	57
		296	0	00	22
		294	0	01	19
		297	0	03	44
		298	0	00	10
		251	0	01	64
		253	0	00	32
		2015	0	01	11
		2003	0	00	53
		247	0	01	08
		246	0	03	99
		245	0	00	78
		235	0	05	80
		234	0	05	59
		215	0	00	10
		212	0	00	98
		214	0	07	00
		211	0	04	54
		210	0	00	89
		209	0	05	80
		190	0	00	83
		158	0	01	71
		104	0	02	82
		105	0	02	69
		106	0	08	35
		89	0	01	83
		107	0	28	40
		108	0	04	15
		1994	0	02	84
		113	0	14	41
		12	0	02	95
	जेलपुर	832	0	10	82
		831	0	03	95
		833	0	02	00
		830	0	01	53
		834	0	04	04

1	2	3	4	5	6
		835	0	02	32
		829	0	08	46
		828	0	02	33
		827	0	02	98
		824	0	09	90
		825	0	02	57
		826	0	02	04
		797	0	02	05
		798	0	02	59
		794	0	02	86
		799	0	01	46
		793	0	05	82
		792	0	02	12
	फतेहपुर	904	0	02	12
		908	0	00	49
		909	0	04	68
		928	0	00	43
		929	0	00	20
		910	0	02	91
		911	0	02	90
		912	0	02	07
		927	0	06	73
		919	0	00	11
		921	0	06	47
		851	0	07	91
		852	0	00	10
		848	0	02	98
		849	0	02	07
		847	0	02	83
		846	0	01	89
		991	0	02	46
		844	0	05	69
		842	0	06	13
		841	0	03	37
		840	0	02	39
		832	0	01	87
		830	0	07	12
		829	0	00	94
		827	0	05	67

1	2	3	4	5	6
		824	0	00	10
	कल्याणी	1314	0	01	36
		1311	0	08	96
		4023	0	01	35
		1310	0	07	87
		1308	0	00	10
		1303	0	05	65
		1309	0	03	55
		1301	0	13	05
		1302	0	00	39
		1284	0	09	66
		1287	0	00	10
		1286	0	06	38
		1279	0	02	12
		1273	0	04	15
		1271	0	02	56
		1272	0	04	87
		1269	0	01	26
		602	0	01	33
		605	0	06	92
		607	0	00	79
		609	0	00	53
		606	0	07	19
		610	0	08	21
		595	0	07	60
		584	0	03	92
		585	0	04	00
		586	0	03	32
		414	0	11	24
		417	0	11	09
		416	0	01	49
		415	0	00	27
		419	0	05	41
		421	0	00	10
		400	0	02	15
		399	0	02	28
		393	0	02	31
		392	0	01	69
		396	0	03	10

1	2	3	4	5	6
		391	0	01	35
		384	0	00	10
		385	0	04	08
		386	0	05	19
		372	0	05	61
		373	0	03	43
		374	0	03	19
		375	0	03	48
		198	0	01	96
		199	0	02	72
		197	0	03	28
		196	0	04	16
		195	0	04	12
		210	0	05	85
		161	0	05	84
		211	0	00	86
		160	0	06	36
		159	0	04	77
		158	0	01	31
		156	0	10	58
		155	0	02	32
		83	0	00	90
		82	0	01	54
		81	0	00	73
		34	0	02	84
		35	0	05	66
		31	0	04	79
		29	0	11	36
	नौपुर	1178	0	11	12
		1179	0	02	47
		1180	0	00	14
		1181	0	00	10
		1185	0	04	26
		1186	0	05	76
		1187	0	02	34
		1188	0	00	41
		1172	0	02	11
		1168	0	00	10
		1189	0	01	48

1	2	3	4	5	6
		1166	0	05	61
		1165	0	00	52
		1167	0	00	94
		1164	0	03	08
		1120	0	00	10
		1121	0	01	28
		1122	0	01	31
		1123	0	05	57
		1125	0	09	92
		1124	0	02	76
		1126	0	00	10
		4051	0	07	25
		1131	0	04	10
		1134	0	02	34
		1132	0	04	75
		1111	0	03	00
		1108	0	03	09
		1107	0	04	42
		1106	0	02	97
		292	0	04	66
		297	0	11	07
		299	0	07	33
		4057	0	03	01
		300	0	07	45
		235	0	04	07
		236	0	05	10
		252	0	07	30
		253	0	06	62
		251	0	07	95
		248	0	00	46
		250	0	03	76
		249	0	00	10
		34	0	09	94
		33	0	03	96
		35	0	02	68
		4095	0	03	49
		36	0	03	73
		38	0	03	04
		21	0	01	52

1	2	3	4	5	6
		20	0	01	20
		4078	0	03	66
		19	0	01	81
		39	0	02	15
		43	0	02	21
		18	0	07	37
		17	0	11	85
		16	0	00	80
		11	0	01	88
		13	0	01	83
		12	0	01	67
		7	0	04	10
		6	0	04	47
	सालागन	1300	0	00	64
		1299	0	00	10
		1298	0	03	43
		1297	0	04	50
		1295	0	04	23
		1290	0	02	50
		1296	0	00	14
		1291	0	05	20
		1294	0	00	51
		1293	0	02	63
		1224	0	00	92
		1225	0	08	96
		1226	0	00	10
		1222	0	01	32
		1223	0	03	82
		1221	0	05	38
		1203	0	37	01
		1206	0	00	24
		1205	0	00	10
		1201	0	11	90
		1202	0	02	98
		1160	0	12	63
		484	0	02	82
		485	0	01	97
		474	0	02	59
		473	0	10	34

1	2	3	4	5	6
		472	0	01	62
		471	0	00	67
		470	0	00	10
		465	0	01	55
		464	0	06	34
		431	0	00	10
		432	0	00	10
		463	0	04	80
		462	0	01	76
		437	0	11	88
		438	0	03	61
		439	0	05	14
		440	0	04	71
		399	0	08	55
		398	0	00	10
		400	0	04	26
		401	0	05	93
		232	0	11	19
		233	0	00	10
		234	0	04	01
		226	0	12	92
		235	0	00	10
		225	0	01	84
		221	0	03	30
		224	0	01	16
		222	0	03	44
		219	0	04	30
		218	0	01	72
		216	0	04	28
		185	0	07	53
		1425	0	01	96
		1426	0	03	94
		183	0	05	10
		142	0	12	01
		140	0	06	23
		136	0	15	22
		137	0	03	20
		7	0	00	80
		6	0	02	23

1	2	3	4	5	6
		5	0	00	74
		1	0	01	77
	ओडसाल	746	0	00	49
		742	0	02	27
		743	0	05	21
		745	0	00	10
		744	0	00	87
		739	0	01	76
		740	0	05	02
		741	0	03	53
		729	0	03	96
		730	0	01	20
		728	0	01	10
		542	0	00	10
		537	0	00	38
		536	0	02	88
		535	0	01	79
		525	0	01	64
	नारायनबारा	453	0	04	76
		1382	0	04	18
		1381	0	01	40
		1367	0	08	10
		1379	0	02	16
		1378	0	02	32
		1368	0	00	61
		1369	0	00	10
		1377	0	04	21
		1387	0	19	14
		1389	0	00	25
		1375	0	01	81
		1390	0	01	65
		1392	0	03	74
बालेसर	श्रीजन्ग	1970	0	13	78
		1971	0	00	20
		1969	0	01	94
		1968	0	00	66
		1967	0	01	57
		1966	0	03	15
		1965	0	00	20

1	2	3	4	5	6
		1943	0	25	70
		1942	0	03	95
		1941	0	02	28
		1940	0	08	63
		1911	0	03	84
		1912	0	05	93
		4910	0	02	99
		5358	0	00	72
		4909	0	03	24
		4911	0	00	87
		1910	0	00	20
		1908	0	07	94
		1907	0	00	10
		1903	0	02	01
		1902	0	01	52
		1901	0	06	86
		1897	0	04	99
		1898	0	03	85
		1885	0	01	20
		1853	0	03	74
		1852	0	13	37
		1854	0	01	36
		1849	0	08	24
		1848	0	07	90
		1798	0	17	43
		1797	0	01	08
		1796	0	07	71
		1795	0	08	66
		1794	0	08	94
		1793	0	06	18
		4944	0	04	37
		1792	0	01	48
		1791	0	00	15
		1726	0	03	99
	चकश्रीरामपूर	17	0	07	84
		16	0	09	78
		11	0	07	51
		13	0	07	89
		14	0	03	10

1	2	3	4	5	6
		80	0	04	52
		63	0	07	21
		4	0	07	92
		3	0	02	95
		27	0	00	10
		61	0	01	51
	बोईता	2706	0	03	48
		2566	0	02	64
		2567	0	02	63
		2572	0	02	65
		2571	0	02	45
		2570	0	02	54
		2574	0	06	35
		2531	0	01	95
		2530	0	01	73
		2524	0	01	12
		2525	0	03	08
		2527	0	04	36
		2528	0	04	22
		2511	0	00	25
		2510	0	00	10
		2512	0	03	53
		2513	0	05	82
		2495	0	00	10
		2494	0	04	82
		2740	0	01	53
		2493	0	06	74
		2492	0	05	63
		2497	0	00	35
		2480	0	10	04
		2489	0	01	20
		2488	0	05	28
		2481	0	08	66
		2487	0	09	15
		2019	0	02	62
		2014	0	46	88
		1989	0	06	46
		1992	0	02	36
		1991	0	00	65

1	2	3	4	5	6
		1993	0	00	66
		1994	0	07	29
		1998	0	01	40
		1997	0	03	01
		1999	0	05	00
		2000	0	00	26
		1996	0	02	06
		2003	0	08	95
		2002	0	00	10
		2004	0	02	58
		120	0	00	10
	सहानीयागडीया	120	0	00	10
		121	0	02	26
		122	0	00	43
		119	0	05	03
		114	0	04	03
		123	0	04	49
		174	0	00	20
		173	0	01	10
		172	0	04	95
		180	0	01	36
		182	0	00	10
		183	0	00	82
		184	0	01	46
		214	0	04	93
		170	0	03	70
		163	0	04	47
		162	0	00	10
		160	0	01	23
		159	0	02	31
		158	0	00	68
		157	0	03	82
		155	0	04	03
		136	0	03	31
		137	0	00	61
		138	0	04	34
		97	0	01	28
		96	0	07	61
		31	0	00	10

1	2	3	4	5	6
		95	0	04	14
		89	0	00	10
		93	0	00	88
		94	0	01	59
		91	0	00	46
		90	0	02	71
		92	0	01	23
		209	0	01	52
		34	0	03	92
		35	0	03	74
		60	0	08	53
		59	0	02	03
		37	0	01	63
		44	0	03	78
		46	0	06	27
		47	0	00	10
	गम्भारिया	1359	0	15	75
		1360	0	09	88
		1361	0	02	17
		1358	0	00	10
		1364	0	05	96
		1354	0	02	09
		1368	0	04	90
		1369	0	03	11
		2637	0	04	39
		1421	0	00	23
		1422	0	03	54
		1425	0	02	15
		1426	0	02	43
		1424	0	01	36
		1428	0	01	82
		1429	0	02	31
		1430	0	02	17
		1431	0	01	67
		1432	0	01	60
		1524	0	00	53
		1523	0	02	36
		1513	0	05	85
		2620	0	00	20

1	2	3	4	5	6
		1512	0	01	58
		1511	0	02	37
		1510	0	05	33
		1509	0	02	30
		1508	0	02	95
		1502	0	00	28
		2549	0	01	11
		1503	0	04	41
		1500	0	00	81
		1504	0	00	20
		2585	0	05	12
		1499	0	01	32
		1498	0	03	59
		1497	0	04	50
		1494	0	01	21
		1496	0	04	04
		1495	0	00	10
		1604	0	04	08
		1616	0	03	17
		1701	0	00	10
		1617	0	04	54
		1618	0	01	78
		1698	0	04	33
		1619	0	01	85
		1620	0	02	43
		1622	0	01	85
		1623	0	03	85
		1624	0	03	20
		1628	0	01	96
		1666	0	04	63
		1664	0	00	17
		1665	0	02	77
		1663	0	02	21
		1668	0	00	31
		1662	0	05	06
		1657	0	02	73
		1651	0	05	89
		1650	0	07	18
		1649	0	05	74

1	2	3	4	5	6
		1647	0	04	46
		1646	0	01	27
		2501	0	00	41
		2502	0	04	27
		1645	0	00	10
		2503	0	05	00
		2506	0	01	48
		2504	0	00	11
		2505	0	01	66
	तुन्डरा	774	0	00	74
		776	0	03	37
		777	0	01	54
		779	0	01	61
		781	0	01	44
		5653	0	02	69
		783	0	01	94
		784	0	01	87
		786	0	04	11
		819	0	05	73
		4967	0	01	45
		818	0	06	64
		816	0	11	37
		815	0	09	35
		814	0	01	18
		813	0	04	40
		812	0	02	69
		810	0	00	43
		809	0	01	71
		847	0	09	78
		852	0	03	44
		851	0	01	16
		850	0	02	39
		871	0	01	52
		872	0	00	16
		870	0	16	02
		4045	0	03	52
		4812	0	00	58
		4813	0	00	90
		865	0	03	33

1	2	3	4	5	6
	कौनपूर	220	0	02	23
		221	0	00	43
		216	0	16	41
		211	0	00	11
		210	0	06	11
		209	0	00	10
		208	0	02	82
		184	0	03	93
		185	0	02	63
		207	0	00	10
		206	0	01	36
		205	0	04	03
		204	0	07	18
		202	0	00	10
		203	0	00	44
		192	0	06	52
		196	0	06	26
		302	0	00	94
		303	0	00	74
		304	0	00	90
		544	0	01	60
		536	0	04	88
		537	0	04	18
		532	0	02	12
		531	0	02	71
		524	0	00	90
		523	0	00	10
		525	0	10	94
		519	0	04	22
		518	0	00	38
		514	0	04	97
		513	0	02	23
		1544	0	00	97
		512	0	02	14
		511	0	00	18
		562	0	00	15
		565	0	10	42
		569	0	07	67
		567	0	01	77

1	2	3	4	5	6
		568	0	07	94
		695	0	03	39
		570	0	00	10
		571	0	00	93
		694	0	01	02
		688	0	05	36
		692	0	03	26
		691	0	06	59
		1567	0	03	90
		1479	0	00	35
		689	0	11	60
		684	0	01	53
		685	0	06	05
		670	0	08	76
		671	0	01	72
		668	0	07	36
		667	0	03	90
		793	0	03	31
		666	0	01	52
	भीमपुर	162	0	08	96
		161	0	04	94
		157	0	04	65
		156	0	04	18
		155	0	00	10
		149	0	05	54
		150	0	02	31
		145	0	07	49
		143	0	03	15
		136	0	04	58
		137	0	03	18
		130	0	05	60
		4385	0	04	90
		104	0	00	15
		105	0	00	12
		107	0	00	10
		121	0	13	36
		111	0	03	30
		110	0	03	07
		109	0	02	69

1	2	3	4	5	6
		89	0	02	65
		87	0	03	88
		80	0	05	72
		78	0	00	10
		79	0	02	94
		77	0	00	31
		4698	0	03	94
		82	0	00	10
		61	0	04	51
		60	0	01	10
		59	0	01	04
		51	0	01	18
		54	0	00	16
		56	0	05	24
		4764	0	01	64
		58	0	00	56
		4763	0	01	26
		57	0	03	20
		35	0	01	03
		33	0	04	04
		34	0	02	72
		22	0	00	40
		25	0	07	09
		29	0	07	26
		28	0	01	73
		268	0	09	08
		275	0	08	13
		4579	0	01	32
		276	0	04	50
		1	0	01	45
		26	0	01	24
		27	0	03	56
	चान्दिपुर	525	0	03	26
		421	0	02	35
		585	0	00	85
		422	0	03	90
		419	0	00	34
		420	0	06	26
		423	0	00	34

1	2	3	4	5	6
		413	0	02	36
		414	0	03	62
		415	0	01	16
		411	0	00	43
		410	0	04	14
		356	0	05	59
		354	0	04	56
		357	0	03	95
		353	0	00	10
		508	0	00	50
		352	0	04	69
		350	0	01	95
		351	0	03	45
		348	0	05	27
		582	0	00	10
	छेलियापाड़ा	491	0	00	55
		492	0	05	32
		494	0	05	74
		519	0	00	33
		495	0	04	29
		446	0	03	33
		447	0	03	21
		450	0	04	06
		521	0	00	22
		522	0	03	54
		523	0	00	51
		451	0	06	18
		452	0	0	74
		445	0	04	36
		408	0	04	00
		407	0	04	77
		414	0	07	75
		415	0	03	18
		416	0	00	20
		404	0	06	41
		344	0	04	41
		341	0	05	09
		343	0	00	10
		342	0	03	01

1	2	3	4	5	6
		340	0	01	55
		337	0	09	05
		338	0	02	05
		310	0	01	74
		313	0	03	80
		312	0	00	17
		336	0	00	10
		314	0	03	85
		321	0	00	22
		315	0	04	99
		545	0	00	50
		316	0	01	12
	साहाजानगर	48	0	01	80
		1684	0	01	36
		1685	0	01	07
		47	0	04	76
		45	0	05	23
		46	0	00	10
		44	0	03	14
		43	0	03	63
		41	0	04	26
		38	0	03	40
		36	0	01	29
		39	0	01	27
		1495	0	04	39
		35	0	01	66
		32	0	01	46
		33	0	02	35
		22	0	05	04
		25	0	00	36
		23	0	00	34
		24	0	03	22
		16	0	04	53
		15	0	00	10
		14	0	04	04
		13	0	01	87
		1440	0	01	81
		1439	0	01	63
		1438	0	00	82

1	2	3	4	5	6
		10	0	00	10
		7	0	09	33
		5	0	03	21
		1	0	01	42
	जयदेबकस्वा	2282	0	01	06
		2286	0	08	89
		2287	0	06	86
		2285	0	19	93
		2318	0	07	66
		5045	0	00	10
		2320	0	00	10
		2316	0	00	10
		2315	0	04	47
		2314	0	04	66
		5576	0	03	40
		2313	0	00	40
		2337	0	01	61
		2336	0	01	86
		2339	0	01	17
		5376	0	01	99
		2340	0	07	56
		2341	0	00	10
		5034	0	05	82
		3057	0	00	37
		3056	0	00	81
		5345	0	04	97
		3052	0	00	71
		3051	0	02	56
		2342	0	02	53
		3046	0	05	15
		3045	0	05	55
		3041	0	02	23
		3021	0	02	34
		3022	0	01	96
		3023	0	00	47
		3017	0	01	98
		3016	0	03	62
		3013	0	08	71
		3004	0	05	36

1	2	3	4	5	6
		3003	0	12	65
		2998	0	03	60
		2997	0	02	88
		2963	0	03	76
		2962	0	00	59
		2980	0	01	85
		2965	0	03	96
		2981	0	00	40
		2967	0	04	25
		2969	0	02	95
		2968	0	00	10
		5587	0	02	88
		2976	0	04	27
		2971	0	04	16
		2904	0	01	98
		2905	0	01	98
		2901	0	03	63
		2899	0	03	44
		2840	0	00	68
		2829	0	04	60
		2839	0	01	32
		2830	0	00	60
		2831	0	00	87
		2838	0	01	49
		5547	0	00	76
		2837	0	01	74
		5365	0	03	14
		2804	0	03	18
		2803	0	05	83
		2802	0	00	10
		2801	0	00	83
		2798	0	06	13
		5294	0	00	10
		2797	0	05	26
		2796	0	01	74
		5505	0	09	96
		2755	0	08	52
		2795	0	00	10
		2760	0	08	40

1	2	3	4	5	6
		2761	0	00	10
		532	0	04	04
		531	0	08	31
	माजहीकीया	92	0	01	70
		93	0	03	62
		88	0	05	80
		87	0	02	87
		86	0	02	47
		85	0	02	03
		84	0	02	53
		59	0	07	40
		96	0	00	10
		97	0	00	10
		58	0	00	30
		57	0	00	83
		56	0	05	03
		18	0	09	83
		19	0	07	99
		9	0	05	52
		24	0	05	07
		26	0	03	83
		1015	0	00	53
		1023	0	07	14
		27	0	03	44
		29	0	04	38
		993	0	00	53
		30	0	00	90
	पुरुषोत्तमपुर	60	0	06	40
		61	0	03	37
		63	0	05	68
		64	0	04	94
		65	0	06	45
	बाराकिया	112	0	06	11
		111	0	07	29
		105	0	01	27
		104	0	00	10
		110	0	08	50
		109	0	04	40
		106	0	02	10

1	2	3	4	5	6
		103	0	05	23
		1672	0	07	99
		78	0	04	88
		82	0	03	97
		1278	0	01	10
		81	0	04	53
		84	0	01	40
		1690	0	04	14
		1689	0	00	89
		67	0	01	86
		201	0	05	88
		1746	0	02	32
		1694	0	00	70
		1778	0	04	92
		203	0	00	49
		202	0	03	11
		205	0	04	61
		206	0	03	62
		207	0	02	62
		1867	0	00	10
		209	0	00	40
		208	0	08	54
		210	0	02	04
		1687	0	00	34
		32	0	02	77
		31	0	01	04
		30	0	09	22
		29	0	01	81
		22	0	20	73
		222	0	00	10
		28	0	00	20
		25	0	01	75
		26	0	01	72
		5	0	02	74
		314	0	00	10
		313	0	06	97
		312	0	08	73
		307	0	00	40
		309	0	06	18

1	2	3	4	5	6
		308	0	00	39
		342	0	01	59
		331	0	01	08
		341	0	05	01
		339	0	00	91
		340	0	02	42
		338	0	01	47
		337	0	00	23
		336	0	11	72
		344	0	00	28
		335	0	01	12
		1	0	03	29
	पदमपुर	462	0	03	78
		505	0	02	98
		511	0	02	06
		513	0	01	68
		512	0	01	58
		532	0	01	75
		533	0	01	24
		535	0	06	66
		534	0	00	75
		536	0	06	98
		537	0	00	13
		508	0	00	29
		582	0	04	80
		583	0	02	73
		580	0	01	67
		584	0	01	45
		615	0	05	89
		604	0	01	77
		605	0	01	69
		609	0	01	69
		606	0	01	21
		607	0	02	30
		608	0	02	88
		1822	0	05	19
		1874	0	06	37
		1878	0	04	46
		1877	0	00	33

1	2	3	4	5	6
		1872	0	01	46
		1879	0	03	37
		1880	0	00	87
		1870	0	05	95
		1881	0	07	81
		2019	0	00	57
		1907	0	06	40
		1908	0	00	68
		1906	0	06	33
		1916	0	07	43
		1917	0	00	10
		1915	0	00	10
		1914	0	06	26
		1913	0	08	63
		1925	0	01	07
		1963	0	00	98
		1962	0	01	57
		1961	0	08	92
		1964	0	00	10
		1960	0	09	93
		1954	0	01	31
		1953	0	08	99
		2092	0	01	14
		2086	0	01	74
		2087	0	00	20
		2091	0	10	35
		2096	0	00	22
		2095	0	00	10
		2482	0	05	50
		2481	0	03	39
		2479	0	04	01
		2478	0	00	45
		2477	0	02	20
		2476	0	03	02
		2474	0	01	84
		2475	0	00	34
		2466	0	07	43
		2473	0	01	08
		2468	0	00	53

1	2	3	4	5	6
		2457	0	12	20
		2453	0	09	75
		2452	0	00	68
		2451	0	05	11
		2448	0	05	31
		2438	0	02	71
		2437	0	01	77
		2449	0	00	10
		2436	0	01	29
		2405	0	02	31
		2399	0	02	01
		2404	0	09	91
		2403	0	00	10
	तलपाडा	549	0	01	16
		551	0	00	10
		550	0	02	84
		552	0	00	43
		553	0	02	40
		554	0	05	01
		627	0	07	32
		560	0	09	36
		561	0	00	82
		562	0	00	20
		569	0	00	69
		568	0	04	67
		571	0	05	24
		572	0	05	55
		574	0	05	32
		573	0	00	17
		580	0	02	40
		581	0	05	16
		519	0	05	50
		517	0	01	85
		516	0	00	10
		518	0	11	35
		510	0	00	29
		508	0	00	89
		509	0	07	74
		507	0	02	32

1	2	3	4	5	6
		493	0	00	30
		494	0	04	22
		496	0	08	72
		497	0	08	37
		185	0	00	13
		186	0	05	70
		464	0	05	18
		461	0	01	72
		462	0	00	25
		460	0	02	62
		434	0	06	16
		435	0	03	97
		436	0	03	23
		438	0	00	30
		437	0	06	28
		399	0	01	80
		371	0	00	47
		372	0	06	86
		370	0	08	60
		662	0	01	13
		375	0	00	95
		663	0	04	07
		365	0	00	31
		379	0	04	30
		625	0	08	71
		356	0	00	64
		357	0	00	10
		355	0	08	85
		358	0	01	54
		308	0	02	45
		647	0	00	81
		354	0	01	42
		353	0	05	80
		350	0	02	68
		352	0	00	10
		351	0	03	98
		317	0	04	80
		318	0	00	84
		320	0	01	64

1	2	3	4	5	6
		319	0	03	43
		322	0	03	30
	गुड	1815	0	01	80
		1816	0	05	21
		3031	0	01	12
		5004	0	11	94
		3029	0	01	33
		3026	0	04	74
		3024	0	01	65
		3025	0	00	57
		3023	0	02	65
		3020	0	00	15
		3022	0	02	16
		3021	0	04	07
		2282	0	00	78
		2283	0	07	49
		2284	0	03	06
		5690	0	01	98
		5470	0	00	10
		2279	0	02	11
		2268	0	02	65
		2269	0	01	75
		2270	0	02	26
		2271	0	06	73
		2272	0	01	54
		2274	0	06	00
		2276	0	00	10
		2254	0	01	19
		5249	0	00	15
		2255	0	00	89
		2252	0	03	54
		5282	0	02	22
		5686	0	02	38
		2253	0	02	73
		2341	0	01	59
		2319	0	02	20
		2316	0	00	75
		2318	0	06	00
		2326	0	03	86

1	2	3	4	5	6
		2329	0	03	09
		2327	0	00	10
		2330	0	04	15
		2332	0	00	79
		2333	0	08	43
		2336	0	09	07
		5549	0	00	83
		2348	0	01	95
		2347	0	11	50
		2346	0	00	86
		2350	0	04	33
		2351	0	01	40
	रानासाही	2621	0	14	60
		2582	0	00	86
		2616	0	08	08
		2617	0	01	48
		2615	0	00	17
		2614	0	04	96
		2636	0	00	17
		2613	0	01	27
		2611	0	00	57
		2612	0	05	36
		2608	0	04	96
		2607	0	12	32
		2441	0	14	74
		2439	0	02	22
		2437	0	01	43
		2436	0	01	33
		2435	0	03	45
		2329	0	00	10
		2330	0	12	84
		2434	0	00	46
		2331	0	05	01
		2338	0	08	82
		2332	0	01	90
		2334	0	02	79
		2333	0	02	16
		2398	0	10	43
		2383	0	11	28
		2384	0	00	10

1	2	3	4	5	6
		2386	0	00	10
		2371	0	00	77
		2387	0	08	77
		2249	0	14	47
		2246	0	02	08
		2245	0	06	14
		4144	0	07	55
		2244	0	00	49
		2249	0	14	48
		4434	0	00	10
		2248	0	00	10
		2253	0	08	91
		2250	0	00	49
		4408	0	00	10
		2251	0	00	10
		4261	0	03	25
		2255	0	00	38
		2256	0	02	13
		2257	0	02	24
		2258	0	01	76
		2259	0	01	02
		2266	0	04	03
		2262	0	00	81
		2263	0	02	97
		2264	0	00	94
		2069	0	01	50
		2070	0	07	41
		2229	0	06	30
		2226	0	00	10
		2227	0	18	66
		3925	0	09	67
		2228	0	05	53
		2220	0	00	10
		2219	0	06	85
		2218	0	08	94
		4192	0	01	88
		2215	0	00	10
		2216	0	06	54
		2897	0	02	22
		2998	0	04	18

1	2	3	4	5	6
		2901	0	06	48
		2900	0	00	65
		2902	0	05	75
		2903	0	01	42
		2904	0	11	83
		2908	0	00	25
		2907	0	00	10
		2905	0	05	69
		2906	0	04	40
		1322	0	01	14
		4189	0	02	52
	हिरोगान	2110	0	04	96
		2111	0	04	16
		2112	0	07	18
		2109	0	15	43
		2113	0	03	06
		2114	0	01	40
		2115	0	00	83
		5806	0	00	10
		5533	0	01	45
		2177	0	00	59
		2021	0	13	67
		5524	0	06	16
		2020	0	05	63
		2019	0	01	27
		2018	0	01	96
		2017	0	00	10
		1978	0	14	15
		1977	0	05	98
		1974	0	02	48
		1973	0	02	16
		1966	0	05	27
		1963	0	03	01
		1960	0	03	96
		1957	0	03	18
		1698	0	03	40
		1699	0	03	58
		1956	0	00	10
		1700	0	00	80
		5555	0	02	03

1	2	3	4	5	6
		1954	0	05	04
		1703	0	03	44
		1710	0	02	75
		1711	0	03	71
		5569	0	08	90
		1713	0	00	97
		1714	0	02	66
		1715	0	03	18
		5525	0	00	39
		1716	0	03	49
		1919	0	26	21
		1906	0	05	99
		1907	0	06	34
		1901	0	03	12
		1900	0	03	12
		1895	0	04	63
		1894	0	02	87
		1887	0	05	05
		1882	0	00	91
		1883	0	01	84
		1860	0	03	21
		1867	0	00	10
		1866	0	03	48
		1862	0	03	92
		1850	0	04	18
		1851	0	04	73
		1852	0	00	10
		1842	0	02	22
		1841	0	05	16
		1843	0	03	85
		1844	0	04	29
		1828	0	06	47
		1827	0	03	76
		1826	0	03	25
		1817	0	02	74
		1816	0	06	38
		1815	0	12	07
		1792	0	03	10
		1794	0	02	24
		1795	0	01	19

1	2	3	4	5	6
		1718	0	02	61
		1799	0	03	63
		1809	0	01	06
		1812	0	17	70
		1811	0	01	26
		418	0	00	10
		421	0	14	45
		409	0	04	13
		408	0	01	09
		407	0	07	45
		406	0	00	96
		391	0	01	22
		390	0	00	87
		379	0	08	34
		373	0	01	05
		381	0	03	61
		380	0	07	78
		386	0	09	13
		382	0	01	11
		383	0	02	12
		190	0	02	57
		191	0	02	79
		175	0	16	43
		172	0	00	20
		176	0	00	32
		174	0	01	56
		173	0	08	43
		177	0	01	92
		178	0	04	43
		179	0	16	35
		180	0	10	37
		181	0	00	24
		157	0	00	67
		156	0	24	77
		158	0	06	97
		250	0	02	92
		273	0	01	42
		274	0	02	40
		275	0	00	16
		277	0	01	85

1	2	3	4	5	6
		271	0	00	16
		278	0	02	37
		279	0	01	39
		280	0	02	20
		284	0	00	45
		283	0	01	21
		285	0	03	79
		286	0	01	86
		182	0	04	43
	पात्रापाङ्ग	825	0	03	62
		824	0	05	04
		802	0	06	39
		800	0	04	78
		796	0	05	64
		795	0	01	35
		794	0	03	35
		791	0	06	30
		790	0	06	07
		786	0	05	38
		785	0	11	29
		781	0	07	60
		773	0	06	22
		779	0	04	84
		772	0	05	89
		760	0	07	31
		757	0	01	52
		758	0	06	54
		766	0	16	50
		754	0	07	85
		745	0	00	10
		746	0	04	59
		747	0	06	48
		1218	0	07	97
		741	0	10	89
		739	0	07	95
		737	0	12	03
		736	0	01	35
		730	0	02	16
		677	0	02	40

1	2	3	4	5	6
		676	0	02	00
	पूरा ना बालेसर	854	0	04	17
		857	0	04	07
		859	0	02	84
		858	0	00	10
		1165	0	09	68
		868	0	05	18
		870	0	01	58
		873	0	03	51
		880	0	03	79
		879	0	00	58
		881	0	07	02
		882	0	00	17
		878	0	04	13
		894	0	00	10
		893	0	04	10
		897	0	02	65
		898	0	01	83
		900	0	03	29
		904	0	02	03
		905	0	02	50
		915	0	05	76
		914	0	05	47
		916	0	00	38
		913	0	00	48
		912	0	07	67
		949	0	00	10
		948	0	06	09
		947	0	04	39
		964	0	01	08
		963	0	04	84
		962	0	04	51
		961	0	01	44
		1312	0	02	26
		361	0	00	10
		959	0	07	11
		362	0	06	78
		964	0	01	08
		363	0	01	92

1	2	3	4	5	6
		371	0	00	11
		370	0	00	68
		372	0	06	55
		373	0	06	69
		386	0	04	53
		381	0	06	78
		382	0	04	53
		61	0	00	08
		59	0	03	11
		60	0	07	36
		386	0	00	10
		58	0	05	91
		55	0	00	56
		56	0	01	29
		45	0	00	15
		42	0	06	92
		43	0	07	35
		40	0	02	25
		38	0	09	11
		37	0	00	90
		10	0	02	03
		9	0	10	83
		407	0	05	55
		8	0	03	89
		7	0	01	63
		6	0	05	30
		5	0	03	73
		4	0	04	11
		412	0	05	13
		1	0	02	92
		1627	0	03	21
		2577	0	03	84
		1626	0	04	24
		948	0	06	09
	पाल बालेसर	485	0	02	55
		484	0	00	10
		486	0	01	71
		481	0	24	08
		487	0	03	71

1	2	3	4	5	6
		461	0	38	60
		334	0	06	47
		333	0	06	23
		341	0	02	88
		342	0	00	10
		340	0	04	52
		339	0	06	40
		521	0	00	10
		346	0	00	10
		427	0	00	10
		352	0	01	18
		353	0	01	68
		355	0	02	11
		356	0	00	10
		387	0	00	10
		386	0	05	31
		385	0	00	77
		393	0	05	00
		384	0	04	76
		383	0	01	64
		394	0	03	12
	पाखराबाद	204	0	03	19
		211	0	00	65
		214	0	06	38
		215	0	01	32
		216	0	04	38
		217	0	00	10
		250	0	09	64
		252	0	01	83
		251	0	02	79
		247	0	00	10
		246	0	03	75
		245	0	00	10
		224	0	04	36
		223	0	01	22
		298	0	04	07
		297	0	00	58
		299	0	03	22
		300	0	03	67

1	2	3	4	5	6
		543	0	03	37
		542	0	00	48
		301	0	00	17
		528	0	09	45
		520	0	00	10
		529	0	02	37
		531	0	02	41
		532	0	08	39
		526	0	05	03
		525	0	00	10
		524	0	03	86
		757	0	00	93
		499	0	07	73
		498	0	05	56
		497	0	00	34
		500	0	00	40
		493	0	02	49
		492	0	09	40
		477	0	08	12
		481	0	00	97
		480	0	02	36
		478	0	02	97
		811	0	03	53
		454	0	00	10
		839	0	01	35
		456	0	01	39
		455	0	02	76
		451	0	03	01
		457	0	02	02
		458	0	04	26
		452	0	00	84
		450	0	01	05
		459	0	00	10
	धुसुली	785	0	01	77
		782	0	04	14
		781	0	03	52
		780	0	00	10
		754	0	01	13
		775	0	04	50

1	2	3	4	5	6
		776	0	00	10
		764	0	03	96
		774	0	00	34
		765	0	01	17
		762	0	00	12
		766	0	05	59
		767	0	02	69
		768	0	00	10
		683	0	05	96
		682	0	03	83
		675	0	02	32
		681	0	00	25
		676	0	08	99
		670	0	05	81
		669	0	04	50
		665	0	01	30
		666	0	01	75
		663	0	02	50
		664	0	01	17
		449	0	00	85
		662	0	00	12
		815	0	01	21
		448	0	11	48
		450	0	01	82
		451	0	03	31
		447	0	03	09
		445	0	01	53
		440	0	00	90
		443	0	01	01
		442	0	00	40
		444	0	18	60
		383	0	01	10
		382	0	00	59
		380	0	12	24
		379	0	08	59
		378	0	08	53
		376	0	04	83
		375	0	04	00
		374	0	01	55

1	2	3	4	5	6
	डुमरिया	100	0	01	68
		1109	0	00	99
		193	0	06	36
		113	0	00	27
		117	0	18	15
		116	0	02	79
		192	0	01	41
		118	0	03	64
		190	0	08	64
		206	0	00	26
		188	0	06	05
		187	0	07	77
		186	0	00	10
		214	0	04	52
		215	0	01	12
		213	0	03	92
		212	0	07	11
		211	0	00	10
		210	0	00	10
		218	0	07	16
		325	0	06	06
		309	0	06	90
		326	0	04	31
		327	0	11	09
		328	0	01	10
		1066	0	01	10
		329	0	05	14
		330	0	01	07
		1092	0	01	43
		332	0	01	63
		331	0	01	43
		334	0	00	63
		333	0	00	97
		300	0	04	78
		299	0	00	15
		252	0	10	09
		294	0	03	06
		290	0	08	49
		292	0	01	64

1	2	3	4	5	6
		291	0	04	40
		288	0	01	05
		286	0	01	38
		287	0	04	47
		281	0	00	32
		358	0	08	80
		357	0	04	29
		367	0	03	74
		368	0	00	46
		366	0	01	41
		363	0	08	56
		375	0	07	07
		377	0	00	45
		485	0	03	45
	मधुसुदनपुर	254	0	02	70
		282	0	05	88
		283	0	00	78
		618	0	00	75
		617	0	05	94
		616	0	02	34
		615	0	01	79
		609	0	00	17
		611	0	03	36
		610	0	09	50
		613	0	02	78
		630	0	04	80
		640	0	01	33
		643	0	02	65
		639	0	00	17
		644	0	00	29
		646	0	00	59
		647	0	05	33
		714	0	06	35
		653	0	04	21
		705	0	11	48
		655	0	03	77
		704	0	01	82
		700	0	04	69
		698	0	14	00

1	2	3	4	5	6
		695	0	11	20
		808	0	05	99
		809	0	07	02
		810	0	03	80
		685	0	03	11
		813	0	01	49
		815	0	00	70
		817	0	00	10
		816	0	01	34
		1408	0	05	37
		851	0	05	62
		852	0	06	64
		895	0	00	12
		892	0	06	53
		893	0	00	63
		853	0	02	36
		888	0	08	00
		889	0	03	07
		887	0	00	12
		886	0	00	54
		882	0	01	04
		883	0	07	85
		885	0	00	25
		1473	0	01	26
		1378	0	03	42
	मन्दाधार	100	0	04	57
		93	0	10	31
		92	0	00	10
		94	0	09	55
	टेन्दुलीमुन्डी	262	0	06	79
		263	0	00	74
		260	0	08	56
		266	0	03	68
		289	0	03	74
		267	0	13	37
		268	0	02	59
		191	0	04	02
		190	0	03	67
		189	0	01	53

1	2	3	4	5	6
		188	0	00	10
	अकिनिया	316	0	07	84
		318	0	00	10
		315	0	05	67
		317	0	00	10
		314	0	06	15
		302	0	00	31
		363	0	00	30
		304	0	09	89
		305	0	03	17
		294	0	03	65
		310	0	05	79
		292	0	04	20
		291	0	02	16
		286	0	03	70
		354	0	04	25
		284	0	08	30
		179	0	00	83
		135	0	07	72
		142	0	00	10
		136	0	00	10
		138	0	05	58
		137	0	07	72
		335	0	00	10
		112	0	01	90
		109	0	00	40
		111	0	08	37
		74	0	02	50
		75	0	01	45
		76	0	03	04
		79	0	02	59
		80	0	06	67
		33	0	06	90
		81	0	04	63
		32	0	02	70
		7	0	00	10
		6	0	14	82
		1	0	12	13
	बिसनुपुर	50	0	08	29

1	2	3	4	5	6
		51	0	03	52
		52	0	01	84
		53	0	02	09
		46	0	07	34
		44	0	09	12
		55	0	00	10
		56	0	00	10
		43	0	07	69
		39	0	02	15
		32	0	16	33
		33	0	00	55
		31	0	07	66
		29	0	01	46
		30	0	09	62
		3	0	07	89
	सारगान	649	0	00	10
		648	0	00	12
		647	0	00	89
		646	0	05	30
		645	0	02	63
		644	0	02	15
		639	0	08	23
		640	0	04	24
		625	0	00	41
		624	0	04	01
		621	0	00	36
		620	0	07	78
		617	0	08	70
		609	0	01	58
		611	0	07	16
		610	0	02	09
	जुनागडिया	189	0	05	31
		130	0	00	10
		96	0	07	47
		95	0	12	21
		94	0	03	61
		100	0	03	76
		99	0	00	19
		93	0	04	03

1	2	3	4	5	6
	हिन्जोला	501	0	00	86
		500	0	04	19
		497	0	02	77
		494	0	07	23
		493	0	09	45
		227	0	16	08
		219	0	00	10
		220	0	06	75
		218	0	05	63
		213	0	01	24
		212	0	03	96
		214	0	00	91
		211	0	03	46
		208	0	00	28
		209	0	00	91
		95	0	01	08
		527	0	10	90
		86	0	03	51
		21	0	02	57
		22	0	02	82
		24	0	03	43
		17	0	12	27
		25	0	03	68
		26	0	05	48
		28	0	00	60
		507	0	02	09
		518	0	04	52
		27	0	00	69
		15	0	01	38
		16	0	00	73
	अमारा	766	0	20	62
		588	0	02	43
		587	0	03	69
		574	0	01	70
		584	0	09	20
		583	0	08	17
		579	0	13	06
		522	0	03	09

1	2	3	4	5	6
	पञ्जाबाडगान	3068	0	04	22
		3069	0	07	94
		3070	0	08	67
		3066	0	06	75
		3065	0	04	05
		3107	0	03	07
		3108	0	05	03
		3109	0	02	52
		3301	0	01	06
		3225	0	05	75
		3300	0	01	51
		3226	0	18	63
		3299	0	01	91
		3290	0	01	84
		3228	0	01	53
		3284	0	04	11
		3283	0	02	76
		3282	0	00	29
		3281	0	02	08
		3236	0	30	62
		3233	0	00	10
		3197	0	04	94
		3237	0	00	28
		3195	0	06	91
		3193	0	01	69
		3238	0	00	37
		3192	0	12	31
		3504	0	00	46
		3191	0	10	14
		3190	0	10	61
		3246	0	00	10
	बाहादुरपुर	263	0	04	39
		323	0	00	10
		319	0	03	32
		320	0	02	54
		321	0	08	17
		322	0	00	31
		308	0	23	82

1	2	3	4	5	6
		313	0	09	45
		309	0	13	57
		285	0	01	30
		299	0	03	54
		298	0	15	37
		293	0	04	24
		292	0	04	80

[फा. सं. आर-25011/19/2004-ओ.आर-1]

रेणुका कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 18th October, 2004

S. O. 2675.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1528 dated the 25th June, 2004 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in Tehsil: Soro & Balasore, District: Balasore, in Orissa State, specified in the schedule appended to the notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Crude Oil from Paradip in the State of Orissa to Haldia in the State of West Bengal by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the Paradip Haldia Crude Oil Pipeline Project.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 29.07.2004;

And whereas, the Competent Authority, has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this Notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of publication of this declaration, in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Schedule

District : Balasore

State : Orissa

Name of Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Soro	Gud	618	0	02	40
		6194	0	05	80
		619	0	00	10
		6193	0	04	52
		622	0	12	95
		624	0	00	52
		6191	0	00	57
		623	0	01	45
		678	0	01	72
		676	0	00	38
		683	0	04	20
		682	0	05	10
		681	0	01	12
		677	0	01	60
		504	0	05	04
		199	0	01	19
		498	0	00	34
		200	0	13	69
		201	0	01	33
		203	0	00	20
		202	0	04	00
		204	0	00	10
		205	0	08	86
		207	0	06	37
		233	0	07	73
		234	0	05	15
		264	0	12	48
		265	0	01	69
		267	0	03	40
		266	0	04	01
		85	0	03	17

1	2	3	4	5	6
		94	0	06	45
		95	0	00	77
		100	0	02	45
		101	0	02	72
		103	0	01	53
		105	0	02	49
		115	0	05	92
		116	0	11	62
		113	0	00	10
		112	0	00	37
		117	0	03	74
		118	0	01	48
		122	0	01	12
		123	0	01	58
		124	0	01	82
		125	0	02	13
		121	0	01	35
		127	0	06	99
		128	0	05	93
		131	0	07	63
		132	0	00	10
		141	0	01	66
		142	0	04	33
		140	0	02	30
		892	0	03	33
		893	0	00	10
		891	0	01	32
		894	0	00	37
		895	0	01	22
		896	0	01	65
		890	0	05	07
		889	0	01	95
		1471	0	07	14
		1473	0	00	18
		1464	0	00	77
		1472	0	05	55
		1484	0	02	79
		1503	0	04	01
		1463	0	04	43
		1504	0	09	44

1	2	3	4	5	6
		1537	0	00	10
		1538	0	04	97
		1536	0	02	26
		1553	0	07	24
		1554	0	05	99
		1531	0	01	70
		1555	0	02	32
		1556	0	05	92
		1592	0	00	10
		1583	0	00	58
		1581	0	11	49
		1582	0	00	10
		1585	0	00	79
		1584	0	00	10
		1587	0	01	63
		1586	0	00	10
		1654	0	01	60
		1655	0	03	71
		1653	0	01	38
		1656	0	01	78
		1657	0	03	52
		1658	0	00	67
		1648	0	01	96
		1661	0	04	85
		1662	0	05	23
		1644	0	02	30
		1643	0	01	32
		1660	0	00	10
		1684	0	00	32
		1642	0	01	74
		1641	0	01	24
		1687	0	07	59
		1688		01	71
		1686	0	00	39
		1689	0	04	53
		1690	0	01	22
		1196	0	03	08
		1695	0	01	21
		1696	0	00	10
		1694	0	01	92

1	2	3	4	5	6
		1697	0	09	73
		1180	0	00	17
		1177	0	02	81
		2526	0	07	78
		2527	0	04	20
		2528	0	02	74
		2529	0	00	10
		2533	0	08	15
		2535	0	01	05
		2532	0	06	31
		2531	0	04	86
		2581	0	00	27
		2537	0	04	02
		2580	0	07	06
		2579	0	00	10
		2582	0	02	99
		2612	0	02	99
		2611	0	00	48
		2613	0	04	07
		2614	0	00	10
		2615	0	10	73
		2623	0	00	67
		2624	0	00	81
		2621	0	00	88
		2628	0	01	10
		2622	0	03	53
		2625	0	00	10
		2627	0	00	59
		2630	0	05	24
	Patimunda	142	0	02	57
		71	0	01	97
		72	0	02	86
		74	0	02	21
		238	0	01	40
		46	0	02	83
		47	0	05	60
		48	0	11	04
		6	0	03	86
		5	0	01	29
		4	0	02	69

1	2	3	4	5	6
	Dinapahii	219	0	05	49
		220	0	16	06
		216	0	03	10
		223	0	17	28
		207	0	00	61
		206	0	05	09
		205	0	04	72
		224	0	01	08
		204	0	04	09
		200	0	06	39
		198	0	00	28
		201	0	00	10
		199	0	11	24
		154	0	19	52
		153	0	05	18
		152	0	00	29
		1	0	03	25
	Baliktiran	770	0	02	92
		792	0	01	03
		584	0	01	69
		581	0	03	45
		586	0	02	65
		585	0	03	07
		590	0	11	58
		591	0	00	10
		589	0	00	42
		595	0	06	43
		594	0	01	55
		596	0	05	85
		598	0	02	06
		600	0	02	17
		774	0	01	53
		607	0	11	72
		606	0	06	02
		470	0	00	47
		454	0	09	71
		456	0	03	76
		455	0	00	94
		457	0	06	81
		451	0	00	10

1	2	3	4	5	6
		450	0	00	31
		449	0	01	27
		447	0	06	81
		460	0	01	43
		438	0	03	38
		436	0	09	44
		434	0	00	87
		435	0	00	91
		433	0	01	63
		348	0	06	46
		345	0	01	86
		346	0	09	00
		349	0	03	16
	Chhatubati	141	0	03	15
		169	0	01	20
		294	0	03	38
		290	0	04	58
		295	0	01	36
		289	0	16	32
		296	0	00	24
		288	0	16	32
		285	0	08	81
		286	0	07	72
		283	0	03	79
		281	0	00	94
		282	0	05	61
		284	0	06	33
		277	0	02	11
		276	0	05	80
		278	0	02	09
		272	0	07	76
		271	0	00	49
		270	0	00	26
		267	0	00	30
		268	0	09	95
		269	0	00	37
		262	0	02	50
		261	0	02	06
		260	0	04	33

1	2	3	4	5	6
		259	0	05	07
		257	0	01	99
		258	0	02	61
	Poradiha	1236	0	03	75
		1237	0	01	58
		1238	0	00	46
		1239	0	06	70
		1240	0	00	10
		1244	0	03	54
		1223	0	04	50
		1222	0	01	75
		1208	0	02	71
		1217	0	02	52
		1216	0	02	15
		1215	0	01	01
		1214	0	02	56
		909	0	03	54
	Brahampur	1262	0	00	97
		619	0	07	31
		620	0	00	46
		618	0	03	670
		614	0	04	02
		615	0	00	30
		612	0	01	38
		611	0	04	61
		610	0	01	38
		529	0	17	04
		609	0	01	08
		535	0	01	79
		534	0	01	23
		530	0	00	70
		531	0	00	86
		528	0	02	95
		525	0	10	14
		524	0	00	10
		469	0	15	03
		468	0	13	74
		464	0	01	75
		463	0	01	96

1	2	3	4	5	6
		414	0	03	71
		465	0	0	43
		413	0	02	30
		411	0	08	91
		412	0	03	75
		406	0	14	40
		403	0	04	05
		402	0	00	36
		401	0	05	56
		400	0	00	10
		395	0	01	66
		396	0	03	45
		319	0	10	61
		358	0	04	85
		357	0	00	79
		327	0	03	86
		1245	0	01	77
		328	0	06	11
		330	0	04	07
		332	0	01	23
		333	0	02	87
		334	0	04	80
		337	0	01	78
		336	0	03	46
		206	0	01	59
		200	0	03	31
		198	0	00	99
		197	0	02	50
		180	0	01	37
		179	0	01	99
		49	0	00	19
		50	0	02	14
		178	0	00	80
		177	0	01	02
		176	0	04	68
		175	0	00	28
		168	0	00	11
		169	0	06	67
		158	0	01	03

1	2	3	4	5	6
		170	0	01	56
		157	0	04	00
		151	0	01	24
		156	0	00	47
		152	0	04	68
		154	0	03	17
		153	0	03	80
		155	0	00	15
		142	0	00	10
		143	0	02	25
		144	0	01	22
		145	0	02	02
		146	0	00	89
		127	0	00	55
		107	0	01	13
		108	0	06	11
		106	0	01	88
		109	0	01	62
		110	0	03	36
		1221	0	01	13
		96	0	11	06
		99	0	04	55
		931	0	01	30
		992	0	03	98
		993	0	03	57
		994	0	02	25
		995	0	02	18
		996	0	04	59
		997	0	05	07
		1002	0	09	52
		1220	0	01	43
	Anjee	1333	0	01	63
		1335	0	03	53
		1339	0	00	14
		1336	0	01	21
		1338	0	13	25
		1341	0	11	22
		1342	0	04	31

1	2	3	4	5	6
		1346	0	03	90
		1352	0	01	97
		1347	0	05	98
		1351	0	05	04
		1353	0	00	10
		1350	0	05	28
		2954	0	00	47
		1349	0	00	10
		2793	0	02	30
		2791	0	01	29
		2794	0	11	63
		2927	0	00	53
		2928	0	02	12
		2804	0	04	15
		2807	0	00	77
		2806	0	00	67
		2805	0	02	86
		2789	0	00	10
		2819	0	01	73
		2821	0	02	02
		2820	0	02	29
		2825	0	04	81
		2779	0	00	81
		2776	0	03	16
		2726	0	00	76
		2772	0	00	75
		2771	0	05	04
		2770	0	01	94
		2769	0	05	66
		2768	0	08	17
		2840	0	02	27
		2762	0	01	47
		2767	0	00	10
		2761	0	07	89
		2760	0	03	30
		2634	0	29	39
		2635	0	00	10
		2484	0	00	10

1	2	3	4	5	6
		2483	0	02	63
		2636	0	00	10
		2482	0	02	90
		2638	0	01	91
		2480	0	05	42
		2950	0	02	38
		2479	0	02	68
		2478	0	00	83
		2463	0	07	34
		2464	0	14	60
		2414	0	08	48
		2405	0	05	16
		2404	0	01	43
		2403	0	01	53
		2406	0	00	73
		2383	0	03	73
		2384	0	02	94
		2382	0	03	14
		2381	0	10	33
		2368	0	09	74
		2367	0	00	83
		2339	0	03	04
		2355	0	12	61
		2356	0	01	76
		2352	0	01	89
		2353	0	02	61
		2354	0	00	34
		2356	0	06	75
		2355	0	12	61
		2241	0	03	00
		2240	0	04	49
		2245	0	00	10
		2238	0	10	36
		2239	0	03	40
		2237	0	03	33
		2236	0	01	33
	Sahasपुरा	2927	0	03	34
		2928	0	00	10
		2926	0	01	22

1	2	3	4	5	6
		2925	0	01	00
		2924	0	04	27
		2929	0	00	44
	Ranbhanjpur	7	0	01	74
		8	0	02	88
		6	0	08	21
		9	0	01	73
		5	0	03	95
		15	0	00	41
		4	0	03	70
		407	0	00	17
	Kanheiogalpur	677	0	01	60
		713	0	01	12
		714	0	07	36
		712	0	06	42
		711	0	00	10
		708	0	08	28
		685	0	02	19
		707	0	02	01
		705	0	01	29
		706	0	02	18
		686	0	02	27
		692	0	01	25
		690	0	00	76
		691	0	00	21
		693	0	05	44
		673	0	01	31
		696	0	00	77
		695	0	02	67
		694	0	00	28
		744	0	02	33
		743	0	06	03
		745	0	03	12
		1091	0	00	72
		742	0	02	93
		747	0	01	15
		758	0	04	61
		757	0	01	68
		759	0	04	38

1	2	3	4	5	6
		765	0	01	13
		763	0	02	02
		761	0	02	23
		762	0	05	76
		791	0	00	91
		792	0	01	09
		793	0	04	17
		787	0	02	15
		1070	0	00	48
		779	0	13	60
		781	0	08	41
		1104	0	02	17
		794	0	00	42
		1105	0	02	77
		1027	0	01	01
		1026	0	00	54
		1025	0	00	80
		855	0	00	62
		856	0	00	85
		860	0	03	88
		861	0	01	41
		858	0	00	10
		863	0	05	91
		887	0	00	97
		890	0	00	73
		889	0	05	10
		888	0	05	82
		917	0	00	14
		898	0	00	20
		915	0	02	73
		916	0	05	06
		920	0	04	30
		913	0	01	89
		912	0	05	41
		908	0	04	42
		910	0	01	05
		909	0	03	10
		907	0	00	10
		940	0	02	83

1	2	3	4	5	6
		941	0	08	03
		942	0	07	23
		943	0	01	17
	Rahaniaganj	923	0	00	10
		924	0	06	22
		933	0	00	10
		932	0	15	59
		961	0	10	42
		955	0	10	25
		954	0	09	29
		952	0	00	10
		951	0	11	56
		979	0	03	20
		981	0	05	52
		980	0	00	72
		982	0	01	07
		983	0	06	93
		989	0	05	39
		990	0	02	47
		991	0	00	45
		988	0	05	03
		992	0	03	51
		993	0	08	41
		860	0	24	32
		859	0	02	15
		857	0	00	10
		833	0	06	93
		834	0	04	62
		831	0	02	11
		835	0	04	18
		836	0	02	96
		830	0	05	01
		829	0	08	02
		827	0	00	80
		488	0	07	25
	Karanjabindha	1856	0	01	81
		1855	0	06	22
		1945	0	01	11
		1854	0	05	34

1	2	3	4	5	6
		1853	0	06	26
		1844	0	00	10
		1847	0	07	33
		1848	0	00	78
		1759	0	10	43
		1796	0	00	10
		1797	0	01	24
		1795	0	02	94
		1760	0	04	69
		1761	0	04	23
		1747	0	03	86
		1748	0	00	39
		1746	0	11	08
		1742	0	08	66
		1743	0	00	10
		1744	0	00	10
		1689	0	12	53
		1692	0	11	14
		1691	0	04	09
		1705	0	01	44
		1695	0	00	34
		1703	0	02	04
		1704	0	01	75
		1698	0	00	45
		1697	0	01	50
		1072	0	02	88
		1206	0	00	50
		1073	0	04	91
		1205	0	01	41
		1074	0	01	56
		1204	0	07	47
		1203	0	02	16
		1202	0	00	95
		1201	0	06	78
		1169	0	05	76
		1170	0	05	57
		1171	0	06	21
		1172	0	06	01

1	2	3	4	5	6
		1173	0	00	10
		1197	0	04	35
		1176	0	07	32
		1174	0	00	87
		1175	0	00	20
		978	0	09	38
		977	0	03	96
		976	0	05	08
		975	0	02	46
		974	0	04	02
		705	0	00	78
		706	0	03	69
		707	0	12	24
		708	0	03	30
		710	0	04	56
		711	0	04	21
		712	0	04	29
		900	0	03	57
		899	0	03	29
		734	0	02	33
		733	0	02	70
		735	0	02	03
		731	0	00	27
		732	0	00	36
		740	0	02	46
		730	0	00	10
		741	0	01	66
		746	0	02	36
		742	0	02	01
		745	0	04	28
		750	0	07	45
		751	0	01	11
		744	0	00	10
		756	0	00	43
		755	0	04	93
		758	0	05	15
		759	0	04	02
		281	0	00	10
		282	0	06	18

1	2	3	4	5	6
		283	0	05	27
		285	0	05	20
		286	0	04	76
		295	0	00	57
		296	0	00	22
		294	0	01	19
		297	0	03	44
		298	0	00	10
		251	0	01	64
		253	0	00	32
		2015	0	01	11
		2003	0	00	53
		247	0	01	08
		246	0	03	99
		245	0	00	78
		235	0	05	80
		234	0	05	59
		215	0	00	10
		212	0	00	98
		214	0	07	00
		211	0	04	54
		210	0	00	89
		209	0	05	80
		190	0	00	83
		158	0	01	71
		104	0	02	82
		105	0	02	69
		106	0	08	35
		89	0	01	83
		107	0	28	40
		108	0	04	15
		1994	0	02	84
		113	0	14	41
		12	0	02	95
	Dolpur	832	0	10	82
		831	0	03	95
		833	0	00	00
		830	0	01	53
		834	0	04	04

1	2	3	4	5	6
		835	0	02	32
		829	0	08	46
		828	0	02	33
		827	0	02	98
		824	0	09	90
		825	0	02	57
		826	0	02	04
		797	0	02	05
		798	0	02	59
		794	0	02	86
		799	0	01	46
		793	0	05	82
		792	0	02	12
	Fatehpur	904	0	02	12
		908	0	00	49
		909	0	04	68
		928	0	00	43
		929	0	00	20
		910	0	02	91
		911	0	02	90
		912	0	02	07
		927	0	06	73
		919	0	00	11
		921	0	06	47
		851	0	07	91
		852	0	00	10
		848	0	02	98
		849	0	02	07
		847	0	02	83
		846	0	01	89
		991	0	02	46
		844	0	05	69
		842	0	06	13
		841	0	03	37
		840	0	02	39
		832	0	01	87
		830	0	07	12
		829	0	00	94
		827	0	05	67

1	2	3	4	5	6
		824	0	00	10
	Kalyani	1314	0	01	36
		1311	0	08	96
		4023	0	01	35
		1310	0	07	87
		1308	0	00	10
		1303	0	05	65
		1309	0	03	55
		1301	0	13	05
		1302	0	00	39
		1284	0	09	66
		1287	0	00	10
		1286	0	06	38
		1279	0	02	12
		1273	0	04	15
		1271	0	02	56
		1272	0	04	87
		1269	0	01	26
		602	0	01	33
		605	0	06	92
		607	0	00	79
		609	0	00	53
		606	0	07	19
		610	0	08	21
		595	0	07	60
		584	0	03	92
		585	0	04	00
		586	0	03	32
		414	0	11	24
		417	0	11	09
		416	0	01	49
		415	0	00	27
		419	0	05	41
		421	0	00	10
		400	0	02	15
		399	0	02	28
		393	0	02	31
		392	0	01	69
		396	0	03	10

1	2	3	4	5	6
		391	0	01	35
		384	0	00	10
		385	0	04	08
		386	0	05	19
		372	0	05	61
		373	0	03	43
		374	0	03	19
		375	0	03	48
		198	0	01	96
		199	0	02	72
		197	0	03	28
		196	0	04	16
		195	0	04	12
		210	0	05	85
		161	0	05	84
		211	0	00	86
		160	0	06	36
		159	0	04	77
		158	0	01	31
		156	0	10	58
		155	0	02	32
		83	0	00	90
		82	0	01	54
		81	0	00	73
		34	0	02	84
		35	0	05	66
		31	0	04	79
		29	0	11	36
	Nuapur	1178	0	11	12
		1179	0	02	47
		1180	0	00	14
		1181	0	00	10
		1185	0	04	26
		1186	0	05	76
		1187	0	02	34
		1188	0	00	41
		1172	0	02	11
		1168	0	00	10
		1189	0	01	48

1	2	3	4	5	6
		1166	0	05	61
		1165	0	00	52
		1167	0	00	94
		1164	0	03	08
		1120	0	00	10
		1121	0	01	28
		1122	0	01	31
		1123	0	05	57
		1125	0	09	92
		1124	0	02	76
		1126	0	00	10
		4051	0	07	25
		1131	0	04	10
		1134	0	02	34
		1132	0	04	75
		1111	0	03	00
		1108	0	03	09
		1107	0	04	42
		1106	0	02	97
		292	0	04	66
		297	0	11	07
		299	0	07	33
		4057	0	03	01
		300	0	07	45
		235	0	04	07
		236	0	05	10
		252	0	07	30
		253	0	06	62
		251	0	07	95
		248	0	00	46
		250	0	03	76
		249	0	00	10
		34	0	09	94
		33	0	03	96
		35	0	02	68
		4095	0	03	49
		36	0	03	73
		38	0	03	04
		21	0	01	52

1	2	3	4	5	6
		20	0	01	20
		4078	0	03	66
		19	0	01	81
		39	0	02	15
		43	0	02	21
		18	0	07	37
		17	0	11	85
		16	0	00	80
		11	0	01	88
		13	0	01	83
		12	0	01	67
		7	0	04	10
		6	0	04	47
	Salagan	1300	0	00	64
		1299	0	00	10
		1298	0	03	43
		1297	0	04	50
		1295	0	04	23
		1290	0	02	50
		1296	0	00	14
		1291	0	05	20
		1294	0	00	51
		1293	0	02	63
		1224	0	00	92
		1225	0	08	96
		1226	0	00	10
		1222	0	01	32
		1223	0	03	82
		1221	0	05	38
		1203	0	37	01
		1206	0	00	24
		1205	0	00	10
		1201	0	11	90
		1202	0	02	98
		1160	0	12	63
		484	0	02	82
		485	0	01	97
		474	0	02	59
		473	0	10	34

1	2	3	4	5	6
		472	0	01	62
		471	0	00	67
		470	0	00	10
		465	0	01	55
		464	0	06	34
		431	0	00	10
		432	0	00	10
		463	0	04	80
		462	0	01	76
		437	0	11	88
		438	0	03	61
		439	0	05	14
		440	0	04	71
		399	0	08	55
		398	0	00	10
		400	0	04	26
		401	0	05	93
		232	0	11	19
		233	0	00	10
		234	0	04	01
		226	0	12	92
		235	0	00	10
		225	0	01	84
		221	0	03	30
		224	0	01	16
		222	0	03	44
		219	0	04	30
		218	0	01	72
		216	0	04	28
		185	0	07	53
		1425	0	01	96
		1426	0	03	94
		183	0	05	10
		142	0	12	01
		140	0	06	23
		136	0	15	22
		137	0	03	20
		7	0	00	80
		6	0	02	23

1	2	3	4	5	6
		5	0	00	74
		1	0	01	77
	Odshal	746	0	00	49
		742	0	02	27
		743	0	05	21
		745	0	00	10
		744	0	00	87
		739	0	01	76
		740	0	05	02
		741	0	03	53
		729	0	03	96
		730	0	01	20
		728	0	01	10
		542	0	00	10
		537	0	00	38
		536	0	02	88
		535	0	01	79
		525	0	01	64
	Narayanabara	453	0	04	76
		1382	0	04	18
		1381	0	01	40
		1367	0	08	10
		1379	0	02	16
		1378	0	2	32
		1368	0	00	61
		1369	0	00	10
		1377	0	04	21
		1387	0	19	14
		1389	0	00	25
		1375	0	01	81
		1390	0	01	65
		1392	0	03	74
Balasore	Srijang	1970	0	13	78
		1971	0	00	20
		1969	0	01	94
		1968	0	00	66
		1967	0	01	57
		1966	0	03	15
		1965	0	00	20

1	2	3	4	5	6
		1943	0	25	70
		1942	0	03	95
		1941	0	02	28
		1940	0	08	63
		1911	0	03	84
		1912	0	05	93
		4910	0	02	99
		5358	0	00	72
		4909	0	03	24
		4911	0	00	87
		1910	0	00	20
		1908	0	07	94
		1907	0	00	10
		1903	0	02	01
		1902	0	01	52
		1901	0	06	86
		1897	0	04	99
		1898	0	03	85
		1885	0	01	20
		1853	0	03	74
		1852	0	13	37
		1854	0	01	36
		1849	0	08	24
		1848	0	07	90
		1798	0	17	43
		1797	0	01	08
		1796	0	07	71
		1795	0	08	66
		1794	0	08	94
		1793	0	06	18
		4944	0	04	37
		1792	0	01	48
		1791	0	00	15
		1726	0	03	99
	Chak Srirampur	17	0	07	84
		16	0	09	78
		11	0	07	51
		13	0	07	89
		14	0	03	10

1	2	3	4	5	6
		80	0	04	52
		63	0	07	21
		4	0	07	92
		3	0	02	95
		27	0	00	10
		61	0	01	51
	Boita	2706	0	03	48
		2566	0	02	64
		2567	0	02	63
		2572	0	02	65
		2571	0	02	45
		2570	0	02	54
		2574	0	06	35
		2531	0	01	95
		2530	0	01	73
		2524	0	01	12
		2525	0	03	08
		2527	0	04	36
		2528	0	04	22
		2511	0	00	25
		2510	0	00	10
		2512	0	03	53
		2513	0	05	82
		2495	0	00	10
		2494	0	04	82
		2740	0	01	53
		2493	0	06	74
		2492	0	05	63
		2497	0	00	35
		2480	0	10	04
		2489	0	01	20
		2488	0	05	28
		2481	0	08	66
		2487	0	09	15
		2019	0	02	62
		2014	0	46	88
		1989	0	06	46
		1992	0	02	36
		1991	0	00	65

1	2	3	4	5	6
		1993	0	00	66
		1994	0	07	29
		1998	0	01	40
		1997	0	03	01
		1999	0	05	00
		2000	0	00	26
		1996	0	02	06
		2003	0	08	95
		2002	0	00	10
		2004	0	02	58
		120	0	00	10
	Rahaniyagadia	120	0	00	10
		121	0	02	26
		122	0	00	43
		119	0	05	03
		114	0	04	03
		123	0	04	49
		174	0	00	20
		173	0	01	10
		172	0	04	95
		180	0	01	36
		182	0	00	10
		183	0	00	82
		184	0	01	46
		214	0	04	93
		170	0	03	70
		163	0	04	47
		162	0	00	10
		160	0	01	23
		159	0	02	31
		158	0	00	68
		157	0	03	82
		155	0	04	03
		136	0	03	31
		137	0	00	61
		138	0	04	34
		97	0	01	28
		96	0	07	61
		31	0	00	10

1	2	3	4	5	6
		95	0	04	14
		89	0	00	10
		93	0	00	88
		94	0	01	59
		91	0	00	46
		90	0	02	71
		92	0	01	23
		209	0	01	52
		34	0	03	92
		35	0	03	74
		60	0	08	53
		59	0	02	03
		37	0	01	63
		44	0	03	78
		46	0	06	27
		47	0	00	10
	Gambharia	1359	0	15	75
		1360	0	09	88
		1361	0	02	17
		1358	0	00	10
		1364	0	05	96
		1354	0	02	09
		1368	0	04	90
		1369	0	03	11
		2637	0	04	39
		1421	0	00	23
		1422	0	03	54
		1425	0	02	15
		1426	0	02	43
		1424	0	01	36
		1428	0	01	82
		1429	0	02	31
		1430	0	02	17
		1431	0	01	67
		1432	0	01	60
		1524	0	00	53
		1523	0	02	36
		1513	0	05	85
		2620	0	00	20

1	2	3	4	5	6
		1512	0	01	58
		1511	0	02	37
		1510	0	05	33
		1509	0	02	30
		1508	0	02	95
		1502	0	00	28
		2549	0	01	11
		1503	0	04	41
		1500	0	00	81
		1504	0	00	20
		2585	0	05	12
		1499	0	01	32
		1498	0	03	59
		1497	0	04	50
		1494	0	01	21
		1496	0	04	04
		1495	0	00	10
		1604	0	04	08
		1616	0	03	17
		1701	0	00	10
		1617	0	04	54
		1618	0	01	78
		1698	0	04	33
		1619	0	01	85
		1620	0	02	43
		1622	0	01	85
		1623	0	03	85
		1624	0	03	20
		1628	0	01	96
		1666	0	04	63
		1664	0	00	17
		1665	0	02	77
		1663	0	02	21
		1668	0	00	31
		1662	0	05	06
		1657	0	02	73
		1651	0	05	89
		1650	0	07	18
		1649	0	05	74

1	2	3	4	5	6
		1647	0	04	48
		1646	0	01	27
		2501	0	00	41
		2502	0	04	27
		1645	0	00	10
		2503	0	05	00
		2506	0	01	48
		2504	0	00	11
		2505	0	01	66
	Tundra	774	0	00	74
		776	0	03	37
		777	0	01	54
		779	0	01	61
		781	0	01	44
		5653	0	02	69
		783	0	01	94
		784	0	01	87
		786	0	04	11
		819	0	05	73
		4967	0	01	45
		818	0	06	64
		816	0	11	37
		815	0	09	35
		814	0	01	18
		813	0	04	40
		812	0	02	69
		810	0	00	43
		809	0	01	71
		847	0	09	78
		852	0	03	44
		851	0	01	16
		850	0	02	39
		871	0	01	52
		872	0	00	16
		870	0	16	02
		4045	0	03	52
		4812	0	00	58
		4813	0	00	90
		865	0	03	33

1	2	3	4	5	6
	Kuanrpur	220	0	02	23
		221	0	00	43
		216	0	16	41
		211	0	00	11
		210	0	06	11
		209	0	00	10
		208	0	02	82
		184	0	03	93
		185	0	02	63
		207	0	00	10
		206	0	01	36
		205	0	04	03
		204	0	07	18
		202	0	00	10
		203	0	00	44
		192	0	06	52
		196	0	06	26
		302	0	00	94
		303	0	00	74
		304	0	00	90
		544	0	01	60
		536	0	04	88
		537	0	04	18
		532	0	02	12
		531	0	02	71
		524	0	00	90
		523	0	00	10
		525	0	10	94
		519	0	04	22
		518	0	00	38
		514	0	04	97
		513	0	02	23
		1544	0	00	97
		512	0	02	14
		511	0	00	18
		562	0	00	15
		565	0	10	42
		569	0	07	67
		567	0	01	77

1	2	3	4	5	6
		568	0	07	94
		695	0	03	39
		570	0	00	10
		571	0	00	93
		694	0	01	02
		688	0	05	36
		692	0	03	26
		691	0	06	59
		1567	0	03	90
		1479	0	00	35
		689	0	11	60
		684	0	01	53
		685	0	06	05
		670	0	08	76
		671	0	01	72
		668	0	07	36
		667	0	03	90
		793	0	03	31
		666	0	01	52
	Bhimmpur	162	0	08	96
		161	0	04	94
		157	0	04	65
		156	0	04	18
		155	0	00	10
		149	0	05	54
		150	0	02	31
		145	0	07	49
		143	0	03	15
		136	0	04	58
		137	0	03	18
		130	0	05	60
		4385	0	04	90
		104	0	00	15
		105	0	00	12
		107	0	00	10
		121	0	13	36
		111	0	03	30
		110	0	03	07
		109	0	02	69

1	2	3	4	5	6
		89	0	02	65
		87	0	03	88
		80	0	05	72
		78	0	00	10
		79	0	02	94
		77	0	00	31
		4698	0	03	94
		62	0	00	10
		61	0	04	51
		60	0	01	10
		59	0	01	04
		51	0	01	18
		54	0	00	16
		56	0	05	24
		4764	0	01	64
		58	0	00	56
		4763	0	01	26
		57	0	03	20
		35	0	01	03
		33	0	04	04
		34	0	02	72
		22	0	00	40
		25	0	07	09
		29	0	07	26
		28	0	01	73
		268	0	09	08
		275	0	08	13
		4579	0	01	32
		276	0	04	50
		1	0	01	45
		26	0	01	24
		27	0	03	56
	Chandipur	525	0	03	26
		421	0	02	35
		585	0	00	85
		422	0	03	90
		419	0	00	34
		420	0	06	26
		423	0	00	34

1	2	3	4	5	6
		413	0	02	36
		414	0	03	62
		415	0	01	16
		411	0	00	43
		410	0	04	14
		356	0	05	59
		354	0	04	56
		357	0	03	95
		353	0	00	10
		508	0	00	50
		352	0	04	69
		350	0	01	95
		351	0	03	45
		348	0	05	27
		582	0	00	10
	Chheliapada	491	0	00	55
		492	0	05	32
		494	0	05	74
		519	0	00	33
		495	0	04	29
		446	0	03	33
		447	0	03	21
		450	0	04	08
		521	0	00	22
		522	0	03	54
		523	0	00	51
		451	0	06	18
		452	0	01	74
		445	0	04	36
		408	0	04	00
		407	0	04	77
		414	0	07	75
		415	0	03	18
		416	0	00	20
		404	0	06	41
		344	0	04	41
		341	0	05	09
		343	0	00	10
		342	0	03	01

1	2	3	4	5	6
		340	0	01	55
		337	0	09	05
		338	0	02	05
		310	0	01	74
		313	0	03	80
		312	0	00	17
		336	0	00	10
		314	0	03	85
		321	0	00	22
		315	0	04	99
		545	0	00	50
		316	0	01	12
	Sahajanagar	48	0	01	80
		1684	0	01	36
		1685	0	01	07
		47	0	04	76
		45	0	05	23
		46	0	00	10
		44	0	03	14
		43	0	03	63
		41	0	04	26
		38	0	03	40
		36	0	01	29
		39	0	01	27
		1495	0	74	39
		35	0	01	66
		32	0	01	46
		33	0	02	35
		22	0	05	04
		25	0	00	36
		23	0	00	34
		24	0	03	22
		16	0	04	53
		15	0	00	10
		14	0	04	04
		13	0	01	87
		1440	0	01	81
		1439	0	01	63
		1438	0	00	82

1	2	3	4	5	6
		10	0	00	10
		7	0	09	33
		5	0	03	21
		1	0	01	42
	Jaydevkasba	2282	0	01	06
		2286	0	08	89
		2287	0	06	86
		2285	0	19	93
		2318	0	07	66
		5045	0	00	10
		2320	0	00	10
		2316	0	00	10
		2315	0	04	47
		2314	0	04	66
		5576	0	03	40
		2313	0	00	40
		2337	0	01	61
		2336	0	01	86
		2339	0	01	17
		5376	0	01	99
		2340	0	07	56
		2341	0	00	10
		5034	0	05	82
		3057	0	00	37
		3056	0	00	81
		5345	0	04	97
		3052	0	00	71
		3051	0	02	56
		2342	0	02	53
		3046	0	05	15
		3045	0	05	55
		3041	0	02	23
		3021	0	02	34
		3022	0	01	96
		3023	0	00	47
		3017	0	01	98
		3016	0	03	62
		3013	0	08	71
		3004	0	05	36

1	2	3	4	5	6
		3003	0	12	65
		2998	0	03	60
		2997	0	02	88
		2963	0	03	76
		2962	0	00	59
		2980	0	01	85
		2965	0	03	96
		2981	0	00	40
		2967	0	04	25
		2969	0	02	95
		2968	0	00	10
		5587	0	02	88
		2976	0	04	27
		2971	0	04	16
		2904	0	01	98
		2905	0	01	98
		2901	0	03	63
		2899	0	03	44
		2840	0	00	68
		2829	0	04	60
		2839	0	01	32
		2830	0	00	60
		2831	0	00	87
		2838	0	01	49
		5547	0	02	76
		2837	0	01	74
		5365	0	03	14
		2804	0	03	18
		2803	0	05	83
		2802	0	00	10
		2801	0	00	83
		2798	0	06	13
		5294	0	00	10
		2797	0	06	26
		2796	0	01	74
		5505	0	00	96
		2755	0	08	52
		2795	0	00	10
		2760	0	08	40

1	2	3	4	5	6
		2761	0	00	10
		532	0	04	04
		531	0	08	31
	Majhikia	92	0	01	70
		93	0	03	62
		88	0	05	80
		87	0	02	87
		86	0	02	47
		85	0	02	03
		84	0	02	53
		59	0	07	40
		96	0	00	10
		97	0	00	10
		58	0	00	30
		57	0	00	83
		56	0	05	03
		18	0	09	83
		19	0	07	99
		9	0	05	52
		24	0	05	07
		26	0	03	83
		1015	0	00	53
		1023	0	07	14
		27	0	03	44
		29	0	04	38
		993	0	00	53
		30	0	00	90
	Purastampur	60	0	06	40
		61	0	03	37
		63	0	05	68
		64	0	04	94
		65	0	06	45
	Barakia	112	0	06	11
		111	0	07	29
		105	0	01	27
		104	0	00	10
		110	0	08	50
		109	0	04	40
		106	0	02	10

1	2	3	4	5	6
		103	0	05	23
		1672	0	07	99
		78	0	04	88
		82	0	03	97
		1278	0	01	10
		81	0	04	53
		84	0	01	40
		1690	0	04	14
		1689	0	00	89
		67	0	01	86
		201	0	05	88
		1746	0	02	32
		1694	0	00	70
		1778	0	04	92
		203	0	00	49
		202	0	03	11
		205	0	04	61
		206	0	03	62
		207	0	02	62
		1867	0	00	10
		209	0	00	40
		208	0	08	54
		210	0	02	04
		1687	0	00	34
		32	0	02	77
		31	0	01	04
		30	0	09	22
		29	0	01	81
		22	0	20	73
		222	0	00	10
		28	0	00	20
		25	0	01	75
		26	0	01	72
		5	0	02	74
		314	0	00	10
		313	0	06	97
		312	0	08	73
		307	0	00	40
		309	0	06	18

1	2	3	4	5	6
		308	0	00	39
		342	0	01	59
		331	0	01	08
		341	0	05	01
		339	0	00	91
		340	0	02	42
		338	0	01	47
		337	0	00	23
		336	0	11	72
		344	0	00	28
		335	0	01	12
		1	0	03	29
	Padampur	462	0	03	78
		505	0	02	98
		511	0	02	06
		513	0	01	68
		512	0	01	58
		532	0	01	75
		533	0	01	24
		535	0	06	66
		534	0	00	75
		536	0	06	98
		537	0	00	13
		508	0	00	29
		582	0	04	80
		583	0	02	73
		580	0	01	67
		584	0	01	45
		615	0	05	89
		604	0	01	77
		605	0	01	69
		609	0	01	69
		606	0	01	21
		607	0	02	30
		608	0	02	88
		1822	0	05	19
		1874	0	06	37
		1878	0	04	46
		1877	0	00	33

1	2	3	4	5	6
		1872	0	01	46
		1879	0	03	37
		1880	0	00	87
		1870	0	05	95
		1881	0	07	81
		2019	0	00	57
		1907	0	06	40
		1908	0	00	68
		1906	0	06	33
		1916	0	07	43
		1917	0	00	10
		1915	0	00	10
		1914	0	06	26
		1913	0	08	63
		1925	0	01	07
		1963	0	00	98
		1962	0	01	57
		1961	0	08	92
		1964	0	00	10
		1960	0	09	93
		1954	0	01	31
		1953	0	08	99
		2092	0	01	14
		2086	0	01	74
		2087	0	00	20
		2091	0	16	35
		2096	0	00	22
		2095	0	00	10
		2482	0	05	50
		2481	0	03	39
		2479	0	04	01
		2478	0	00	45
		2477	0	02	20
		2476	0	03	02
		2474	0	01	84
		2475	0	00	34
		2466	0	07	43
		2473	0	01	08
		2468	0	00	53

1	2	3	4	5	6
		2457	0	12	20
		2453	0	09	75
		2452	0	00	68
		2451	0	05	11
		2448	0	05	31
		2438	0	02	71
		2437	0	01	77
		2449	0	00	10
		2436	0	01	29
		2405	0	02	31
		2399	0	02	01
		2404	0	09	91
		2403	0	00	10
	Talapada	549	0	01	16
		551	0	00	10
		550	0	02	84
		552	0	00	43
		553	0	02	40
		554	0	05	01
		627	0	07	32
		560	0	09	36
		561	0	00	82
		562	0	00	20
		569	0	00	69
		568	0	04	67
		571	0	05	24
		572	0	05	55
		574	0	05	32
		573	0	00	17
		580	0	02	40
		581	0	05	16
		519	0	05	50
		517	0	01	85
		516	0	00	10
		518	0	11	35
		510	0	00	29
		508	0	00	89
		509	0	07	74
		507	0	02	32

1	2	3	4	5	6
		493	0	00	30
		494	0	04	22
		496	0	08	72
		497	0	08	37
		185	0	00	13
		186	0	05	70
		464	0	05	18
		461	0	01	72
		462	0	00	25
		460	0	02	62
		434	0	06	16
		435	0	03	97
		436	0	03	23
		438	0	00	30
		437	0	06	28
		399	0	01	80
		371	0	00	47
		372	0	06	86
		370	0	08	60
		662	0	01	13
		375	0	00	95
		663	0	04	07
		365	0	00	31
		379	0	04	30
		625	0	08	71
		356	0	00	64
		357	0	00	10
		355	0	08	85
		358	0	01	54
		308	0	02	45
		647	0	00	81
		354	0	01	42
		353	0	05	80
		350	0	02	68
		352	0	00	10
		351	0	03	98
		317	0	04	80
		318	0	00	84
		320	0	01	64

1	2	3	4	5	6
		319	0	03	43
		322	0	03	30
	Gudu	1815	0	01	80
		1816	0	05	21
		3031	0	01	12
		5004	0	11	94
		3029	0	01	33
		3026	0	04	74
		3024	0	01	65
		3025	0	00	57
		3023	0	02	65
		3020	0	00	15
		3022	0	02	16
		3021	0	04	07
		2282	0	00	78
		2283	0	07	49
		2284	0	03	06
		5690	0	01	98
		5470	0	00	10
		2279	0	02	11
		2268	0	02	65
		2269	0	01	75
		2270	0	02	26
		2271	0	06	73
		2272	0	01	54
		2274	0	06	00
		2276	0	00	10
		2254	0	01	19
		5249	0	00	15
		2255	0	00	89
		2252	0	03	54
		5282	0	02	22
		5686	0	02	38
		2253	0	02	73
		2341	0	01	59
		2319	0	02	20
		2316	0	00	75
		2318	0	06	00
		2326	0	03	86

1	2	3	4	5	6
		2329	0	03	09
		2327	0	00	10
		2330	0	04	15
		2332	0	00	79
		2333	0	08	43
		2336	0	09	07
		5549	0	00	83
		2348	0	01	95
		2347	0	11	50
		2346	0	00	86
		2350	0	04	33
		2351	0	01	40
	Ranasahi	2621	0	14	60
		2582	0	00	86
		2616	0	08	08
		2617	0	01	48
		2615	0	00	17
		2614	0	04	96
		2636	0	00	17
		2613	0	01	27
		2611	0	00	57
		2612	0	05	36
		2608	0	04	96
		2607	0	12	32
		2441	0	14	74
		2439	0	02	22
		2437	0	01	43
		2436	0	01	33
		2435	0	03	45
		2329	0	00	10
		2330	0	12	84
		2434	0	00	46
		2331	0	05	01
		2338	0	08	82
		2332	0	01	90
		2334	0	02	79
		2333	0	02	16
		2398	0	10	43
		2383	0	11	28
		2384	0	00	10

1	2	3	4	5	6
		2386	0	00	10
		2371	0	00	77
		2387	0	08	77
		2249	0	14	47
		2246	0	02	08
		2245	0	06	14
		4144	0	07	55
		2244	0	00	49
		2249	0	14	48
		4434	0	00	10
		2248	0	00	10
		2253	0	08	91
		2250	0	00	49
		4408	0	00	10
		2251	0	00	10
		4261	0	03	25
		2255	0	00	38
		2256	0	02	13
		2257	0	02	24
		2258	0	01	76
		2259	0	01	02
		2266	0	04	03
		2262	0	00	81
		2263	0	02	97
		2264	0	00	94
		2069	0	01	50
		2070	0	07	41
		2229	0	06	30
		2226	0	00	10
		2227	0	18	66
		3925	0	09	67
		2228	0	05	53
		2220	0	00	10
		2219	0	06	85
		2218	0	08	94
		4192	0	01	88
		2215	0	00	10
		2216	0	06	54
		2897	0	02	22
		2998	0	04	18

1	2	3	4	5	6
		2901	0	06	48
		2900	0	00	65
		2902	0	05	75
		2903	0	01	42
		2904	0	11	83
		2908	0	00	25
		2907	0	00	10
		2905	0	05	69
		2906	0	04	40
		1322	0	01	14
		4189	0	02	52
	Hirigan	2110	0	04	96
		2111	0	04	16
		2112	0	07	18
		2109	0	15	43
		2113	0	03	06
		2114	0	01	40
		2115	0	00	83
		5606	0	00	10
		5633	0	01	45
		2177	0	00	59
		2021	0	13	67
		5524	0	06	16
		2020	0	05	63
		2019	0	01	27
		2018	0	01	96
		2017	0	00	10
		1978	0	14	15
		1977	0	05	98
		1974	0	02	48
		1973	0	02	16
		1966	0	05	27
		1963	0	03	01
		1960	0	03	96
		1957	0	03	18
		1698	0	03	40
		1699	0	03	58
		1956	0	00	10
		1700	0	00	80
		5555	0	02	03

1	2	3	4	5	6
		1954	0	05	04
		1703	0	03	44
		1710	0	02	75
		1711	0	03	71
		5569	0	08	90
		1713	0	00	97
		1714	0	02	66
		1715	0	03	18
		5525	0	00	39
		1716	0	03	49
		1919	0	26	21
		1906	0	05	99
		1907	0	06	34
		1901	0	03	12
		1900	0	03	12
		1895	0	04	63
		1894	0	02	87
		1887	0	05	05
		1882	0	00	91
		1883	0	01	84
		1860	0	03	21
		1867	0	00	10
		1866	0	03	48
		1862	0	03	92
		1850	0	04	18
		1851	0	04	73
		1852	0	00	10
		1842	0	02	22
		1841	0	05	16
		1843	0	03	85
		1844	0	04	29
		1828	0	06	47
		1827	0	03	76
		1826	0	03	25
		1817	0	02	74
		1816	0	06	38
		1815	0	12	07
		1792	0	03	10
		1794	0	02	24
		1795	0	01	19

1	2	3	4	5	6
		1718	0	02	61
		1799	0	03	63
		1809	0	01	06
		1812	0	17	70
		1811	0	01	26
		418	0	00	10
		421	0	14	45
		409	0	04	13
		408	0	01	09
		407	0	07	45
		408	0	00	96
		391	0	01	22
		390	0	00	87
		379	0	08	34
		373	0	01	05
		381	0	03	81
		380	0	07	78
		386	0	09	13
		382	0	01	11
		383	0	02	12
		190	0	02	57
		191	0	02	79
		175	0	16	43
		172	0	00	20
		176	0	00	32
		174	0	01	56
		173	0	08	43
		177	0	01	92
		178	0	04	43
		179	0	16	35
		180	0	10	37
		181	0	00	24
		157	0	00	67
		156	0	24	77
		158	0	06	97
		250	0	02	92
		273	0	01	42
		274	0	02	40
		275	0	00	16
		277	0	01	85

1	2	3	4	5	6
		271	0	00	16
		278	0	02	37
		279	0	01	39
		280	0	02	20
		284	0	00	45
		283	0	01	21
		285	0	03	79
		286	0	01	86
		182	0	04	43
	Patrapada	825	0	03	82
		824	0	05	04
		802	0	06	39
		800	0	04	78
		796	0	05	64
		795	0	01	35
		794	0	03	35
		791	0	06	30
		790	0	06	07
		786	0	05	38
		785	0	11	29
		781	0	07	60
		773	0	06	22
		779	0	04	84
		772	0	05	89
		760	0	07	31
		757	0	01	52
		758	0	06	54
		766	0	10	50
		754	0	07	85
		745	0	00	10
		746	0	04	59
		747	0	06	48
		1218	0	07	97
		741	0	10	89
		739	0	07	95
		737	0	12	03
		736	0	01	35
		730	0	02	16
		677	0	02	40

1	2	3	4	5	6
		676	0	02	00
	Puranabalasore	854	0	04	17
		857	0	04	07
		859	0	02	84
		858	0	00	10
		1165	0	09	68
		868	0	05	18
		870	0	01	58
		873	0	03	51
		880	0	03	79
		879	0	00	58
		881	0	07	02
		882	0	00	17
		878	0	04	13
		894	0	00	10
		893	0	04	10
		897	0	02	65
		898	0	01	63
		900	0	03	29
		904	0	02	03
		905	0	02	50
		915	0	05	76
		914	0	05	47
		916	0	00	38
		913	0	00	48
		912	0	07	67
		949	0	00	10
		948	0	06	09
		947	0	04	39
		964	0	01	08
		963	0	04	84
		962	0	04	51
		961	0	01	44
		1312	0	02	26
		361	0	00	10
		959	0	07	11
		362	0	06	78
		964	0	01	08
		363	0	01	92

1	2	3	4	5	6
		371	0	00	11
		370	0	00	68
		372	0	06	55
		373	0	06	69
		386	0	04	53
		381	0	06	78
		382	0	04	53
		61	0	00	08
		59	0	03	11
		60	0	07	36
		386	0	00	10
		58	0	05	91
		55	0	00	56
		56	0	01	29
		45	0	00	15
		42	0	06	92
		43	0	07	35
		40	0	02	25
		38	0	09	11
		37	0	00	90
		10	0	02	03
		9	0	10	83
		407	0	05	55
		8	0	03	89
		7	0	01	63
		6	0	05	30
		5	0	03	73
		4	0	04	11
		412	0	05	13
		1	0	02	92
		1627	0	03	21
		2577	0	03	84
		1626	0	04	24
		948	0	06	09
	Palbalasore	485	0	02	55
		484	0	00	10
		486	0	01	71
		481	0	24	08
		487	0	03	71

1	2	3	4	5	6
		461	0	38	60
		334	0	06	47
		333	0	06	23
		341	0	02	88
		342	0	00	10
		340	0	04	52
		339	0	06	40
		521	0	00	10
		346	0	00	10
		427	0	00	10
		352	0	01	18
		353	0	01	68
		355	0	02	11
		356	0	00	10
		387	0	00	10
		386	0	05	31
		385	0	00	77
		393	0	05	00
		384	0	04	76
		383	0	01	64
		394	0	03	12
	Pakhrabar	204	0	03	19
		211	0	00	65
		214	0	06	38
		215	0	01	32
		216	0	04	38
		217	0	00	10
		250	0	09	64
		252	0	01	83
		251	0	02	79
		247	0	00	10
		246	0	03	75
		245	0	00	10
		224	0	04	36
		223	0	01	22
		298	0	04	07
		297	0	00	58
		299	0	03	22
		300	0	03	67

1	2	3	4	5	6
		543	0	03	37
		542	0	00	48
		301	0	00	17
		528	0	09	45
		520	0	00	10
		529	0	02	37
		531	0	02	41
		532	0	08	39
		526	0	05	03
		525	0	00	10
		524	0	03	86
		757	0	00	93
		499	0	07	73
		498	0	05	56
		497	0	00	34
		500	0	00	40
		493	0	02	49
		492	0	09	40
		477	0	08	12
		481	0	00	97
		480	0	02	36
		478	0	02	97
		811	0	03	53
		454	0	00	10
		839	0	01	35
		456	0	01	39
		455	0	02	76
		451	0	03	01
		457	0	02	02
		458	0	04	26
		452	0	00	84
		450	0	01	05
		459	0	00	10
	Dhusuli	785	0	01	77
		782	0	04	14
		781	0	03	52
		780	0	00	10
		754	0	01	13
		775	0	04	50

1	2	3	4	5	6
		776	0	00	10
		764	0	03	96
		774	0	00	34
		765	0	01	17
		762	0	00	12
		766	0	05	59
		767	0	02	69
		768	0	00	10
		683	0	05	96
		682	0	03	83
		675	0	02	32
		681	0	00	25
		676	0	06	99
		670	0	05	81
		669	0	04	50
		665	0	01	30
		666	0	01	75
		663	0	02	50
		664	0	01	17
		449	0	00	85
		662	0	00	12
		815	0	01	21
		448	0	11	48
		450	0	01	82
		451	0	03	31
		447	0	03	09
		445	0	01	53
		440	0	00	90
		443	0	01	01
		442	0	00	40
		444	0	18	60
		383	0	01	10
		382	0	00	59
		380	0	12	24
		379	0	08	59
		378	0	08	53
		376	0	04	83
		375	0	04	00
		374	0	01	55

1	2	3	4	5	6
	Dumuria	100	0	01	68
		1109	0	00	99
		193	0	06	36
		113	0	00	27
		117	0	18	15
		116	0	02	79
		192	0	01	41
		118	0	03	64
		190	0	08	64
		206	0	00	26
		188	0	06	05
		187	0	07	77
		186	0	00	10
		214	0	04	52
		215	0	01	12
		213	0	03	92
		212	0	07	11
		211	0	00	10
		210	0	00	10
		218	0	07	16
		325	0	06	06
		309	0	06	90
		326	0	04	31
		327	0	11	09
		328	0	01	10
		1066	0	01	10
		329	0	05	14
		330	0	01	07
		1092	0	01	43
		332	0	01	63
		331	0	01	43
		334	0	00	63
		333	0	00	97
		300	0	04	78
		299	0	00	15
		252	0	10	09
		294	0	03	06
		290	0	08	49
		292	0	01	64

1	2	3	4	5	6
		291	0	04	40
		288	0	01	05
		286	0	01	38
		287	0	04	47
		281	0	00	32
		358	0	08	80
		357	0	04	29
		367	0	03	74
		368	0	00	46
		386	0	01	41
		363	0	08	56
		375	0	07	07
		377	0	00	45
		485	0	03	45
	Madhusudanpur	254	0	02	70
		282	0	05	88
		283	0	00	78
		618	0	00	75
		617	0	05	94
		616	0	02	34
		615	0	01	79
		609	0	00	17
		611	0	03	36
		610	0	09	50
		613	0	02	78
		630	0	08	80
		840	0	01	33
		643	0	02	65
		639	0	00	17
		644	0	09	29
		646	0	06	59
		847	0	05	33
		714	0	06	35
		653	0	04	21
		705	0	11	48
		655	0	03	77
		704	0	01	82
		700	0	04	69
		698	0	14	00

1	2	3	4	5	6
		695	0	11	20
		808	0	05	99
		809	0	07	02
		810	0	03	80
		685	0	03	11
		813	0	01	49
		815	0	00	70
		817	0	00	10
		816	0	01	34
		1408	0	05	37
		851	0	05	62
		852	0	06	64
		895	0	00	12
		892	0	06	53
		893	0	00	63
		853	0	02	36
		888	0	08	00
		889	0	03	07
		887	0	00	12
		886	0	00	54
		882	0	01	04
		883	0	07	85
		885	0	00	26
		1473	0	01	26
		1378	0	03	42
	Mandadhar	100	0	04	57
		93	0	10	31
		92	0	00	10
		94	0	09	55
	Tentulimundi	262	0	06	79
		263	0	00	74
		260	0	08	56
		266	0	03	68
		289	0	03	74
		267	0	13	37
		268	0	02	59
		191	0	04	02
		190	0	03	67
		189	0	01	53

1	2	3	4	5	6
		188	0	00	10
	Akinia	316	0	07	84
		318	0	00	10
		315	0	05	67
		317	0	00	10
		314	0	06	15
		302	0	00	31
		363	0	00	30
		304	0	09	89
		305	0	03	17
		294	0	03	65
		310	0	05	79
		292	0	04	20
		291	0	02	16
		286	0	03	70
		354	0	04	25
		284	0	08	30
		179	0	00	83
		135	0	07	72
		142	0	00	10
		136	0	00	10
		138	0	05	58
		137	0	07	72
		335	0	00	10
		112	0	01	90
		109	0	00	40
		111	0	08	37
		74	0	02	50
		75	0	01	45
		76	0	03	04
		79	0	02	59
		80	0	06	67
		33	0	06	90
		81	0	04	63
		32	0	02	70
		7	0	00	10
		6	0	14	82
		1	0	12	13
	Bishnupur	50	0	08	29

1	2	3	4	5	6
		51	0	03	52
		52	0	01	84
		53	0	02	09
		46	0	07	34
		44	0	09	12
		55	0	00	10
		56	0	00	10
		43	0	07	69
		39	0	02	15
		32	0	16	33
		33	0	00	55
		31	0	07	66
		29	0	01	46
		30	0	09	62
		3	0	07	89
	Sargan	649	0	00	10
		648	0	00	12
		647	0	00	89
		646	0	05	30
		645	0	02	63
		644	0	02	15
		639	0	08	23
		640	0	04	24
		625	0	00	41
		624	0	04	01
		621	0	00	36
		620	0	07	78
		617	0	08	70
		609	0	01	58
		611	0	07	16
		610	0	02	09
	Junagadia	189	0	05	31
		130	0	00	10
		96	0	07	47
		95	0	12	21
		94	0	03	61
		100	0	03	76
		99	0	00	19
		93	0	04	03

1	2	3	4	5	6
	Hinjila	501	0	00	86
		500	0	04	19
		497	0	02	77
		494	0	07	23
		493	0	09	45
		227	0	16	08
		219	0	00	10
		220	0	06	75
		218	0	05	63
		213	0	01	24
		212	0	03	96
		214	0	00	91
		211	0	03	46
		208	0	00	28
		209	0	00	91
		95	0	01	08
		527	0	10	90
		86	0	03	51
		21	0	02	57
		22	0	02	82
		24	0	03	43
		17	0	12	27
		25	0	03	68
		26	0	05	48
		28	0	00	60
		507	0	02	09
		518	0	04	52
		27	0	00	69
		15	0	01	38
		16	0	00	73
	Amara	766	0	20	62
		588	0	02	43
		587	0	03	69
		574	0	01	70
		584	0	09	20
		583	0	08	17
		579	0	13	06
		522	0	03	09

1	2	3	4	5	6
	Padabadgan	3068	0	04	22
		3069	0	07	94
		3070	0	08	67
		3066	0	06	75
		3065	0	04	05
		3107	0	03	07
		3108	0	05	03
		3109	0	02	52
		3301	0	01	06
		3225	0	05	75
		3300	0	01	51
		3226	0	18	63
		3299	0	01	91
		3290	0	01	84
		3228	0	01	53
		3284	0	04	11
		3283	0	02	76
		3282	0	00	29
		3281	0	02	08
		3236	0	30	62
		3233	0	00	10
		3197	0	04	94
		3237	0	00	28
		3195	0	06	91
		3193	0	01	69
		3238	0	00	37
		3192	0	12	31
		3504	0	00	46
		3191	0	10	14
		3190	0	10	61
		3246	0	00	10
	Bahadalpur	263	0	04	39
		323	0	00	10
		319	0	03	32
		320	0	02	54
		321	0	08	17
		322	0	00	31
		308	0	23	82

1	2	3	4	5	6
		313	0	09	45
		309	0	13	57
		285	0	01	30
		299	0	03	54
		298	0	15	37
		293	0	04	24
		292	0	04	80

[No. R-25011/19/2004-O.R.-I]
RENUKA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2004

का.आ. 2676.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में लोनी से पकनी तक हजारवाडी के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के ~~अर्जन~~ पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री. एम. वी. चिटनिस, सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-पुणे पाइपलाइन विस्तार परियोजना (लोनी से पकनी तक हजारवाडी के रास्ते), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोनी - टर्मिनल, कदमवाक वस्ती गाँव, हवेली तालुका, पुणे जिला, महाराष्ट्र - 412 201 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालूका : पुरंदर		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	बगे मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनोरी		215		00	32	86
			150		00	87	02
			149		00	17	35
			143		00	43	68
			145		00	09	36
			146		00	34	39
			94		00	05	05
			98		00	29	56
			97		00	19	70
			70		00	03	10
			71		00	26	42
			56		00	32	53
			50		00	15	11
			35		00	08	04
			36		00	10	90
			37		00	29	95
			679		00	24	61
			705		00	22	75
			232		00	19	98
			233		00	20	96
			242		00	10	96
			243		00	11	31
			244		00	12	81
			245		00	26	07
			गट नंबर 245 और				
			248 के बीच में		00	08	38
			गाडी रास्ता				
			248		00	00	81
			276		00	16	73
			279		00	01	41
			275		00	60	51
			251		00	09	74
			252 पै		00	05	86
			253 पै		00	04	75
			254 पै		00	12	92
			गट नंबर 254 पै				
			में मेटल्ड रास्ता		00	02	62
			255 पै		00	15	42

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनोरी (निरंतर)		256		00	06	71
			257		00	08	02
			258		00	08	95
			259		00	05	05
			260		00	39	98
			गट नंबर 260 और				
			370 के पास का		00	02	93
			मिट्टी रास्ता				
			370		00	28	14
			392		00	54	36
			गट नंबर 392				
			में नाला		00	09	48
			399		00	09	61
कुल :					08	66	85
2	वनपुरी		18		00	11	36
			373		00	64	01
			372		00	07	67
			371		00	08	30
			गट नंबर 371 और				
			368 के बीच		00	04	26
			की भूमि				
			368		00	08	41
			361		00	02	73
			360		00	06	07
			356		00	03	38
			355		00	03	78
			353		00	11	19
			गट नंबर 353 में				
			राज्यमार्ग 63		00	03	97
			गट नंबर 353 और				
			352 के बीच में		00	04	93
			मेटल्ड रास्ता				
			352		00	11	13
			350		00	15	00
			340		00	00	35
			341		00	02	07
			342		00	06	60

तालूका पुरंदर		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	वनपुरी (निरंतर)		343		00	08	22
			344		00	05	24
			345		00	10	04
			346		00	02	18
			347		00	03	59
			348		00	04	84
			349		00	07	04
कुल :					02	16	36
3	कुंभारवलण		108	अ/4	00	00	87
			108	अ/5	00	07	78
			108	अ/6	00	14	13
			108	अ/7	00	05	61
			108	ब/4	00	05	00
			108	ब/5	00	13	69
			108	ब/6	00	08	80
			108	ब/7	00	08	80
			108	ब/8	00	29	63
			108	ब/10	00	18	49
		गट नंबर 108					
		ब/10 और 111 के बीच की भूमि			00	07	92
		गट नंबर 108					
		ब/10 और 111 के बीच की भूमि			00	08	71
		111			00	33	12
		112			00	11	92
		113			00	06	96
		118			00	18	40
		120			00	23	24
		119			00	00	02
		121			00	08	66
		122			00	10	40
		130			00	06	00
		133			00	18	10
		28			00	31	61
		27			00	16	74
		26			00	19	17

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	कुंभारवलय ('निरंहर')		गट नंबर 26 और 21 के बीच प्रमुख जिला मार्ग 31 21 13 14 15 16 14 17 3 2 गट नंबर 2 के पास करहा नदी		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	03 00 17 08 03 00 12 00 12 46 04	02 07 90 42 77 90 31 02 59 08 25
					कुल :	04 43	10
4	खलद		गट नंबर 1180 और गाँव सीमा कुंभारवलय के बीच में करहा नदी 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1187 गट नंबर 1187 और 1317 के बीच में मेटलड 1317 गट नंबर 1318 में माला 1318 1319 1348 गट नंबर 1348 और 1333 के बीच में मेटलड रास्ता		00 00	06 20 01 14 27 01 05 19 03 58 02 21 10 16 02 02 02 02 02 02 02 02	80 74 35 82 63 53 80 54 64 80 38 78 42 08 11

तालूका : पुरंदर		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
4	खलद		1333		00	07	60
			1334		00	02	95
			1335		00	01	88
			1336		00	04	13
			1347		00	09	29
			1344		00	23	43
			गट नंबर 1344				
			में नाला		00	03	86
			1376		00	03	42
			1378		00	03	97
			1379		00	03	79
			1380		00	07	55
			1382		00	13	02
			1383		00	07	14
			1384		00	05	21
			1398		00	08	81
			1397		00	10	36
			1395		00	17	24
			1396		00	04	67
			1394		00	08	34
			गट नंबर 1396				
			और 876 के बीच		00	05	36
			में राज्य मार्ग 64				
			876		00	11	39
			874		00	07	31
			872		00	15	28
			870		00	12	40
			868		00	09	73
			867		00	28	64
			गट नंबर 867				
			और 735 के		00	04	29
			बीच में नाला				
			735		00	40	14
			733		00	06	97
			732		00	26	45
			726		00	07	14
			725		00	11	51
			724		00	01	65
			723		00	04	72

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल			
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	खलद (निरंतर)		722		00	10	08	
			721		00	08	13	
			720		00	09	33	
			719		00	05	08	
			718		00	04	41	
			717		00	03	84	
			716		00	04	58	
			715		00	12	28	
			714		00	13	65	
			713		00	19	51	
			712		00	06	84	
			711		00	12	12	
			710		00	02	21	
		कुल :					06	65
5	शिवरी		1034		00	02	65	
			1035		00	02	57	
		गट नंबर 1035						
		और 1036 के बीच की भूमि				00	03	15
			1036		00	01	69	
			1037		00	24	62	
			1038		00	13	29	
			1040		00	18	42	
			1044		00	14	14	
			1051		00	08	69	
			1052		00	08	31	
			1053		00	06	15	
			1054		00	10	20	
			1055		00	21	78	
			1056		00	02	79	
		गट नंबर 1056 और 955 के बीच में मेटल्ड रास्ता				00	01	99
			955		00	03	31	
			956		00	00	10	
			954		00	07	16	
			949		00	23	01	
			948		00	08	41	

तालूका : पुरंदर		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
5	शिवरी (निरंतर)		940		00	06	78
			941		00	03	71
			942		00	04	59
			943		00	03	90
			944		00	01	10
			945		00	15	90
			930		00	00	18
			946		00	01	42
			929		00	06	55
			928		00	00	80
			926		00	16	10
			859		00	25	37
			858		00	21	25
			855		00	07	29
			854		00	08	95
			850(पै)		00	08	36
			गट नंबर 850 पै				
			और 833 के बीच		00	04	58
			की भूमि				
			833		00	34	03
			847		00	08	36
			834		00	27	61
			गट नंबर				
			834 और 837		00	05	00
			के बीच की भूमि				
			837		00	20	60
			828		00	12	08
			827		00	09	81
			648		00	04	58
			647		00	02	98
			646		00	04	69
			644		00	06	22
			642		00	09	93
			641		00	06	52
			639		00	04	46
			637(पै)		00	03	68
			636		00	02	55
			635		00	05	21
			634		00	03	74
			632		00	04	74

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
5	शिवरी (निरंतर)		631		00	05	64
			630		00	07	22
			629		00	15	80
			628		00	04	96
			627		00	48	16
			626		00	19	88
			621		00	35	37
			981		00	30	24
कुल :					06	63	32
6	पांगारे		592		00	18	28
			गट नंबर 592				
			और 593 के		00	04	26
			बीच में नाला				
			593		00	68	30
			गट नंबर 593 और				
			671 में अस्फालटेड		00	02	32
			रास्ता				
			671		00	21	71
			679		00	54	89
			678		00	46	06
			गट नंबर 678 में		00	01	72
			मेटल्ड रास्ता				
			672		00	22	69
			669		00	00	10
			668		00	08	26
			667		00	10	74
			653		00	18	76
			654		00	04	27
			655		00	08	95
			656		00	08	74
			657		00	23	61
			गट नंबर 657 में		00	02	28
			अस्फालटेड रास्ता				
			638		00	00	15

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
6	पांगारे (निरंतर)		639		00	23	85
			641		00	00	10
			640		00	10	73
			631		00	10	62
			633		00	00	39
			632		00	10	34
			630		00	16	14
			733		00	22	41
			734		00	03	76
			726		00	12	71
			774		00	13	16
			773		00	04	91
			765		00	14	05
			771		00	12	37
			770		00	21	70
			777		00	10	11
			गट नंबर 777 और				
			782 के बीच में				
			प्रमुख जिला मार्ग		00	02	71
			60				
			782		00	15	78
			778		00	02	41
			779		00	14	05
			780		00	07	34
			892		00	10	59
			893		00	03	91
			896		00	07	20
			गट नंबर 908 में				
			मेटल्ड रास्ता		00	02	37
			908		00	28	81
			909		00	04	38
			906		00	00	45
			907		00	01	99
			925		00	04	58
			930		00	07	45
			929		00	05	51
			927		00	03	80
			928		00	06	54
कुल :					06	43	34

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
7	परिचे		गट नंबर 2168 में				
			अस्फालटेड रास्ता		00	01	32
			2168		00	17	56
			गट नंबर 2168				
			और 2172 के				
			बीच में प्रमुख जिला		00	02	25
			मार्ग 60				
			2172		00	69	87
			गट नंबर 2172				
			और 2207 के		00	02	97
			बीच में नाला				
			2207		00	04	28
			2206		00	02	37
			2210		00	09	95
			2211		00	05	00
			2212		00	07	96
			2219		00	07	10
			2220		00	01	89
			2221		00	07	33
			2223		00	05	00
			2224		00	06	02
			2227		00	05	61
			2228		00	04	65
			2229		00	05	57
			2237		00	20	60
			2238		00	09	90
			2239		00	12	31
			2240		00	00	15
			2255		00	18	29
			2250		00	20	23
			2254		00	04	95
			2252		00	25	10
			2253		00	25	54
			2286		00	12	15
			2288		00	10	38
			2287		00	09	83
			2289		00	11	82

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
7	परिचे (निरंतर)		2311		00	25	71
			2312		00	10	54
			2306		00	12	87
			2304		00	00	26
			2303		00	08	36
			2301		00	15	51
			गट नंबर 2301 और				
			2378 के बीच की		00	08	21
			भूमि				
			2378		00	06	03
			2379		00	06	22
			2380		00	10	94
			2381		00	05	38
			2382		00	00	15
			2377		00	29	96
			2400		00	50	14
			2399		00	27	19
			2442		00	00	02
			2439		00	25	90
			2438		00	14	83
			2437		00	21	25
			2571		00	64	18
			2577		00	09	12
			2578		00	05	87
			2573		00	37	48
			2643		00	00	10
			2642		00	00	53
			2624		00	17	22
			2625		00	05	26
			2626		00	03	60
			2641		00	02	93
			2627		00	02	39
			2640		00	07	97
			2628		00	01	37
			2629		00	00	44
			2639		00	03	85
			गट नंबर 2639 और				
			2638 के बीच की		00	04	37
			भूमि				
			2638		00	04	74

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
7	परिचे (निरंतर)		2637		00	07	00
			2636		00	07	58
			2632		00	09	49
			2635		00	12	94
			गट नंबर 2635				
			में नाला		00	02	84
			2754		00	39	98
			2724		00	09	17
			2730		00	18	62
			2732		00	00	03
			2731		00	15	78
			2733		00	05	39
			2729		00	14	24
			2728		00	04	11
			3065		00	55	24
			3064		00	16	10
			3063		00	21	67
			3062		00	14	37
			3061		00	07	31
			3060		00	03	97
			3059		00	04	65
			3058		00	02	11
			3057		00	03	26
			3056		00	06	50
			3055		00	05	56
			3054		00	01	63
			3097		00	28	91
			गट नंबर 3097 और				
			3095 के बीच में		00	05	87
			गाडी रास्ता				
			3095		00	03	07
			3096		00	61	33
			3104		00	16	99
			3106		00	13	54
			3104		00	98	08
			3109		00	00	30
			3110		00	14	60
			3111		00	01	58
कुल :					13	32	75

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
8	हरणी		195(पै)		00	35	99

गट नंबर 195 पै

में अस्फालटेड

00 01 37

रास्ता

194 00 32 66

193 00 11 97

192 00 02 64

166 00 07 13

165 00 19 45

164 00 12 33

163 00 21 02

168 00 02 01

162 00 00 19

153 00 14 91

147 00 03 12

148 00 10 72

90 00 14 52

91 00 15 13

82 00 26 30

81 00 18 21

गट नंबर 80 में

अस्फालटेड रास्ता

00 02 20

80 00 27 26

38 00 18 05

17 00 01 26

12 00 33 76

5 00 00 17

4 00 02 05

3 00 06 50

14 00 10 23

15 00 14 67

16 00 11 65

951 00 10 64

949 00 09 16

गट नंबर 949 और

938 के बीच में

00 02 97

अस्फालटेड रास्ता

938 00 22 60

935 00 03 24

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
8	हरणी (निरंतर)		934		00	06	06
			946		00	00	45
			924		00	04	79
			921(पै)		00	02	97
			925		00	02	05
			918		00	02	93
			917		00	01	53
			916		00	02	13
			915		00	01	83
			914		00	03	81
			891		00	00	05
			890		00	03	03
			889		00	05	79
			888		00	04	79
			903		00	03	59
			गट नंबर 903 और				
			904 के बीच			00	05 51
			की भूमि				
			902		00	02	00
			901		00	00	14
			904		00	00	06
			900		00	01	34
			899		00	01	46
			898		00	01	48
			897		00	03	59
			894		00	00	06
			895		00	04	39
			602		00	06	07
			603		00	07	00
			607		00	04	05
			604		00	09	42
			605		00	08	52
			822		00	19	28
			818		00	08	13
			819		00	18	69
			820		00	01	10
			807		00	00	87
			806		00	06	90
			गट नंबर 806 और				
			961 के बीच में			00	12 92
			गाड़ी रास्ता				

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
8	हरणी (निरंतर)		961		00	00	16
			962		00	00	40
			963		00	01	04
			964		00	03	65
			802		00	07	77
			803		00	03	92
			804		00	03	10
			662		00	09	31
			678		00	00	55
			679		00	01	18
			680		00	04	79
			681		00	02	76
			682		00	07	21
			683		00	03	17
			712		00	06	64
			711		00	06	80
			716		00	19	40
			719		00	18	96
			718		00	00	02
			720		00	03	15
			722		00	56	12
			723		00	01	03
			760		00	15	58
			762		00	00	31
			759		00	26	61
			758		00	05	20
					08	03	69
9	वीर		1783		00	07	70
			1782		00	10	37
			1787		00	14	20
			1786		00	04	63
			गट नंबर				
			1786 और 1785		00	02	16
			के बीच की भूमि				
			गट नंबर				
			1797 और 1785		00	01	53
			के बीच की भूमि				
			1798		00	01	85
			1799		00	02	95

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एकर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
9	वीर (चिरंतर)		1803		00	02	71
			गट नंबर				
			1803 और 1804		00	02	29
			के बीच की भूमि				
			1804		00	03	68
			1809		00	03	28
			1808		00	02	25
			1807		00	01	21
			1806		00	00	25
			गट नंबर				
			1806 और 1850		00	16	48
			के बीच की भूमि				
			1850		00	05	21
			1845		00	18	23
			1846		00	00	12
			1844		00	12	61
			गट नंबर				
			1844 और 1833		00	12	96
			के बीच की भूमि				
			1833		00	18	16
			1828		00	00	17
			2016		00	12	23
			2017		00	16	21
			2023		00	11	51
			गट नंबर				
			2051 में प्रमुख		00	01	93
			जिला मार्ग - 63				
			2051		00	46	62
			2032		00	00	95
			2031		00	01	45
			2030		00	04	46
			2029		00	01	64
			2028		00	05	64
			2024		00	20	98
			2026		00	02	96
			2025		00	09	90
			2122		00	33	52
कुल :					03	15	00

तालूका : पुरंदर		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-अण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
10	मांडकी		1606		00	06	64
			1628		00	57	85
			1547		00	61	59
			1480		00	05	80
			1479		00	17	57
			1478		00	08	41
			1477		00	11	17
			1476		00	11	82
			गट नंबर 1476 और				
			1266 के बीच में		00	05	06
			मेटल्ड रास्ता				
			1266		00	16	06
			1265		00	03	49
			1264		00	03	79
			1917		00	04	18
			1263		00	11	7
			1262		00	15	73
			1261		00	13	92
			1298		00	02	76
			1260		00	04	30
			1299		00	04	01
			1306		00	00	40
			1307		00	01	88
			1308		00	04	98
			1309		00	07	67
			1310		00	13	60
			1311		00	13	70
			1317		00	00	52
			1312		00	00	19
			1316		00	14	77
			1315		00	04	90
			गट नंबर 1315 और				
			897 के बीच		00	06	05
			में नाला				
			897		00	25	93
			898		00	11	83
			849		00	09	97

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
10	मांडकी (निरंतर)		848		00	09	45
			847		00	04	98
			846		00	09	24
			गट नंबर 906 और 908 के बीच में मेटल्ड रास्ता		00	05	51
			840		00	00	04
			905		00	00	05
			906		00	00	64
			908		00	23	76
			921		00	11	22
			922		00	11	85
			923		00	28	49
			926		00	20	71
			929		00	00	05
			930		00	06	29
			931		00	00	05
			735		00	38	14
			932		00	00	40
			933		00	15	48
			934		00	05	94
			935		00	10	03
			936		00	03	98
			938		00	06	28
			939		00	26	49
			940		00	07	85
			गट नंबर 940 और गाँव सीमा जेअुर के बीच में माला		00	04	61
कुल :					06	33	85

तालूका : पुरंदर		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8

11

जेजुर

गट नंबर 1148 और

गाँव सीमा मांडकी के

बीच में जाला

00 09 92

1148

00 01 07

1129

00 01 30

1128

00 03 30

1127

00 06 86

1125

00 06 16

1124

00 05 63

1123

00 02 71

1122

00 01 17

1120

00 05 10

गट नंबर 1121

में गाडी रास्ता

00 02 54

1119

00 04 72

1118

00 04 14

1117

00 08 94

गट नंबर 1117 और

1116 के बीच की

भूमि

00 00 24

1116

00 11 39

1008

00 05 22

1000

00 10 70

997

00 00 71

999

00 03 54

995

00 05 66

991

00 11 00

992

00 01 23

988

00 00 52

985

00 05 12

984

00 06 17

983

00 00 96

तालुका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गांव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
11	जेजुर (जिरहर)		982		00	05	19
			934		00	09	96
			933		00	00	71
			989		00	13	72
			785		00	15	67
			786		00	06	00
			787		00	04	38
			805		00	11	72
			810		00	04	57
			809		00	07	76
			807		00	00	05
			808		00	05	67
			813		00	08	87
			814		00	03	38
			816		00	02	72
			817		00	02	41
			818		00	01	08
			837		00	03	51
			838		00	20	52
			836		00	16	59
			835		00	02	28
			838		00	15	60
			गट नंबर 838 और				
			851 के बीच में		00	16	30
			बाहें तरफ का माला				
			851		00	47	51
			602		00	38	87
			397		00	09	25
			576		00	06	83
			गट नंबर 576 और				
			593 के बीच की		00	01	90
			भूमि				

तालूका : पुरंदर			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	मट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
11	जेजुर (निर्गुर)		593		00	00	11
			574		00	29	20
			573		00	12	16
			मट नंबर 573 और				
			गाँव सीमा पिंपरे				
			बुद्रुक के बीच में		00	23	92
			नीरा नदी				
कुल :					04	74	43

[प्र. सं. आर-31015/25/2004-ओ.आर.-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 19th October, 2004

S. O. 2676.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Loni to Pakni via Hazarwadi in the State of Maharashtra, an extension pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twentyone days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri M.V.Chitnis, Competent Authority, Mumbai-Pune Pipeline Extension Project (from Loni to Pakni via Hazarwadi), Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Loni Terminal, Kadamwakwasti Village, Haveli Taluka, Pune District, Maharashtra-412 201

SCHEDULE

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SONORI		215		00	32	86
			150		00	87	02
			149		00	17	35
			143		00	43	68
			145		00	09	36
			146		00	34	39
			94		00	05	05
			98		00	29	56
			97		00	19	70
			70		00	03	10
			71		00	26	42
			56		00	32	53
			50		00	15	11
			35		00	08	04
			36		00	10	90
			37		00	29	95
			679		00	24	61
			705		00	22	75
			232		00	19	98
			233		00	20	96
			242		00	10	96
			243		00	11	31
			244		00	12	81
			245		00	26	07
			Cart Track in between Gat No 245 & 248		00	08	38
			248		00	00	81
			276		00	16	73
			279		00	01	41
			275		00	60	51
			251		00	09	74
			252(P)		00	05	86
			253(P)		00	04	75
			254(P)		00	12	92
			Metalled Road in Gat No 254(P)		00	02	62
			255(P)		00	15	42

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SONORI (Cand.)		256		00	06	71
			257		00	08	02
			258		00	08	95
			259		00	05	05
			260		00	39	98
			Mud Road adjacent to Gat No 260 & 370		00	02	93
			370		00	28	14
			392		00	54	36
			Nala in Gat No 392		00	09	48
			399		00	09	61
		Total :			08	66	85
2	VANPURI		18		00	11	36
			373		00	64	01
			372		00	07	67
			371		00	08	30
			Area in between Gat No 371 & 368		00	04	26
			368		00	08	41
			361		00	02	73
			360		00	06	07
			356		00	03	38
			355		00	03	78
			353		00	11	19
			SH - 63 in Gat No 353		00	03	97
			Metalled Road in between Gat No 353 & 352		00	04	93
			352		00	11	13
			350		00	15	00
			340		00	00	35
			341		00	02	07
			342		00	06	60

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area			
					Hectare	Are	Sq.mt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	VANPURI (Contd.)		343		00	08	22	
			344		00	05	24	
			345		00	10	04	
			346		00	02	18	
			347		00	03	59	
			348		00	04	84	
			349		00	07	04	
		Total :					02	16
3	KUMBHARVALAN		108	A/4	00	00	87	
			108	A/5	00	07	78	
			108	A/6	00	14	13	
			108	A/7	00	05	61	
			108	B/4	00	05	00	
			108	B/5	00	13	69	
			108	B/6	00	08	80	
			108	B/7	00	08	80	
			108	B/8	00	29	63	
			108	B/10	00	18	49	
			Area in between Gat No 108 B/10 & 111					
			Area in between Gat No 108 B/10 & 111					
			111		00	33	12	
			112		00	11	92	
			113		00	06	96	
			118		00	18	40	
			120		00	23	24	
			119		00	00	02	
			121		00	08	66	
			122		00	10	40	
			130		00	06	00	
			133		00	18	10	
			28		00	31	61	
			27		00	16	74	
			26		00	19	17	

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	KUMBHARVALAN (Contd.)		MDR - 31 in between Gat No 26 & 21		00	03	02
			21		00	00	07
			13		00	17	90
			14		00	08	42
			15		00	03	77
			16		00	00	90
			14		00	12	31
			17		00	00	02
			3		00	12	59
			2		00	46	08
			Karha River adjacent to Gat No 2		00	04	25
Total:					04	43	10
4	KHALAD		Karha River in between V.B. of Kumbharvalan & Gat No 1180		00	06	80
			1180		00	20	74
			1181		00	01	35
			1182		00	14	82
			1183		00	27	63
			1184		00	01	53
			1185		00	05	80
			1187		00	19	54
			Metalled Road in between Gat No 1187 & 1317		00	03	64
			1317		00	58	80
			Nala in Gat No 1318		00	02	38
			1318		00	21	78
			1319		00	10	42
			1348		00	16	08
			Metalled Road in between Gat No 1348 & 1333		00	02	11

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
4	KHALAD (Contd.)		1333		00	07	60
			1334		00	02	95
			1335		00	01	88
			1336		00	04	13
			1347		00	09	29
			1344		00	23	43
			Nala in Gat No 1344		00	03	86
			1376		00	03	42
			1378		00	03	97
			1379		00	03	79
			1380		00	07	55
			1382		00	13	02
			1383		00	07	14
			1384		00	05	21
			1398		00	08	81
			1397		00	10	36
			1395		00	17	24
			1396		00	04	67
			1394		00	08	34
			SH - 64 in between Gat No 1396 & 876		00	05	36
			876		00	11	39
			874		00	07	31
			872		00	15	28
			870		00	12	40
			868		00	09	73
			867		00	28	64
			Nala in between Gat No 867 & 735		00	04	29
			735		00	40	14
			733		00	06	97
			732		00	26	45
			726		00	07	14
			725		00	11	51
			724		00	01	65
			723		00	04	72

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
4	KHALAD (Contd.)		722		00	10	08
			721		00	08	13
			720		00	09	33
			719		00	05	08
			718		00	04	41
			717		00	03	84
			716		00	04	58
			715		00	12	28
			714		00	13	65
			713		00	19	51
			712		00	06	84
			711		00	12	12
			710		00	02	21
			Total :		06	65	69
5	SHIVARI		1034		00	02	65
			1035		00	02	57
			Area in between Gat No 1035 & 1036		00	03	15
			1036		00	01	69
			1037		00	24	62
			1038		00	13	29
			1040		00	18	42
			1044		00	14	14
			1051		00	08	69
			1052		00	08	31
			1053		00	06	15
			1054		00	10	20
			1055		00	21	78
			1056		00	02	79
			Mettled Road in between Gat No 1056 & 955		00	01	99
			955		00	03	31
			956		00	00	10
			954		00	07	16
			949		00	23	01
			948		00	08	41

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
5	SHIVARI (Contd.)		940		00	06	78
			941		00	03	71
			942		00	04	59
			943		00	03	90
			944		00	01	10
			945		00	15	90
			930		00	00	18
			946		00	01	42
			929		00	06	55
			928		00	00	80
			926		00	16	10
			859		00	25	37
			858		00	21	25
			855		00	07	29
			854		00	08	95
			850(P)		00	08	36
			Area in between Gat No		00	04	58
			850(P) & 833				
			833		00	34	03
			847		00	08	36
			834		00	27	61
			Area in between Gat No		00	05	00
			834 & 837				
			837		00	20	60
			828		00	12	08
			827		00	09	81
			648		00	04	58
			647		00	02	98
			646		00	04	69
			644		00	06	22
			642		00	09	93
			641		00	06	52
			639		00	04	46
			637(P)		00	03	68
			636		00	02	55
			635		00	05	21
			634		00	03	74
			632		00	04	74

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
5	SHIVARI (Contd.)		631		00	05	64
			630		00	07	22
			629		00	15	80
			628		00	04	96
			627		00	48	16
			626		00	19	88
			621		00	35	37
			981		00	30	24
			Total :		06	63	32
6	PANGARE		592		00	18	28
			Nala in between				
			Gat No		00	04	26
			592 & 593				
			593		00	68	30
			Asphalted Road				
			in Gat No		00	02	32
			593 & 671				
			671		00	21	71
			679		00	54	89
			678		00	46	06
			Metalled Road in		00	01	72
			Gat No 678				
			672		00	22	69
			669		00	00	10
			668		00	08	26
			667		00	10	74
			653		00	18	76
			654		00	04	27
			655		00	08	95
			656		00	08	74
			657		00	23	61
			Asphalted Road		00	02	28
			in Gat No 657				
			638		00	00	15

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PANGARE		639		00	23	85
	(Contd.)		641		00	00	10
			640		00	10	73
			631		00	10	62
			633		00	00	39
			632		00	10	34
			630		00	16	14
			733		00	22	41
			734		00	03	76
			726		00	12	71
			774		00	13	16
			773		00	04	91
			765		00	14	05
			771		00	12	37
			770		00	21	70
			777		00	10	11
			MDR-60 in between Gat No 777 & 782		00	02	71
			782		00	15	78
			778		00	02	41
			779		00	14	05
			780		00	07	34
			892		00	10	59
			893		00	03	91
			896		00	07	20
			Metalled Road in Gat No 908		00	02	37
			908		00	28	81
			909		00	04	38
			906		00	00	45
			907		00	01	99
			925		00	04	58
			930		00	07	45
			929		00	05	51
			927		00	03	80
			928		00	06	54
Total :					06	43	34

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PARINCHE		Asphalted Road in Gat No 2168		00	01	32
			2168		00	17	56
			Major District Road-60 in between Gat No 2168 & 2172		00	02	25
			2172		00	69	87
			Nala in between Gat No 2172 & 2207		00	02	97
			2207		00	04	28
			2206		00	02	37
			2210		00	09	95
			2211		00	05	00
			2212		00	07	96
			2219		00	07	10
			2220		00	01	89
			2221		00	07	33
			2223		00	05	00
			2224		00	06	02
			2227		00	05	61
			2228		00	04	65
			2229		00	05	57
			2237		00	20	60
			2238		00	09	90
			2239		00	12	31
			2240		00	00	15
			2255		00	18	29
			2250		00	20	23
			2254		00	04	95
			2252		00	25	10
			2253		00	25	54
			2286		00	12	15
			2288		00	10	38
			2287		00	09	83
			2289		00	11	82

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt.
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PARINCHE (Contd.)		2311		00	25	71
			2312		00	10	54
			2306		00	12	87
			2304		00	00	26
			2303		00	08	36
			2301		00	15	51
			Area in between				
			Gat No		00	08	21
			2301 & 2378				
			2378		00	06	03
			2379		00	06	22
			2380		00	10	94
			2381		00	05	38
			2382		00	00	15
			2377		00	29	96
			2400		00	50	14
			2399		00	27	19
			2442		00	00	02
			2439		00	25	90
			2438		00	14	83
			2437		00	21	25
			2571		00	64	18
			2577		00	09	12
			2578		00	05	87
			2573		00	37	48
			2643		00	00	10
			2642		00	00	53
			2624		00	17	22
			2625		00	05	26
			2626		00	03	60
			2641		00	02	93
			2627		00	02	39
			2640		00	07	97
			2628		00	01	37
			2629		00	00	44
			2639		00	03	85
			Area in between				
			Gat No		00	04	37
			2639 & 2638				
			2638		00	04	74

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PARINCHE (Contd.)		2637		00	07	00
			2636		00	07	58
			2632		00	09	49
			2635		00	12	94
			Nala in Gat No 2635		00	02	84
			2754		00	39	98
			2724		00	09	17
			2730		00	18	62
			2732		00	00	03
			2731		00	15	78
			2733		00	05	39
			2729		00	14	24
			2728		00	04	11
			3065		00	55	24
			3064		00	16	10
			3063		00	21	67
			3062		00	14	37
			3061		00	07	31
			3060		00	03	97
			3059		00	04	65
			3058		00	02	11
			3057		00	03	26
			3056		00	06	50
			3055		00	05	56
			3054		00	01	63
			3097		00	28	91
			Cart track in between Gat No 3097 & 3095		00	05	87
			3095		00	03	07
			3096		00	61	33
			3104		00	16	99
			3106		00	13	54
			3104		00	98	08
			3109		00	00	30
			3110		00	14	60
			3111		00	01	58
Total:					13	32	75

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
8	HARNI		195(P)		00	35	99
			Asphalted Road in Gat No 195(P)		00	01	37
			194		00	32	66
			193		00	11	97
			192		00	02	64
			166		00	07	13
			165		00	19	45
			164		00	12	33
			163		00	21	02
			168		00	02	01
			162		00	00	19
			153		00	14	91
			147		00	03	12
			148		00	10	72
			90		00	14	52
			91		00	15	13
			82		00	26	30
			81		00	18	21
			Asphalted Road in Gat No 80		00	02	20
			80		00	27	26
			38		00	18	05
			17		00	01	26
			12		00	33	76
			5		00	00	17
			4		00	02	05
			3		00	06	50
			14		00	10	23
			15		00	14	67
			16		00	11	65
			951		00	10	64
			949		00	09	16
			Asphalted Road in between Gat No 949 & 938		00	02	97
			938		00	22	60
			935		00	03	24

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
8	HARNI		934		00	06	06
	(Contd.)		946		00	00	45
			924		00	04	79
			921(P)		00	02	97
			925		00	02	05
			918		00	02	93
			917		00	01	53
			916		00	02	13
			915		00	01	83
			914		00	03	81
			891		00	00	05
			890		00	03	03
			889		00	05	79
			888		00	04	79
			903		00	03	59
			Area in between				
			Gat No				
			903 & 904		00	05	51
			902		00	02	00
			901		00	00	14
			904		00	00	06
			900		00	01	34
			899		00	01	46
			898		00	01	48
			897		00	03	59
			894		00	00	06
			895		00	04	39
			602		00	06	07
			603		00	07	00
			607		00	04	05
			604		00	09	42
			605		00	08	52
			822		00	19	28
			818		00	08	13
			819		00	18	69
			820		00	01	10
			807		00	00	87
			806		00	06	90
			Cart Track in				
			between Gat No				
			806 & 961		00	12	92

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
8	HARNI (Contd.)		961		00	00	16
			962		00	00	40
			963		00	01	04
			964		00	03	65
			802		00	07	77
			803		00	03	92
			804		00	03	10
			662		00	09	31
			678		00	00	55
			679		00	01	18
			680		00	04	79
			681		00	02	76
			682		00	07	21
			683		00	03	17
			712		00	06	64
			711		00	06	80
			716		00	19	40
			719		00	18	96
			718		00	00	02
			720		00	03	15
			722		00	56	12
			723		00	01	03
			760		00	15	58
			762		00	00	31
			759		00	26	61
			758		00	05	20
Total					08	03	69
9	VIR		1783		00	07	70
			1782		00	10	37
			1787		00	14	20
			1786		00	04	63
			Area in between Gat No 1786 & 1785		00	02	16
			Area in between Gat No 1797 & 1785		00	01	53
			1798		00	01	85
			1799		00	02	95

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
9	VIR (Contd.)		1803		00	02	71
			Area in between Gat No 1803 & 1804		00	02	29
			1804		00	03	68
			1809		00	03	28
			1808		00	02	25
			1807		00	01	21
			1806		00	00	25
			Area in between Gat No 1806 & 1850		00	16	48
			1850		00	05	21
			1845		00	18	23
			1846		00	00	12
			1844		00	12	61
			Area in between Gat No 1844 & 1833		00	12	96
			1833		00	18	16
			1828		00	00	17
			2016		00	12	23
			2017		00	16	21
			2023		00	11	51
			MDR - 63 in Gat No 2051		00	01	93
			2051		00	46	62
			2032		00	00	95
			2031		00	01	45
			2030		00	04	46
			2029		00	01	64
			2028		00	05	64
			2024		00	20	98
			2026		00	02	96
			2025		00	09	90
			2122		00	33	52
Total :					03	15	00

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
10	MANDKI		1606		00	06	64
			1628		00	57	85
			1547		00	61	59
			1480		00	05	80
			1479		00	17	57
			1478		00	08	41
			1477		00	11	17
			1476		00	11	82
			Metalled Road in between Gat No 1476 & 1266		00	05	06
			1266		00	16	06
			1265		00	03	49
			1264		00	03	79
			1917		00	04	18
			1263		00	11	78
			1262		00	15	73
			1261		00	13	92
			1298		00	02	76
			1260		00	04	30
			1299		00	04	01
			1306		00	00	40
			1307		00	01	88
			1308		00	04	98
			1309		00	07	67
			1310		00	13	60
			1311		00	13	70
			1317		00	00	52
			1312		00	00	19
			1316		00	14	77
			1315		00	04	90
			Nala in between Gat No 1315 & 897		00	06	05
			897		00	25	93
			898		00	11	83
			849		00	09	97

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area			
					Hectare	Are	Sq.mt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	MANDKI (Contd.)		848		00	09	45	
			847		00	04	98	
			846		00	09	24	
			Metalled Road in between Gat No 906 & 908		00	05	51	
			840		00	00	04	
			905		00	00	05	
			906		00	00	64	
			908		00	23	76	
			921		00	11	22	
			922		00	11	85	
			923		00	28	49	
			926		00	20	71	
			929		00	00	05	
			930		00	06	29	
			931		00	00	05	
			735		00	38	14	
			932		00	00	40	
			933		00	15	48	
			934		00	05	94	
			935		00	10	03	
			936		00	03	98	
			938		00	06	28	
			939		00	26	49	
			940		00	07	85	
			Nala in between Gat No 940 & V.B. of Jeur		00	04	61	
					Total :	06	33	85

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
11	JEUR		Nala in between Gat No 1148 & V.B. of Mandki		00	09	92
			1148		00	01	07
			1129		00	01	30
			1128		00	03	30
			1127		00	06	86
			1125		00	06	16
			1124		00	05	63
			1123		00	02	71
			1122		00	01	17
			1120		00	05	10
			Cart Track in Gat No 1121		00	02	54
			1119		00	04	72
			1118		00	04	14
			1117		00	08	94
			Area in between Gat No 1117 & 1116		00	00	24
			1116		00	11	39
			1006		00	05	22
			1000		00	10	70
			997		00	00	71
			999		00	03	54
			995		00	05	66
			991		00	11	00
			992		00	01	23
			988		00	00	52
			985		00	05	12
			984		00	06	17
			983		00	00	96

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
11	JEUR		982		00	05	19
			934		00	09	96
			933		00	00	71
			989		00	13	72
			785		00	15	67
			786		00	06	00
			787		00	04	38
			805		00	11	72
			810		00	04	57
			809		00	07	76
			807		00	00	05
			808		00	05	67
			813		00	08	87
			814		00	03	38
			816		00	02	72
			817		00	02	41
			818		00	01	08
			837		00	03	51
			838		00	20	52
			836		00	16	59
			835		00	02	28
			838		00	15	60
			Nira Left Bank				
			Canal in between				
			Gat No				
			838 & 851				
			851		00	47	51
			602		00	38	87
			397		00	09	25
			576		00	06	83
			Area in between				
			Gat No				
			576 & 593				
					00	01	90

Taluka : PURANDHAR			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
11	JEUR (Contd.)		593		00	00	11
			574		00	29	20
			573		00	12	16
			Nira River in between Gat No 573 & V.B. of Pimpre Budruk		00	23	92
Total:					04	74	43

[No. R-31015/25/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2677.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में लोनी से पकनी तक हजारवाडी के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के ~~भीतर~~ पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री. एम. वी. चिटनिस, सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-पुणे पाइपलाइन विस्तार परियोजना (लोनी से पकनी तक हजारवाडी के रास्ते), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोनी - टर्मिनल, कदमवाक वस्ती गाँव, हवेली तालुका, पुणे जिला, महाराष्ट्र - 412 201 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुका : तासगांव			जिला : सागली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गांव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निमणी		134		00	49	30
			135		00	06	01
			449		00	37	94
			475		00	10	60
			476		00	23	00
			448		00	03	24
			गट नंबर 448 और		00	04	21
			477 के बीच का नाला				
			477		00	10	10
			497		00	14	19
			496		00	17	09
			479		00	13	53
			गट नंबर 479 और				
			493 के बीच का		00	02	73
			अस्फालटेड रस्ता				
			493		00	07	77
			492		00	08	34
			491		00	03	43
			490		00	13	57
			489		00	03	68
			488		00	03	83
			487		00	07	61
			486		00	14	61
			485		00	14	48
			गट नंबर 485 और				
			गाँव सीमा तासगांव के		00	09	38
			बीच में येरला नदी				
कुल :					02	78	64
2	नेहलुनगर		58		00	31	16
			गट नंबर 58 में				
			राज्य मार्ग 75		00	03	75
			64		00	46	70
			63		00	32	56
			66		00	18	22
			67		00	36	10
			गट नंबर 67 और 29		00	01	07
			के बीच का नाला				
			29		00	02	57

तालुका : तासगांव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गांव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	नेहरूनगर (निरंतर)		गट नंबर 29 और 30 के बीच का नाला		00	01	50
			30		00	06	50
			31		00	00	47
			28	2	00	17	41
			28	1	00	21	88
			27		00	11	40
			26		00	09	33
			गट नंबर 26 में का अस्फालटेड रस्ता		00	02	35
			24		00	15	20
			4		00	14	68
			5		00	06	74
कुल :					02	79	59
3	तासगांव	सर्वे नंबर 692 और निमणी गाँव सीमा के बीच में येरला नदी			00	09	41
		692			00	38	02
		968			00	53	72
		961			00	30	34
		704			00	01	23
		693			00	15	46
		694			00	23	00
		695			00	03	50
		698			00	23	98
		629			00	00	47
		687			00	37	30
		686			00	11	85
		642			00	32	88
		643			00	31	34
		644			00	32	79
		646			00	00	02
		622			00	00	25
		621			00	23	41
		620			00	11	26
		619			00	20	94
		618			00	18	88

तालुका : तासगाव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	तासगांव (निरंतर)	सर्वे नंबर 618 और 611 के बीच का मेटल्ड रोड			00	03	54
		611			00	41	37
		612			00	22	26
		सर्वे नंबर 612 और 549 के बीच का अस्फालटेड रस्ता			00	02	31
		549			00	20	88
		545			00	21	45
		सर्वे नंबर 545 में गाड़ी रस्ता			00	00	50
		545			00	10	13
		540			00	32	12
		538			00	17	46
		536			00	40	71
		537			00	41	13
		527			00	34	68
		सर्वे नंबर 527 और 441 के बीच का गाड़ी रस्ता			00	02	51
		442			00	10	60
		441			00	00	05
		437			00	04	09
		438			00	00	14
		440			00	02	69
		439			00	07	81
		447		1	00	24	46
		447		2	00	14	21
		सर्वे नंबर 432 में नाला			00	01	80
		432			00	15	74
		451			00	09	17
		452			00	30	66
		450			00	01	57
		459			00	44	49
		462			00	05	27
		सर्वे नंबर 459 में का गाड़ी रस्ता			00	00	91
		460			00	32	36

तालुका : तासगाव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	तासगांव (निरंतर)	सर्वे नंबर 460 और 394 के बीच में का गाड़ी रस्ता 394 सर्वे नंबर 393 और 394 के बीच में का राज्य मार्ग 10 393 371 392 सर्वे नंबर 392 और 386 के बीच में का गाड़ी रस्ता 388 386 384 382 381 320 320 321 सर्वे नंबर 321 में नाला 315 313 314 सर्वे नंबर 314 और 273 के बीच में का ग्राम रस्ता 273 274 275 276 279 192 सर्वे नंबर 192 में का गाड़ी रस्ता					
					00	03	52
					00	09	31
					00	04	68
					00	21	01
					00	32	70
					00	30	89
					00	03	19
					00	00	24
					00	12	30
					00	09	96
					00	27	17
					00	00	60
				1	00	02	00
				2	00	00	20
					00	46	25
					00	03	41
					00	04	96
					00	27	11
					00	28	59
					00	02	80
					00	15	49
					00	50	24
					00	41	32
					00	43	14
					00	84	03
					00	44	57
					00	00	64

तालुका : तासगाव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	तासगाव (जिरातार)	सर्वे नंबर 192 और 193 के बीच में का राज्य मार्ग नं. 136 193 सर्वे नंबर 193 और 185 के बीच में का ड्रेन 185			00	03	43
					00	07	89
					00	02	44
					00	30	83
कुल :					15	01	90
4	चिंचणी		538		00	22	06
			537		00	26	77
			536		00	06	37
			540		00	00	27
			535		00	04	99
			544		00	17	56
			548		00	15	26
			547		00	38	86
			551		00	37	54
			553		00	01	21
			552		00	30	09
			गट नंबर 314 और 552 और 577 के बीच में रस्ता		00	03	76
			577		00	22	76
			576		00	13	17
			615		00	22	36
			617		00	27	31
			60		00	15	03
			62		00	19	28
			623		00	37	42
			गट नंबर 623 और 658 के बीच में का गाड़ी रस्ता		00	02	75
			658	1	00	53	86
			658	2	00	21	97
			गट नंबर 658/2 और 654 के बीच का अस्फालटेड रस्ता		00	02	79
			654		00	21	94

तालुका : तासगाव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
4	विंचणी		764		00	11	86
			गट नंबर 764 और				
			भैरेवाडी गाँव सीमा के		00	02	52
			बीच में का डेन				
			गट नंबर 863 और				
			भैरेवाडी गाँव सीमा के		00	08	26
			बीच में कापुर नाला				
			863		00	35	83
			849		00	05	12
			850		00	00	12
			864		00	08	89
			गट नंबर 864 और				
			904 के बीच में प्रमुख		00	01	90
			जिला मार्ग 34				
			904		00	02	21
			902		00	19	98
			903		00	02	06
			901		00	09	76
			900		00	00	08
			1002		00	20	55
			1003		00	21	79
			1044		00	08	83
			1043		00	24	97
			1009		00	01	54
			1010		00	07	87
			1042		00	22	89
			1011		00	08	61
			गट नंबर 1011				
			में कनाल		00	01	03
			1020		00	05	92
			1021		00	03	12
			1022		00	09	72
			1025		00	32	49
कुल :					07	36	33
5	भैरेवाडी		गाँव सीमा विंचणी और				
			गट नंबर 227 के बीच		00	03	15
			की भूमि				
			227		00	01	82
			228		00	11	51
			229		00	18	17

तालुका : तासगांव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल			
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	भैरेवाडी (मिरतर)		215		00	11	02	
			214		00	13	49	
			211		00	19	79	
			212		00	31	82	
			गट नंबर 212 और					
			175 के बीच में का			00	01	96
			रस्ता					
			175		00	32	06	
			182		00	08	67	
			173		00	09	42	
			171		00	05	60	
			170		00	04	50	
			174		00	00	10	
			168		00	00	10	
कुल :					01	73	18	
6	सावडे		255		00	26	70	
			254		00	25	27	
			253		00	05	03	
			256		00	13	07	
			257		00	02	70	
			258		00	03	34	
			259		00	05	04	
			260		00	04	04	
			261		00	07	81	
			262		00	03	90	
			263		00	10	01	
			277		00	13	19	
			276		00	02	42	
			278		00	01	92	
			279		00	05	96	
			गट नंबर 279 और					
			280 के बीच में का			00	02	10
			गाडी रस्ता					
			280		00	34	28	
			गट नंबर 280 और			00	04	98
			283 के बीच वाला					
			283		00	28	09	
			282		00	06	51	
			284		00	05	43	
			285		00	03	29	
			286		00	09	22	
			287		00	10	41	
			288		00	09	28	
कुल :					03	33	99	

तालुका : तासगाव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
7	लोढे		36		00	01	80
			गट नंबर 36 और				
			सावई गाँव सीमा के		00	07	20
			बीच में का नाला				
कुल :					00	09	00
8	कौलगे		299		00	00	05
			292		00	10	86
			293		00	03	02
			291		00	08	61
			290		00	08	71
			289		00	02	90
			280		00	14	41
			281		00	10	49
			277		00	04	04
			274		00	05	26
			273		00	04	81
			272		00	01	06
			269		00	00	05
			270		00	11	86
			267		00	06	46
			264		00	06	02
			248		00	00	06
			249		00	04	85
			250		00	14	69
			252		00	01	53
			247	3	00	12	86
			गट नंबर 247/3				
			और 214 के बीच		00	02	48
			का अस्फालटेड रास्ता				
			214		00	02	86
			219		00	02	48
			218		00	02	06
			217		00	03	04
			208		00	02	73
			207		00	03	29
			201	ब	00	16	40
			183		00	16	47
			182		00	01	25
			184		00	23	50
			174		00	06	45
			173		00	08	16
			172		00	06	72

तालुका : तासगाव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
8	कौलगे		171		00	06	40
			146		00	06	17
			147		00	05	16
			148		00	03	54
			149		00	02	31
			150		00	07	46
			151		00	02	31
			152		00	21	57
			153		00	09	80
			108		00	13	97
			49		00	11	34
			50		00	05	61
			51		00	05	44
			52		00	05	71
			53		00	24	67
कुल :					03	61	9
9	वाघापुर		गट नंबर 339 से 366				
			और कौलगे गाँव सीमा के बीच में का नाला		00	06	39
			339 से 366		00	05	38
			गट नंबर 339 से 366				
			और 369 के बीच में का नाला		00	06	44
			369		00	05	45
			370	1	00	17	98
			गट नं. 370/1 में				
			का मेटल्ड रास्ता		00	01	48
			89		00	04	61
			90		00	04	25
			91		00	06	18
			93		00	06	44
			94		00	04	84
			95		00	06	63
			96		00	05	66
			97		00	06	07
			98		00	09	02
			103		00	12	21
			106		00	04	18
			107		00	03	29

तालुका : तासगाव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र					
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल				
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6	7	8		
9	वाघापुर (निरंतर)		108		00	03	84		
			109		00	03	17		
			110		00	03	19		
			111		00	03	14		
			112		00	03	12		
			67		00	03	67		
			66		00	03	36		
			114		00	00	98		
			115		00	02	66		
			116		00	04	61		
			63		00	09	85		
			119		00	02	48		
			120		00	03	30		
			121		00	03	19		
			122		00	02	92		
			123		00	02	17		
			124		00	06	42		
			125		00	04	73		
			126		00	14	89		
			गट नं. 130 में का						
			मेटल्ड रस्ता				00	03	48
			130				00	03	37
			131				00	02	26
			132				00	02	82
			133				00	02	01
			134				00	03	37
			135				00	04	88
			136				00	05	04
			137				00	02	97
			138				00	02	20
			139				00	02	20
			140				00	02	88
			141				00	07	56
			142				00	04	29
			143				00	03	93
			144				00	06	08
			145				00	11	56
					कुल :	02 69	09		
10	खुजगाव		157		00	03	80		
			156		00	06	37		
			155		00	06	43		
			154		00	05	65		
			153		00	06	12		

तालुका : तासगाव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
10	खुजगाव (निरेहर)		152		00	03	11
			151		00	03	55
			150		00	02	93
			149		00	03	09
			148		00	02	93
			147		00	02	53
			146		00	05	29
			141		00	04	57
			180		00	00	49
			184		00	47	59
			186		00	03	19
			गट नं. 180 और 90				
			में का मेटलड रस्ता		00	03	24
			90		00	45	26
			91	ब	00	02	96
			92		00	06	57
			93		00	04	49
			गट नंबर 93 में का				
			नाला		00	01	71
			95		00	26	95
			94		00	29	94
			106		00	38	45
			104		00	10	51
			105		00	15	82
				कुल :	02	93	54
11	बस्तबडे		816		00	36	09
			गट नं. 816 में का				
			मेटलड रस्ता		00	03	57
			812		00	36	44
			810		00	00	22
			773		00	30	26
			774		00	18	75
			763		00	28	85
			762		00	17	10
			757		00	19	44
			758		00	01	61
			759		00	01	75
			760		00	06	75
			756		00	14	85
			785		00	10	30
			786		00	05	95
			787		00	10	70
			788		00	05	35

तालुका : तासगांव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
11	बस्तवडे (निरंतर)		789		00	03	67
			790		00	05	93
			792		00	20	88
कुल :					02	78	46
12	सावळज	290		2	00	30	15
		294			00	27	00
		291			00	45	90
		292			00	62	16
		302			00	43	30
		315			00	27	79
		316		1	00	12	60
		316		2	00	14	22
		316		3	00	13	50
		316		4	00	19	80
	सर्वे नं. 316 में का				00	02	25
	मेटल्ड रूस्ता						
	317				00	23	64
	सर्वे नं. 317 में का				00	05	33
	मेटल्ड रूस्ता						
	सर्वे नंबर 121 और						
	317 के बीच का				00	03	01
	अस्फालटेड रूस्ता						
	122				00	67	73
	120				00	07	17
	121				00	53	83
	सर्वे नंबर 120 और						
	104 के बीच की				00	13	56
	अग्रणी नदी						
	104			5	00	03	52
	104			4	00	18	25
	104			3	00	09	90
	104			2	00	07	65
	सर्वे नं. 104 में का				00	04	15
	गाडी रूस्ता						
	107			4	00	06	30
	107			3	00	00	56
	107			2	00	33	52
	107			1	00	17	66
	108			1	00	06	53
	108			3	00	06	30
	110				00	21	98

तालुका : तासगाव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
12	सावळज (जिस्तार)	सर्वे नंबर 110 और 56 के बीच का अस्फालटेड रोस्ता					
		56			00	02	38
		55			00	04	17
		सर्वे नं. 55 और 12 में का मेटल्ड रोस्ता			00	37	04
		12			00	01	18
		11			00	16	01
		10			00	00	07
		9			00	10	16
		8			00	12	92
		7		1अ+ 2अ	00	13	58
		7		1ब + 2ब	00	05	40
		18			00	13	88
		19			00	18	62
		19		1	00	25	65
		19		2	00	13	50
				3	00	06	90
		सर्वे नंबर 19 और 555 के बीच में प्रमुख जिला मार्ग 34					
		555		2ब	00	04	39
		555		2अ/2	00	15	55
		554		1 अ	00	02	70
		554		3	00	14	19
		532			00	07	57
		533		1अ+4ब+3+5	00	59	07
		533		+6	00	28	80
		533		1ब+2+4अ	00	25	43
		538		12/3+13क+	00	17	02
		538		4/6+5/5	00	19	80
		538		5/3+11+4/5+1	00	35	80
		539		2/5	00	95	11
		544		5/2+2+3+	00	14	31
		540		4/1+6+7+8+1	00	03	25
		541			00	36	23
		542		1+2	00	34	65
		542		3 + 4	00	23	18

तालुका : तासगाव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
12	सावळज (मिरंतर)	543		1	00	10	85
		543		2	00	09	95
		543		3	00	09	59
		543		4	00	10	85
		543		5	00	14	45
		543		6	00	15	28
		543		7	00	13	50
कुल :					13	12	24
13	सिध्देवाडी		808		00	19	80
कुल :					00	19	80
14	डोंगरसोनी		996		00	52	67
			1089		00	12	56
			1088		00	48	92
			1090		00	12	95
			1087		00	12	00
			1086		00	42	67
			1084		00	03	66
			1083		00	23	37
			1082		00	09	64
			1079		00	00	10
			1080		00	22	68
			1078		00	11	06
			1112		00	09	36
			1109		00	02	20
			1110		00	07	22
			1111		00	08	57
			1118		00	00	76
			1106		00	23	19
			1103		00	17	53
			1123		00	00	15
			1124		00	37	09
			1133		00	04	69
			1132		00	06	44
			1130		00	17	87
			1129		00	13	61
			1128		00	20	57
			1170		00	00	05
			1169		00	15	14

तालुका : तासगांव		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
14	डोंगरसोनी		1168		00	12	83
			1166		00	10	80
			1159		00	01	50
			1165		00	21	57
			1164		00	16	70
			1163		00	17	27
			105		00	74	31
			106		00	25	96
			107		00	25	52
			108		00	12	06
			109		00	07	91
			110		00	19	19
			112		00	19	41
			113		00	11	51
			159		00	06	51
			160		00	18	73
			158		00	33	38
			164		00	27	57
			165		00	00	07
			182		00	14	08
			184		00	07	74
			185		00	15	66
			187		00	04	44
			186		00	04	77
			गट नं. 187 में				
			का मेटल्ल रस्ता		00	04	25
			189		00	01	86
			190		00	35	79
कुल :					08	88	11
15	दहिवडी		467		00	22	50
			455		00	11	18
			456		00	22	78
			444		00	06	18
			457		00	15	51
			458		00	12	99
			459		00	00	42

तालुका : तासगाव			जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
15	दहिवडी (निरंजरी)		441		00	13	00
			440		00	10	66
			439		00	11	55
			436		00	00	32
			438		00	21	41
			433		00	08	09
कुल :					01	56	59
16	जरडी		823		00	05	92
कुल :					00	05	92

[फा. सं. आर-31015/26/2004-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 19th October, 2004

S. O. 2677.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Loni to Pakni via Hazarwadi in the State of Maharashtra, an extension pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twentyone days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri M.V.Chitnis, Competent Authority, Mumbai-Pune Pipeline Extension Project (from Loni to Pakni via Hazarwadi), Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Loni Terminal, Kadamwakwasti Village, Haveli Taluka, Pune District, Maharashtra-412 201

SCHEDULE

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIMANI		134		00	49	30
			135		00	06	01
			449		00	37	94
			475		00	10	60
			476		00	23	00
			448		00	03	24
			Nala in between Gat No 448 & 477		00	04	21
			477		00	10	10
			497		00	14	19
			496		00	17	09
			479		00	13	53
			Asphalted Road in between Gat No 479 & 493		00	02	73
			493		00	07	77
			492		00	08	34
			491		00	03	43
			490		00	13	57
			489		00	03	68
			488		00	03	83
			487		00	07	61
			486		00	14	61
			485		00	14	48
			Yerla River in between Gat No 485 & V.B of Tasgaon		00	09	38
		Total :			02	78	64
2	NEHRUNAGAR		58		00	31	16
			SH - 75 in Gat No 58		00	03	75
			64		00	46	70
			63		00	32	56
			66		00	18	22
			67		00	36	10
			Nala in between Gat No 67 & 29		00	01	07
			29		00	02	57

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
2	NEHRUNAGAR (Contd.)		Nala in between Gat No 29 & 30		00	01	50
			30		00	06	50
			31		00	00	47
			28	2	00	17	41
			28	1	00	21	88
			27		00	11	40
			26		00	09	33
			Asphalted Road in Gat No 26		00	02	35
			24		00	15	20
			4		00	14	68
			5		00	06	74
Total :					02	79	59
3	TASGAON		Yerla River in between Survey No 692 & V.B of Nimni		00	09	41
		692			00	38	02
		968			00	53	72
		961			00	30	34
		704			00	01	23
		693			00	15	46
		694			00	23	00
		695			00	03	50
		698			00	23	98
		629			00	00	47
		687			00	37	30
		686			00	11	85
		642			00	32	88
		643			00	31	34
		644			00	32	79
		646			00	00	02
		622			00	00	25
		621			00	23	41
		620			00	11	26
		619			00	20	94
		618			00	18	88

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TASGAON (Contd.)	Metalled Road in between Survey No 618 & 611			00	03	54
		611			00	41	37
		612			00	22	26
		Asphalted Road in between Survey No 612 & 549			00	02	31
		549			00	20	88
		545			00	21	45
		Cart Track in Survey No 545			00	00	50
		545			00	10	13
		540			00	32	12
		538			00	17	46
		536			00	40	71
		537			00	41	13
		527			00	34	68
		Cart Track in between Survey 527 & 441			00	02	51
		442			00	10	60
		441			00	00	05
		437			00	04	09
		438			00	00	14
		440			00	02	69
		439			00	07	81
		447		1	00	24	46
		447		2	00	14	21
		Nala in Survey No 432			00	01	80
		432			00	15	74
		451			00	09	17
		452			00	30	66
		450			00	01	57
		459			00	44	49
		462			00	05	27
		Cart Track in Survey No 459			00	00	91
		460			00	32	36

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TASGAON (Contd.)	Cart Track in between Survey 460 & 394			00	03	52
		394			00	09	31
		SH - 10 in between Survey No 393 & 394			00	04	68
		393			00	21	01
		371			00	32	70
		392			00	30	89
		Cart Track in between Survey No 392 & 386			00	03	19
		388			00	00	24
		386			00	12	30
		384			00	09	96
		382			00	27	17
		381			00	00	60
		320		1	00	02	00
		320		2	00	00	20
		321			00	46	25
		Nala in Survey No 321			00	03	41
		315			00	04	96
		313			00	27	11
		314			00	28	59
		Village Road in between Survey No 314 & 273			00	02	80
		273			00	15	49
		274			00	50	24
		275			00	41	32
		276			00	43	14
		279			00	84	03
		192			00	44	57
		Cart Track in Survey No 192			00	00	64

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TASGAON	SH - 136 in between Survey No 192 & 193			00	03	43
		193			00	07	89
		Drain in between Survey No 193 & 185			00	02	44
		185			00	30	83
Total :					15	01	90
4	CHINCHANI		538		00	22	06
			537		00	26	77
			536		00	06	37
			540		00	00	27
			535		00	04	99
			544		00	17	56
			548		00	15	26
			547		00	38	86
			551		00	37	54
			553		00	01	21
			552		00	30	09
		Metalled Road in between Gat No 552 & 577			00	03	76
		577			00	22	76
		576			00	13	17
		615			00	22	36
		617			00	27	31
		608			00	15	03
		622			00	19	28
		623			00	37	42
		Cart Track in between Gat No 623 & 658			00	02	75
		658		1	00	53	86
		658		2	00	21	97
		Asphalted Road in between Gat No 658/2 & 654			00	02	79
		654			00	21	94

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
4	CHINCHANI (Contd.)		764		00	11	86
			Drain in between 764 & V.B of Bahirewadi Kapur Nala in between V.B of Bahirewadi & Gat No 863		00	02	52
			863		00	08	26
			864		00	35	83
			849		00	05	12
			850		00	00	12
			864		00	08	89
			MDR - 34 in between Gat No 864 & 904		00	01	90
			904		00	02	21
			902		00	19	98
			903		00	02	06
			901		00	09	76
			900		00	00	08
			1002		00	20	55
			1003		00	21	79
			1044		00	08	83
			1043		00	24	97
			1009		00	01	54
			1010		00	07	87
			1042		00	22	89
			1011		00	08	61
			Unlined Canal Gat No 1011		00	01	03
			1020		00	05	92
			1021		00	03	12
			1022		00	09	72
			1025		00	32	49
Total :					07	36	33
5	BAHIREWADI		Area in between V.B.Of Chinchani & Gat No 227		00	03	15
			227		00	01	82
			228		00	11	51
			229		00	18	17

Taluka : TASGAON		District : SANGLI		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BAHIREWADI (Contd.)		215		00	11	02
			214		00	13	49
			211		00	19	79
			212		00	31	82
			Road in between Gat No 212 & 175		00	01	96
			175		00	32	06
			182		00	08	67
			173		00	09	42
			171		00	05	60
			170		00	04	50
			174		00	00	10
			168		00	00	10
Total :					01	73	18
6	SAWARDE		255		00	26	70
			254		00	25	27
			253		00	05	03
			256		00	13	07
			257		00	02	?
			258		00	03	34
			259		00	05	04
			260		00	04	04
			261		00	07	81
			262		00	03	90
			263		00	10	01
			277		00	13	19
			276		00	02	42
			278		00	01	92
			279		00	05	96
			Cart Track in between Gat No 279 & 280		00	02	10
			280		00	34	28
			Nala in between Gat No 280 & 283		00	04	98
			283		00	28	09
			282		00	06	51
			284		00	05	43
			285		00	03	29
			286		00	09	22
			287		00	10	41
			288		00	09	28
Total :					03	33	99

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
7	LODE		36		00	01	80
			Nala in between Gat No 36 & V.B of Sawarde		00	07	20
<i>Total :</i>					00	09	00
8	KAULGE		299		00	00	05
			292		00	10	86
			293		00	03	02
			291		00	08	61
			290		00	08	71
			289		00	02	90
			280		00	14	41
			281		00	10	49
			277		00	04	04
			274		00	05	26
			273		00	04	81
			272		00	01	06
			269		00	00	05
			270		00	11	86
			267		00	06	46
			264		00	06	02
			248		00	00	06
			249		00	04	85
			250		00	14	69
			252		00	01	53
			247	3	00	12	86
			Asphalted Road in between Gat No 247/3 & 214		00	02	48
			214		00	02	86
			219		00	02	48
			218		00	02	06
			217		00	03	04
			208		00	02	73
			207		00	03	29
			201	B	00	16	40
			183		00	16	47
			182		00	01	25
			184		00	23	50
			174		00	06	45
			173		00	08	16
			172		00	06	72

Taluka : TASGAON		District : SANGLI		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
8	KAULGE (Contd.)		171		00	06	40
			146		00	06	17
			147		00	05	16
			148		00	03	54
			149		00	02	31
			150		00	07	46
			151		00	02	31
			152		00	21	57
			153		00	09	80
			108		00	13	97
			49		00	11	34
			50		00	05	61
			51		00	05	44
			52		00	05	71
			53		00	24	67
Total :					03	61	95
9	VAGHAPUR		Nala in between V.B of Kaulge & Gat No 339 to 366		00	06	39
			339 to 366		00	05	38
			Nala in between 339 to 366 & 369		00	06	44
			369		00	05	45
			370	1	00	17	98
			Metalled Road in Gat No 370/1		00	01	48
			89		00	04	61
			90		00	04	25
			91		00	06	18
			93		00	06	44
			94		00	04	84
			95		00	06	63
			96		00	05	66
			97		00	06	07
			98		00	09	02
			103		00	12	21
			106		00	04	18
			107		00	03	29

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA				
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area				
					Hectare	Are	Sq.mt		
1	2	3	4	5	6	7	8		
9	VAGHAPUR (Contd.)		108		00	03	84		
			109		00	03	17		
			110		00	03	19		
			111		00	03	14		
			112		00	03	12		
			67		00	03	67		
			66		00	03	36		
			114		00	00	98		
			115		00	02	66		
			116		00	04	61		
			63		00	09	85		
			119		00	02	48		
			120		00	03	30		
			121		00	03	19		
			122		00	02	92		
			123		00	02	17		
			124		00	06	42		
			125		00	04	73		
			126		00	14	89		
			Metalled Road in Gat No 130				00	03	48
				130		00	03	37	
				131		00	02	26	
				132		00	02	82	
				133		00	02	01	
				134		00	03	37	
				135		00	04	88	
				136		00	05	04	
				137		00	02	97	
				138		00	02	20	
				139		00	02	20	
				140		00	02	88	
				141		00	07	56	
				142		00	04	29	
				143		00	03	93	
				144		00	06	08	
				145		00	11	56	
		Total :					02	69	09
10	KHUJGAON		157		00	03	80		
			156		00	06	37		
			155		00	06	43		
			154		00	05	65		
			153		00	06	12		

Taluka : TASGAON		District : SANGLI			State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
10	KHUJGAON (Contd.)		152		00	03	11
			151		00	03	55
			150		00	02	93
			149		00	03	09
			148		00	02	93
			147		00	02	53
			146		00	05	29
			141		00	04	57
			180		00	00	49
			184		00	47	59
			186		00	03	19
			Metalled Road in between Gat No 186 & 90		00	03	24
			90		00	45	26
			91	B	00	02	96
			92		00	06	57
			93		00	04	49
			Nala in Gat No 93		00	01	71
			95		00	26	95
			94		00	29	94
			106		00	38	45
			104		00	10	51
			105		00	15	82
Total :					02	93	54
11	BASTAWADE		816		00	36	09
			Metalled Road in Gat No 816		00	03	57
			812		00	36	44
			810		00	00	22
			773		00	30	26
			774		00	18	75
			763		00	28	85
			762		00	17	10
			757		00	19	44
			758		00	01	61
			759		00	01	75
			760		00	06	75
			756		00	14	85
			785		00	10	30
			786		00	05	95
			787		00	10	70
			788		00	05	35

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
11	BASTAWADE (Contd.)		789		00	03	67
			790		00	05	93
			792		00	20	88
Total :					02	78	46
12	SAWLAJ	290		2	00	30	15
		294			00	27	00
		291			00	45	90
		292			00	62	16
		302			00	43	30
		315			00	27	79
		316		1	00	12	60
		316		2	00	14	22
		316		3	00	13	50
		316		4	00	19	80
		Metalled Road in Survey No 316			00	02	25
		317			00	23	64
		Metalled Road in Survey No 317			00	05	33
		Asphalted Road in between Survey No 121 & 317			00	03	01
		122			00	67	73
		120			00	07	17
		121			00	53	83
		Agran Nadi in between Survey No 120 & 104			00	13	56
		104		5	00	03	52
		104		4	00	18	25
		104		3	00	09	90
		104		2	00	07	65
		Cart Track in Survey No 104			00	04	15
		107		4	00	06	30
		107		3	00	00	56
		107		2	00	33	52
		107		1	00	17	66
		108		1	00	06	53
		108		3	00	06	30
		110			00	21	98

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
12	SAWLAJ (Contd.)	Asphalted Road in between Survey No 110 & 56			00	02	38
		56			00	04	17
		55			00	37	04
		Metalled Road in between Survey No 55 & 12			00	01	18
		12			00	16	01
		11			00	00	07
		10			00	10	16
		9			00	12	92
		8			00	13	58
		7		1A+2A	00	05	40
		7		1B+2B	00	13	88
		18			00	18	62
		19		1	00	25	65
		19		2	00	13	50
		19		3	00	06	90
		MDR - 34 in between Survey No 19 & 555			00	04	39
		555		2B	00	15	55
		555		2A/2	00	02	70
		554		1A	00	14	19
		554		3	00	07	57
		532			00	59	07
		533		1A+4B+3+5+6	00	28	80
		533		1B+2+4A	00	25	43
		538		12/3+13B+4/ 6+5/5	00	17	02
		538		5/3+11+4/5+ 12/5	00	19	80
		538		5/2+2+3+4/1 +6+7+8+1	00	35	80
		539			00	95	11
		544			00	14	31
		540			00	03	25
		541			00	36	23
		542		1+2	00	34	65
		542		3+4	00	23	18

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
12	SAWLAI	543		1	00	10	85
		543		2	00	09	95
		543		3	00	09	59
		543		4	00	10	85
		543		5	00	14	45
		543		6	00	15	28
		543		7	00	13	50
Total:					13	12	24
13	SIDHEVADI		808		00	19	80
Total:					00	19	80
14	DONGAR SONI		996		00	52	67
			1089		00	12	56
			1088		00	48	92
			1090		00	12	95
			1087		00	12	00
			1086		00	42	67
			1084		00	03	66
			1083		00	23	37
			1082		00	09	64
			1079		00	00	10
			1080		00	22	68
			1078		00	11	06
			1112		00	09	36
			1109		00	02	20
			1110		00	07	22
			1111		00	08	57
			1118		00	00	76
			1106		00	23	19
			1103		00	17	53
			1123		00	00	15
			1124		00	37	09
			1133		00	04	69
			1132		00	06	44
			1130		00	17	87
			1129		00	13	61
			1128		00	20	57
			1170		00	00	05
			1169		00	15	14

Taluka : TASGAON		District : SANGLI		State : MAHARASHTRA				
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area			
					Hectare	Are	Sq.mt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
14	DONGAR SONI (Contd.)		1168		00	12	83	
			1166		00	10	80	
			1159		00	01	50	
			1165		00	21	57	
			1164		00	16	70	
			1163		00	17	27	
			105		00	74	31	
			106		00	25	96	
			107		00	25	52	
			108		00	12	06	
			109		00	07	91	
			110		00	19	19	
			112		00	19	41	
			113		00	11	51	
			159		00	06	51	
			160		00	18	73	
			158		00	33	38	
			164		00	27	57	
			165		00	00	07	
			182		00	14	08	
			184		00	07	74	
			185		00	15	66	
			187		00	04	44	
			186		00	04	77	
			Metalled Road in Gat No 187			00	04	25
				189		00	01	86
				190		00	35	79
Total :					08	88	11	
15	DAHIVADI		467		00	22	50	
			455		00	11	18	
			456		00	22	78	
			444		00	06	18	
			457		00	15	51	
			458		00	12	99	
			459		00	00	42	

Taluka : TASGAON			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
15	DAHIVADI (Contd.)		441		00	13	00
			440		00	10	66
			439		00	11	55
			436		00	00	32
			438		00	21	41
			433		00	08	09
Total :					01	56	59
16	JARANDI		823		00	05	92
Total :					00	05	92

[No. R-31015/26/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2678.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में लोनी से पकनी तक हजारवाडी के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री. एम. वी. चिटनिस,

सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-पुणे पाइपलाइन विस्तार परियोजना (लोनी से पकनी तक हजारवाडी के रास्ते), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोनी - टर्मिनल, कदमवाक वस्ती गाँव, हवेली तालुका, पुणे जिला, महाराष्ट्र - 412 201 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंधली		गट नंबर 735 और				
			गाँव सीमा के बीच		00	11	41
			में येरला नदी				
			735		00	36	33
			736		00	00	07
			738		00	16	01
			739		00	07	64
			740		00	00	10
			716		00	10	11
			741		00	08	52
			742		00	16	69
			745		00	00	74
			715		00	25	94
			714		00	08	70
			749		00	00	81
			711		00	54	03
			710		00	10	54
			709		00	20	27
			708		00	07	77
			गट नंबर 708 और				
			685 के बीच का		00	04	64
			रास्ता				
			685		00	06	17
			686		00	31	20
			687		00	03	92
			688	2	00	37	22
			655		00	05	20
			690		00	37	06
			652		00	20	41
			651		00	16	32
			635		00	38	29
			636		00	05	15
			584		00	07	08
			585		00	14	74
			579		00	01	17
			गट नंबर 579 और				
			577 के बीच का		00	02	11
			गाड़ी रास्ता				

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंधली (निरंतर)		577		00	17	88
			578		00	07	52
			327		00	00	01
			328		00	29	03
			329		00	47	36
			गट नंबर 329 में				
			रास्ता		00	03	27
			गट नंबर 328 में				
			रास्ता		00	00	48
			330		00	00	32
			290		00	25	57
			289		00	32	60
			288		00	08	37
			गट नंबर 288 और				
			115 के बीच का		00	05	02
			गाड़ी रास्ता				
			115		00	20	28
			122		00	05	78
			116		00	26	97
			119		00	15	83
			121		00	28	62
			218		00	11	47
			217		00	28	93
			215		00	37	00
			214	1	00	09	87
			214	2	00	27	17
			213	1	00	11	70
			213	2	00	00	66
			181		00	11	50
			182		00	32	53
			208		00	10	82
			207		00	26	49
			गट नंबर 207 में				
			रास्ता		00	01	39
			184		00	23	17
			189		00	01	30
			185		00	01	17
			188		00	32	63
कुल :					10	09	07

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	मोराले		241		00	21	24
			240		00	07	20
			229		00	32	88
			239		00	03	60
			238		00	05	76
			237		00	04	32
			236		00	04	32
			235		00	03	60
			234		00	07	20
			233		00	05	04
			231		00	07	20
			230		00	05	76
कुल :					01	08	12
3	बांबवडे		1031		00	25	22
			1032		00	17	04
			1036		00	52	90
			1037		00	23	04
			1042		00	00	02
			1041		00	11	23
			1039		00	01	48
			1040		00	24	46
			1039		00	18	28
			गट नंबर 1040 और				
			1017 के बीच का प्रमुख		00	08	61
			जिला मार्ग 19				
			1017		00	07	33
			1016		00	13	64
			1014		00	06	63
			1002		00	03	88
			1001		00	02	24
			998		00	03	46
			999		00	00	15
			997		00	02	02
			996		00	03	32
			995		00	03	89
			994		00	05	10
			983		00	05	49
			1296		00	05	95
			984		00	07	51

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	बांबवडे (निरंतर)		986		00	08	93
			952		00	17	38
			951		00	01	96
			गट नंबर 951 में				
			नाला		00	01	59
			950		00	03	13
			949		00	12	08
			948		00	06	22
			947		00	07	30
			946		00	17	24
			गट नंबर 946 और				
			926 के बीच का		00	03	23
			गाड़ी रास्ता				
			926		00	06	71
			925		00	04	30
			924		00	01	93
			923		00	01	18
			922		00	02	53
			921		00	02	57
			920		00	02	41
			914		00	05	67
			913		00	02	89
			910	क	00	30	64
			811		00	12	87
			815		00	14	81
			गट नंबर 815 और				
			816 के बीच का		00	02	04
			गाड़ी रास्ता				
			816		00	06	78
			817		00	10	35
			819		00	04	50
			803		00	16	20
			800		00	01	57
			802		00	02	25
			801		00	01	35
			795		00	05	40
			796		00	06	12
			1291		00	06	11
			790		00	06	07

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	बांबवडे (निरंतर)		789		00	07	10
			761		00	16	65
			गट नंबर 761 में				
			राज्य मार्ग नंबर 75		00	03	15
			758		00	06	75
			756		00	04	50
			755		00	03	82
			754		00	13	50
			740		00	27	36
			739		00	10	42
			737		00	24	14
			735		00	10	39
			734		00	05	79
			733		00	05	41
			731		00	01	27
			730		00	02	25
			729		00	02	06
			573		00	04	00
			गट नंबर 573 और				
			502 के बीच का नाला		00	02	86
			502		00	04	42
			501		00	07	89
			500		00	05	48
			499		00	05	82
			498		00	14	31
			494		00	00	17
			495		00	04	98
			498		00	02	81
			496		00	02	92
			497		00	04	61
			1289		00	09	78
			513		00	15	91
			514		00	05	07
			515		00	06	81
			516		00	05	41
			517		00	04	57
			518		00	02	07
			गट नंबर 518 और				
			422 के बीच का रास्ता		00	04	07
			422		00	04	16
			421		00	05	75
			420		00	03	65

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	बांबवडे (जिराह)		419		00	01	15
			417		00	05	68
			416		00	02	25
			424		00	06	90
			425		00	02	46
			426		00	02	20
			427		00	00	49
			428		00	00	05
			405		00	14	02
			391		00	02	23
			408		00	16	64
			412		00	00	87
			409		00	13	56
			410		00	06	50
			407		00	00	01
			999		00	10	15
कुल :					08	46	44
4	येळावी		1598		00	02	76
			1599		00	00	13
			1600		00	09	22
			1607		00	04	02
			1606		00	04	37
			1604		00	10	84
			1603		00	04	85
			1646		00	09	94
			1645		00	16	22
			1644		00	14	01
			1643	अ	00	11	98
			1675		00	06	14
			1688		00	32	63
			1640		00	00	40
			1692		00	13	95
			1693		00	19	82
	1710		00	00	70		

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
4	येळवी (निरंतर)		1709		00	32	26
			1708		00	11	73
			1707		00	00	53
			1733		00	40	01
			गट नंबर 1733 और				
			1946 के बीच का				00 01 81
			अस्फालटेड रास्ता				
			1946		00	27	50
			1953		00	04	14
			1952		00	13	14
			1946		00	06	93
			1950		00	04	87
			1949		00	08	02
			1969		00	06	17
			1968		00	11	00
			1967		00	09	02
			1966		00	01	20
			1973		00	65	03
			1975		00	08	52
			1978		00	14	68
			1977		00	03	48
			1980		00	05	81
			1981		00	06	81
			2056		00	05	74
			2057		00	11	91
			गट नंबर 2057 और				
			2060 के बीच का				00 03 07
			अस्फालटेड रास्ता				
			2059		00	00	01
			2060		00	03	65
			2061		00	09	50
			गट नंबर 2061 और				
			2063 के बीच का				00 02 38
			गाड़ी रास्ता				
			2063		00	12	17
			2064		00	00	97
			2065		00	06	31

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
4	येळावी (निरंतर)		2066		00	05	85
			2047		00	11	63
			2046		00	10	33
			2044		00	05	36
			2042		00	05	88
			2041		00	02	64
			2235		00	03	23
			2236		00	06	24
			2260		00	21	71
			2256		00	11	91
			2258		00	14	12
			गट नंबर 2258 और				
			29 के बीच का		00	02	51
			अस्फालटेड रास्ता				
			29		00	13	69
			27		00	18	59
			28		00	02	75
			30		00	06	88
			20		00	08	52
			34		00	22	83
			गट नंबर 34 में				
			रास्ता		00	02	52
			18		00	10	45
			35		00	03	28
			36		00	13	49
			37		00	19	91
			14		00	00	13
			38		00	12	28
			गट नंबर 39 में				
			अस्फालटेड रास्ता		00	00	43
			गट नंबर 40 में				
			अस्फालटेड रास्ता		00	04	17
			40		00	00	84
			गट नंबर 41 में				
			अस्फालटेड रास्ता		00	00	08
			41		00	02	61
			42		00	02	80
			43		00	03	55

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
4	येळावी (मिरांतर)		44		00	02	70
			45		00	06	15
			46		00	06	45
			57		00	39	49
			55		00	34	07
			291		00	81	41
			290		00	05	02
			गट नंबर 290 और 285 के बीच का रास्ता		00	02	57
			285		00	41	17
			284		00	09	01
			283		00	05	48
			282		00	04	63
			281		00	05	23
			280		00	05	14
			279		00	09	08
			278		00	03	07
			277		00	03	52
			276		00	03	44
			275		00	04	04
			274		00	06	64
			273		00	02	85
			272		00	02	80
			271		00	03	19
			270		00	02	64
			266		00	04	82
			265		00	05	82
			264		00	10	55
			263		00	05	63
			262		00	06	55
			261		00	08	80
			260		00	08	79
			259		00	09	56
			258		00	10	26
			256		00	09	70
			257		00	09	84
			गट नंबर 257 में गाड़ी रास्ता		00	00	39
कुल :					11	33	36
5	हजारवाडी		5		00	17	96
			6		00	49	24

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
5	हजारवाडी (मिहिर)		गट नंबर 6 में मेटल्ड रास्ता		00	01	78
			8		00	38	52
			28		00	25	50
			27		00	10	17
			गट नंबर 27 और 129 के बीच का राज्य मार्ग 136		00	02	39
			129		00	10	02
			128		00	09	29
			132		00	09	11
			134		00	10	63
			135		00	06	79
			136		00	03	25
			137		00	05	45
			141		00	00	50
			गट नंबर 141 और 137 के बीच का नाला		00	01	65
			137		00	07	39
			136		00	03	61
			135		00	09	31
			134		00	21	86
			133		00	18	38
			128		00	00	41
			गट नंबर 125 में का नाला		00	04	27
			125		00	09	96
			123		00	09	97
			121		00	09	12
			120		00	03	26
			गट नंबर 120 और 119 के बीच का राज्य मार्ग 136		00	02	70
			119	अ	00	42	30
			116		00	00	71
			115	अ	00	36	36

तालूका : पलुस		जिला : सांगली		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
5	हजारवाडी (निरंतर)		115	ब	00	07	18
			गट नंबर 115/ब में मेटल्ड रास्ता		00	02	82
			गट नंबर 114 में मेटल्ड रास्ता		00	00	16
			64		00	07	80
			65		00	08	75
			80		00	48	82
			81		00	14	22
			82		00	07	02
			83		00	08	48
कुल :					04	86	90
6	वसगडे		153		00	51	23
कुल :					00	51	23

[फ़. सं. आर-31015/27/2004-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 19th October, 2004

S. O. 2678.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Loni to Pakni via Hazarwadi in the State of Maharashtra, an extension pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twentyone days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline

under the land to Shri M.V.Chitnis, Competent Authority, Mumbai-Pune Pipeline Extension Project (from Loni to Pakni via Hazarwadi), Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Loni Terminal, Kadamwakwasti Village, Haveli Taluka, Pune District, Maharashtra-412 201

SCHEDULE

Taluka : PALUS		District : SANGLI			State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANDHALI		Yerla River in between Gat No 735 & V.B		00	11	41
			735		00	36	33
			736		00	00	07
			738		00	16	01
			739		00	07	64
			740		00	00	10
			716		00	10	11
			741		00	08	52
			742		00	16	69
			745		00	00	74
			715		00	25	94
			714		00	08	70
			749		00	00	81
			711		00	54	03
			710		00	10	54
			709		00	20	27
			708		00	07	77
			Metalled Road in between Gat No 708 & 685		00	04	64
			685		00	06	17
			686		00	31	20
			687		00	03	92
			688	2	00	37	22
			655		00	05	20
			690		00	37	06
			652		00	20	41
			651		00	16	32
			635		00	38	29
			636		00	05	15
			584		00	07	08
			585		00	14	74
			579		00	01	17
			Cart Track in between Gat No 579 & 577		00	02	11

Taluka : PALUS			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANDHALI (Contd.)		577		00	17	88
			578		00	07	52
			327		00	00	01
			328		00	29	03
			329		00	47	36
			Metalled Road in Gat No 329		00	03	27
			Metalled Road in Gat No 328		00	00	48
			330		00	00	32
			290		00	25	57
			289		00	32	60
			288		00	08	37
			Cart Track in between Gat No 288 & 115		00	05	02
			115		00	20	28
			122		00	05	78
			116		00	26	97
			119		00	15	83
			121		00	28	62
			218		00	11	47
			217		00	28	93
			215		00	37	00
			214	1	00	09	87
			214	2	00	27	17
			213	1	00	11	70
			213	2	00	00	66
			181		00	11	50
			182		00	32	53
			208		00	10	82
			207		00	26	49
			Metalled Road in Gat No 207		00	01	39
			184		00	23	17
			189		00	01	30
			185		00	01	17
			188		00	32	63
Total:					10	09	07

Taluka : PALUS			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
2	MORALE		241		00	21	24
			240		00	07	20
			229		00	32	88
			239		00	03	60
			238		00	05	76
			237		00	04	32
			236		00	04	32
			235		00	03	60
			234		00	07	20
			233		00	05	04
			231		00	07	20
			230		00	05	76
		Total :					01
3	BAMBAVADE		1031		00	25	22
			1032		00	17	04
			1036		00	52	90
			1037		00	23	04
			1042		00	00	02
			1041		00	11	23
			1039		00	01	48
			1040		00	24	46
			1039		00	18	28
			MDR - 19 in between Gat No. 1040 & 1017		00	08	61
			1017		00	07	33
			1016		00	13	64
			1014		00	06	63
			1002		00	03	88
			1001		00	02	24
			998		00	03	46
			999		00	00	15
			997		00	02	02
			996		00	03	32
			995		00	03	89
			994		00	05	10
			983		00	05	49
			1296		00	05	95
			984		00	07	51

Taluka : PALUS			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq. mt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	BAMBAVADE (Contd.)		986		00	08	93
			952		00	17	38
			951		00	01	96
			Nala in Gat No. 951		00	01	59
			950		00	03	13
			949		00	12	08
			948		00	06	22
			947		00	07	30
			946		00	17	24
			Cart Track in between Gat No 946 & 926		00	03	23
			926		00	06	71
			925		00	04	30
			924		00	01	93
			923		00	01	18
			922		00	02	53
			921		00	02	57
			920		00	02	41
			914		00	05	67
			913		00	02	89
			910	C	00	30	64
			811		00	12	87
			815		00	14	81
			Cart Track in between Gat No 815 & 816		00	02	04
			816		00	06	78
			817		00	10	35
			819		00	04	50
			803		00	16	20
			800		00	01	57
			802		00	02	25
			801		00	01	35
			795		00	05	40
			796		00	06	12
			1291		00	06	11
			790		00	06	07

Taluka : PALUS			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	BAMBAVADE (Contd.)		789		00	07	10
			761		00	16	65
			SH - 75 in Gat No 761		00	03	15
			758		00	06	75
			756		00	04	50
			755		00	03	82
			754		00	13	50
			740		00	27	36
			739		00	10	42
			737		00	24	14
			735		00	10	39
			734		00	05	79
			733		00	05	41
			731		00	01	27
			730		00	02	25
			729		00	02	06
			573		00	04	00
			Nala in between Gat No. 573 & 502		00	02	86
			502		00	04	42
			501		00	07	89
			500		00	05	48
			499		00	05	82
			498		00	14	31
			494		00	00	17
			495		00	04	98
			498		00	02	81
			496		00	02	92
			497		00	04	61
			1289		00	09	78
			513		00	15	91
			514		00	05	07
			515		00	06	81
			516		00	05	41
			517		00	04	57
			518		00	02	07
			Asphalted Road in between Gat No 518 & 422		00	04	07
			422		00	04	16
			421		00	05	75
			420		00	03	65

Taluka : PALUS		District : SANGLI		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	BAMBAVADE (Contd.)		419		00	01	15
			417		00	05	68
			416		00	02	25
			424		00	06	90
			425		00	02	46
			426		00	02	20
			427		00	00	49
			428		00	00	05
			405		00	14	02
			391		00	02	23
			408		00	16	64
			412		00	00	87
			409		00	13	56
			410		00	06	50
			407		00	00	01
			999		00	10	15
Total :					03	46	44
4	YELAVI		1598		00	02	76
			1599		00	00	13
			1600		00	09	22
			1607		00	04	02
			1606		00	04	37
			1604		00	10	84
			1603		00	04	85
			1646		00	09	94
			1645		00	16	22
			1644		00	14	01
			1643	A	00	11	98
			1675		00	06	14
			1688		00	32	63
			1640		00	00	40
			1692		00	13	95
			1693		00	19	82
	1710		00	00	70		

Taluka : PALUS		District : SANGLI			State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
4	YELAVI		1709		00	32	26
	(Contd.)		1708		00	11	73
			1707		00	00	53
			1733		00	40	01
			Asphalted Road in between Gat No 1733 & 1946		00	01	81
			1946		00	27	50
			1953		00	04	14
			1952		00	13	14
			1946		00	06	93
			1950		00	04	87
			1949		00	08	02
			1969		00	06	17
			1968		00	11	00
			1967		00	09	92
			1966		00	01	20
			1973		00	65	03
			1975		00	08	52
			1978		00	14	68
			1977		00	03	48
			1980		00	05	81
			1981		00	06	81
			2056		00	05	74
			2057		00	11	91
			Asphalted Road in between Gat No 2057 & 2060		00	03	07
			2059		00	00	01
			2060		00	03	65
			2061		00	09	50
			Cart Track in between Gat No 2061 & 2063		00	02	38
			2063		00	12	17
			2064		00	00	97
			2065		00	06	31

Taluka : PALUS			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
4	YELAVI (Contd.)		2066		00	05	85
			2047		00	11	63
			2046		00	10	33
			2044		00	05	36
			2042		00	05	88
			2041		00	02	64
			2235		00	03	23
			2236		00	06	24
			2260		00	21	71
			2256		00	11	91
			2258		00	14	12
			Metalled Road in between Gat No 2258 & 29		00	02	51
			29		00	13	69
			27		00	18	59
			28		00	02	75
			30		00	06	88
			20		00	08	52
			34		00	22	83
			Mud Road in Gat No 34		00	02	52
			18		00	10	45
			35		00	03	28
			36		00	13	49
			37		00	19	91
			14		00	00	13
			38		00	12	28
			Asphalted Road in Gat No 39		00	00	43
			Asphalted Road in Gat No 40		00	04	17
			40		00	00	84
			Asphalted Road in Gat No 41		00	00	08
			41		00	02	61
			42		00	02	80
			43		00	03	55

Taluka : PALUS		District : SANGLI			State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
4	YELAVI		44		00	02	70
	(Contd.)		45		00	06	15
			46		00	06	45
			57		00	39	49
			55		00	34	07
			291		00	81	41
			290		00	05	02
			Road in between Gat No 290 & 285		00	02	57
			285		00	41	17
			284		00	09	01
			283		00	05	48
			282		00	04	63
			281		00	05	23
			280		00	05	14
			279		00	09	08
			278		00	03	07
			277		00	03	92
			276		00	03	44
			275		00	04	04
			274		00	06	64
			273		00	02	85
			272		00	02	80
			271		00	03	19
			270		00	02	64
			266		00	04	82
			265		00	05	82
			264		00	10	55
			263		00	05	63
			262		00	06	55
			261		00	08	80
			260		00	08	79
			259		00	09	56
			258		00	10	26
			256		00	09	70
			257		00	09	84
			Cart Track in Gat No 257		00	00	39
Total :					11	33	36
5	HAZARWADI		5		00	17	96
			6		00	49	24

Taluka : PALUS		District : SANGLI			State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
5	HAZARWADI (Contd.)		Metalled Road in Gat No 6		00	01	78
			8		00	38	52
			28		00	25	50
			27		00	10	17
			SH - 136 in between Gat No 27 & 129		00	02	39
			129		00	10	02
			128		00	09	29
			132		00	09	31
			134		00	10	63
			135		00	06	79
			136		00	03	25
			137		00	05	45
			141		00	00	50
			Nala in between Gat No.141 & 137		00	01	65
			137		00	07	39
			136		00	03	61
			135		00	09	31
			134		00	21	86
			133		00	18	38
			128		00	00	41
			Nala in Gat No. 125		00	04	27
			125		00	09	96
			123		00	09	97
			121		00	09	12
			120		00	03	26
			SH - 136 in between Gat No 120 & 119		00	02	70
			119	A	00	42	30
			116		00	00	71
			115	A	00	36	36

Taluka : PALUS			District : SANGLI		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Acre	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
5	HAZARWADI		115	B	00	07	18
			Metalled Road in Gat No 115/B		00	02	82
			Metalled Road in Gat No 114		00	00	16
			64		00	07	80
			65		00	08	75
			80		00	48	82
			81		00	14	22
			82		00	07	02
			83		00	08	48
Total :					04	86	90
6	VASAGDE		153		00	51	23
Total :					00	51	23

[No. R-31015/27/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2679.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में लोनी से पकनी तक हज़ारवाडी के रास्ते पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री. एम. वी. चिटनिस, सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई-पुणे पाइपलाइन विस्तार परियोजना (लोनी से पकनी तक हज़ारवाडी के रास्ते), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लोनी - टर्मिनल, कदमवाक वस्ती गाँव, हवेली तालुका, पुणे जिला, महाराष्ट्र - 412 201 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुका : हवेली		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एकर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कदमवाकवस्ती		173		00	00	50
			174		00	00	64
			गट नंबर 173 और				
			252 के बीच में		00	06	31
			राष्ट्रीय मार्ग नं. 9				
			252		00	41	40
			गट नंबर 252 और				
			821 के बीच में		00	05	89
			मेछळ रास्ता				
			821		00	11	70
			820		00	12	88
			819		00	07	74
			818		00	05	40
			817		00	03	60
			816		00	00	10
			804		00	05	57
			810		00	04	50
			808		00	09	45
			808		00	02	35
			807		00	11	70
			768		00	08	69
			764		00	00	11
			769		00	04	92
			771		00	05	65
			772		00	07	55
			773		00	02	71
			849		00	12	60
			760		00	19	84
			758		00	16	20
			615		00	09	00
			614		00	08	80
			613		00	06	33
			606		00	06	55
			605		00	06	46
			602		00	09	40
			599		00	13	50
			598		00	05	06
			597		00	12	40
			590		00	06	30
कुल :					02	91	80

तालुका : हवेली			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8

2 लोनी कालभोर

गट नंबर 2314 और

गाँव सीमा

कदमवाकवस्ती के बीच

में मेटल्ड रास्ता

2314

2315

2316

2317

2320

2339

2335

2336

2338

गट नंबर 2338

और 1747/26 के

बीच में नाला

नाला और गट नंबर

1747/26 के बीच

में अस्फालटेड रास्ता

1747

1789

1789

1789

1789

1789

1747

1747

1790

1747

1791

गट नंबर 1791 के

पास में

अस्फालटेड रास्ता

गट नंबर 1699 का

अस्फालटेड रास्ता

1699

1696

1694

00 05 46

00 08 61

00 02 25

00 02 88

00 00 26

00 16 31

00 02 01

00 08 47

00 15 76

00 05 05

00 03 36

00 03 34

26 00 32 55

1 00 04 27

2 00 04 52

3 00 05 30

4 00 03 58

5 00 06 06

27 00 16 63

28 00 06 79

00 04 58

29 00 09 29

00 04 98

00 00 98

00 00 82

00 02 03

00 10 54

00 11 68

तालुका : हवेली		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र			
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	लोनी कालभोर (निरंतर)		1693		00	40	08
			गट नंबर 1693 और 1529 के बीच का गाड़ी रास्ता		00	07	68
			1529		00	05	68
			1530		00	01	27
			1528		00	02	87
			1527		00	01	91
			गट नंबर 1527 और 1525 के बीच की भूमि		00	01	93
			गट नंबर 1527 और 1525 के बीच की भूमि		00	01	62
			गट नंबर 1527 और 1525 के बीच की भूमि		00	01	51
			1525		00	01	88
			1518		00	02	03
			1517		00	02	46
			1516		00	15	20
			1513		00	11	06
			1532		00	09	56
			1504		00	01	46
			1503		00	01	30
			1506		00	01	17
			1505		00	00	25
			1502		00	07	40
			1500		00	04	22
			1499		00	04	58
			1498		00	01	23
			1497		00	03	48
			1496		00	03	04
			1494		00	06	82
			गट नंबर 1494 और 1487 के बीच की भूमि		00	04	92
			1487	ब	00	07	15

तालुका : हवेली			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	लोनी कालभोर (निरंतर)		1484		00	04	50
			1482		00	05	72
			1480		00	02	01
			1476		00	03	24
			1475		00	02	38
			1474		00	03	10
			1473		00	02	39
			1472		00	04	59
			1471		00	01	50
			1470		00	10	50
			गट नंबर 1470 और				
			1464 के बीच		00	02	54
			की भूमि				
			गट नंबर 1470 और				
			1464 के बीच		00	01	38
			की भूमि				
			1464		00	03	23
			1463		00	03	42
			गट नंबर 1463				
			और 1454 के		00	02	04
			बीच की भूमि				
			1454		00	03	77
			1452		00	03	42
			1451		00	03	65
			1449		00	06	41
			1431		00	05	58
			1430		00	03	91
			1429		00	00	63
			1428		00	03	20
			1427		00	03	18
			1426		00	03	08
			1420		00	02	67
			गट नंबर 1420 और				
			1411 के बीच		00	02	24
			की भूमि				
			1411		00	01	67
			1410		00	06	20

तालुका : हवेली			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	लोनी कालभोर		1400		00	03	97
	(जिरत)		1401		00	00	62
			गट नंबर 1401 और				
			1409 के बीच		00	09	89
			का निकामी कनाल				
			1409		00	06	91
			1407		00	03	43
			1406		00	04	85
			1405		00	08	83
			1202		00	12	47
			गट नंबर 1202 और				
			1198 के बीच की		00	25	81
			कनाल				
			1198		00	14	01
			1197		00	07	07
			1196		00	07	48
			1194		00	06	73
			1192		00	06	73
			1191		00	04	68
			1190		00	04	65
			1188		00	04	20
			1187		00	04	89
			1186		00	05	01
			1184		00	04	41
			1180		00	07	02
			1178		00	06	03
			1177		00	06	47
			1176		00	05	31
			1175		00	04	14
			1173		00	03	88
			1169		00	03	47
			1168		00	07	86
			1167		00	00	85
			1166		00	01	30
			1165		00	05	72
			1164		00	07	15
			1163		00	32	88
			गट नंबर 1163				
			रेलवे		00	04	49
			में लाईन				

तालुका : हवेली			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
2	लोमी कालभोर (भिरतर)		1162		00	42	46
			1060		00	04	78
			1059		00	13	34
			1058		00	06	16
			1057		00	05	18
			1056		00	08	66
			1055		00	05	71
			1054		00	05	13
			गट नंबर 1054				
			में नाला		00	01	18
			गट नंबर 1053				
			में नाला		00	07	94
			1053		00	06	12
			1052		00	32	31
			1072		00	04	35
			1071		00	01	15
			1162		01	21	04
			कुल :		09	63	01
3	आळंदी म्हातोबाची		1188		00	02	70
			1187		00	00	75
			1124		00	59	65
			1125		00	44	19
			1123		00	28	41
			1122		00	29	21
			1147		00	11	52
			1120		00	12	64
			1100		00	15	07
			1094		00	09	01
			1091		00	17	79
			1092		00	00	02
			1090		00	22	14
			1089		00	27	16
			गट नंबर 1089 और				
			1084 के बीच में		00	02	13
			मेटल्ड रास्ता				
			1084		00	23	46
			1066		00	11	18
			1065		00	26	43

तालुका : हवेली			जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे नंबर	गट नंबर	उप-खण्ड सं	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
3	आळंदी म्हातोबाची (निंतर)		1026 1054 1055		00 00 00	83 13 21	22 93 87
			गट नंबर 1055 और 938 के बीच में रेल्वे लाईन		00	08	35
			938 843 937		00 01 00	16 40 93	86 79 77
कुल :					07	22	25

[फा. सं. आर-31015/24/2004-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अपर सचिव

New Delhi, the 19th October, 2004

S.O. 2679.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Loni to Pakni via Hazarwadi in the State of Maharashtra, an extension pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twentyone days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri M.V.Chitnis, Competent Authority, Mumbai-Pune Pipeline Extension Project (from Loni to Pakni via Hazarwadi), Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Loni Terminal, Kadamwakwasti Village, Haveli Taluka, Pune District, Maharashtra-412 201

SCHEDULE

Taluka : HAVELI		District : PUNE		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KADAM WAKWASTI		173		00	00	50
			174		00	00	64
			NH - 9 in between Gat No 173 & 252		00	06	31
			252		00	41	40
			Metalled Road in between Gat No 252 & 821		00	05	89
			821		00	11	70
			820		00	12	88
			819		00	07	74
			818		00	05	40
			817		00	03	60
			816		00	00	10
			804		00	05	57
			810		00	04	50
			806		00	09	45
			808		00	02	35
			807		00	11	70
			768		00	08	69
			764		00	00	11
			769		00	04	92
			771		00	05	65
			772		00	07	55
			773		00	02	71
			849		00	12	60
			760		00	19	84
			758		00	16	20
			615		00	09	00
			614		00	08	80
			613		00	06	33
			606		00	06	55
			605		00	06	46
			602		00	09	40
			599		00	13	50
			598		00	05	06
			597		00	12	40
			590		00	06	30
Total :					02	91	80

Taluka : HAVELI		District : PUNE			State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Acre	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
2	LONI KALBHOR		Metalled Road in between V.B. of Kadam Vakvasti & Gat No 2314		00	05	48
			2314		00	08	61
			2315		00	02	25
			2316		00	02	88
			2317		00	00	26
			2320		00	16	31
			2339		00	02	01
			2335		00	08	47
			2336		00	15	76
			2338		00	05	05
			Nala in between Gat No 2338 & 1747/26		00	03	36
			Asphalted Road in between Nala & Gat No 1747/26		00	03	34
			1747	26	00	32	55
			1789	1	00	04	27
			1789	2	00	04	52
			1789	3	00	05	30
			1789	4	00	03	58
			1789	5	00	06	06
			1747	27	00	16	63
			1747	28	00	06	79
			1790		00	04	58
			1747	29	00	09	29
			1791		00	04	98
			Asphalted Road adjacent to Gat No 1791		00	00	98
			Asphalted Road in Gat No 1699		00	00	82
			1699		00	02	03
			1696		00	10	54
			1694		00	11	68

Taluka : HAVELI			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
2	LONI KALBHOR (Contd.)		1693		00	40	08
			Cart Track in between Gat No 1693 & 1529		00	07	66
			1529		00	05	68
			1530		00	01	27
			1528		00	02	87
			1527		00	01	91
			Area in between Gat No 1527 & 1525		00	01	93
			Area in between Gat No 1527 & 1525		00	01	62
			Area in between Gat No 1527 & 1525		00	01	51
			1525		00	01	88
			1518		00	02	03
			1517		00	02	46
			1516		00	15	20
			1513		00	11	06
			1532		00	09	56
			1504		00	01	46
			1503		00	01	30
			1506		00	01	17
			1505		00	00	25
			1502		00	07	40
			1500		00	04	22
			1499		00	04	58
			1498		00	01	23
			1497		00	03	48
			1496		00	03	04
			1494		00	06	82
			Area in between Gat No 1494 & 1487 B		00	04	92
			1487	B	00	07	15

Taluka : HAVELI		District : PUNE			State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
2	LONI KALBHOR (Contd.)		1484		00	04	50
			1482		00	05	72
			1480		00	02	01
			1476		00	03	24
			1475		00	02	38
			1474		00	03	10
			1473		00	02	39
			1472		00	04	59
			1471		00	01	50
			1470		00	10	50
			Area in between Gat No 1470 & 1764		00	02	54
			Area in between Gat No 1470 & 1764		00	01	38
			1464		00	03	23
			1463		00	03	42
			Area in between Gat No 1463 & 1454		00	02	04
			1454		00	03	77
			1452		00	03	42
			1451		00	03	65
			1449		00	06	41
			1431		00	05	58
			1430		00	03	91
			1429		00	00	63
			1428		00	03	20
			1427		00	03	18
			1426		00	03	08
			1420		00	02	67
			Area in between Gat No 1420 & 1411		00	02	24
			1411		00	01	67
			1410		00	06	20

Taluka : HAVELI		District : PUNE			State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
2	LONI KALBHOR (Contd.)		1400		00	03	97
			1401		00	00	62
			Canal (Disused) in between Gat No 1401 & 1409		00	09	89
			1409		00	06	91
			1407		00	03	43
			1406		00	04	85
			1405		00	08	83
			1202		00	12	47
			Canal in between Gat No 1202 & 1198		00	25	81
			1198		00	14	01
			1197		00	07	07
			1196		00	07	48
			1194		00	06	73
			1192		00	06	73
			1191		00	04	68
			1190		00	04	65
			1188		00	04	20
			1187		00	04	89
			1186		00	05	01
			1184		00	04	41
			1180		00	07	02
			1178		00	06	03
			1177		00	06	47
			1176		00	05	31
			1175		00	04	14
			1173		00	03	88
			1169		00	03	47
			1168		00	07	86
			1167		00	00	85
			1166		00	01	30
			1165		00	05	72
			1164		00	07	15
			1163		00	32	88
			Railway Line in Gat No 1163		00	04	49

Taluka : HAVELI		District : PUNE		State : MAHARASHTRA			
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
2	LONI KALBHOR (Contd.)		1162		00	42	46
			1060		00	04	78
			1059		00	13	34
			1058		00	06	16
			1057		00	05	18
			1056		00	08	66
			1055		00	05	71
			1054		00	05	13
			Nala in Gat No 1054		00	01	18
			Nala in Gat No 1053		00	07	94
			1053		00	06	12
			1052		00	32	31
			1072		00	04	35
			1071		00	01	15
			1162		01	21	04
					09	63	01
3	ALANDI (MHATOBACHI)		1188		00	02	70
			1187		00	00	75
			1124		00	59	65
			1125		00	44	19
			1123		00	28	41
			1122		00	29	21
			1147		00	11	52
			1120		00	12	64
			1100		00	15	07
			1094		00	09	01
			1091		00	17	79
			1092		00	00	02
			1090		00	22	14
			1089		00	27	16
			Metalled Road in between Gat No 1089 & 1084		00	02	13
			1084		00	23	46
			1066		00	11	18
			1065		00	26	43

Taluka : HAVELI			District : PUNE		State : MAHARASHTRA		
Sr. No.	Name of the Village	Survey No.	Gat No.	Sub-Division No.	Area		
					Hectare	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ALANDI		1026		00	83	22
	(MHATOBACHI)		1054		00	13	93
	(Contd.)		1055		00	21	87
			Railway Line in between Gat No 1055 & 938		00	08	35
			938		00	16	86
			843		01	40	79
			937		00	93	77
Total :					07	22	25

[No. R-31015/24/2004-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2004

क्र. आ. 2680.— केन्द्रीय सरकार, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम-3 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती शर्मिला टैगोर को 13 अक्टूबर, 2004 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. -809/10/2003-एफ(सी)]
विश्वजीत सहाय, निदेशक

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 13th October, 2004

s.o. 2680.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with rule 3 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government is pleased to appoint Smt. Sharmila Tagore as Chairperson of the Central Board of Film Certification in an honorary capacity from 13th October, 2004 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 809/10/2003-F(C)]
VISHVAJIT SAHAY, Director

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2004

का. आ. 2681.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, मै. हरियाणा मिनेरल्स लि. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली-1 के पंचाट (संदर्भ संख्या 100/95) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-9-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/58/95-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd September, 2004

S.O. 2681.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 100/95) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi-I as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Haryana Minerals Ltd. and their workman, Which was received by the Central Government on 23-9-2004.

[No. L-29012/58/95-IR (M)]

B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT,
NEW DELHI

PRESIDING OFFICER : SHRI S. S. BAL

I.D. No. 100/95

In the matter of dispute between :

Shri A. K. Dalui, Ex-Blaster,
C/o Shri B. S. Parabhakar,
Backside Mandi, Charkhi Dadri,
Distt. Bhiwani

.....Workman

Versus

The Managing Director,
M/s. Haryana Minerals Ltd.,
Bara Khamba Road,
Arunachal Building, 703-704,
7th Floor,
New Delhi

.....Management

APPEARANCES : NONE FOR PARTIES.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-29012/58/95-IR (Misc.) dated 9/14-11-95 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of the management of M/s. Haryana Minerals Ltd. in terminating the services of Shri A.K. Dalui, Ex-Blaster w.e.f. 21-12-1992 is just, fair and legal? If not, what relief the workman is entitled to and from what date?”

2. Brief facts which have given rise to the instant reference are that workman Shri A.K. Dalui was employed with the management respondent on 19-7-1990 as Blaster and was illegally retrenched by the respondent management on 21-12-92 illegally in violation of the provisions contained in Sections 25-F and N of the I.D. Act, 1947 without notice or retrenchment compensation or and without obtaining permission from the appropriate Government as required under Section 25-N of the I.D. Act. He claims reinstatement with all benefits of the service.

3. The management contested the claim of the workman by filing reply/written statement raising preliminary objections namely that the establishment/undertaking where workman was working was having less than 100 workmen and the services of the workman have been retrenched in compliance with Section 25-F of the I.D. Act after fulfilling the requirements and that provisions of Section 25-N were not attracted in this and the impugned order is just, legal and valid and has been passed in compliance with the relevant provisions contained in Section 25-F of the I.D. Act and in lieu of one month notice retrenchment compensation has been paid to the workman. The retrenchment has been upheld to be in compliance with the I.D. Act, 1947 namely Section 25-F by the Punjab and Haryana High Court vide its judgement dated 4-2-94 and even Special Leave Petition against the same has been dismissed as withdrawn. In view of the above claim is not maintainable. Claimant is estopped from his own act and conduct. He has otherwise no locus standi and that the workman is gainfully employed after retrenchment. On merits it is averred that the retrenchment is just, legal and valid and it is denied that the claimant is jobless. Order of compensation has been passed by the competent authority. The High Court in its judgment has found that no injustice has been done to the aggrieved parties including the claimant and that no junior person has been kept in service after retrenchment. Claimant workman was one of the petitioners in the said writ petition. Claim is not maintainable and workman is not entitled to any relief.

4. In evidence the management filed affidavit of Shri S.N. Sharma, Senior Mining Engineer, Haryana

Minerals Ltd., Faridabad who was cross-examined by the workman representative. Workman filed his own affidavit in support of his claim. He was also cross-examined by the A/R of the Management. After recording evidence of the parties arguments were addressed by the workman himself and none appeared for the management.

I have perused the record meticulously.

5. In the instant case the workman who was working as Blaster, Silica Mines was retrenched. It appears that the workman was working at Bandhwari Stone Mines when he was retrenched vide order dated 21-12-92. The impugned retrenchment order was challenged in the High Court of Punjab and Haryana and the Punjab and Haryana High Court vide his judgment dated 4-2-94 held that the company i.e. respondent was justified in making some retrenchment since no injustice has been done to the petitioners in as much as no junior person in their respective category has been kept in service after retrenchment I am of the opinion that no case for interference under article 226 has been made out. From the above observation it is obvious that the impugned retrenchment order was held to be justified by the High Court of Punjab and Haryana and it was also held by the said Court that no junior person in their respective category has been kept. The petitioner A.K. Dalui was one of the party in case captioned as Bimlesh Kumar Sharma Vs. Haryana Minerals Ltd. and others C.W.P. No. 2299/1993 wherein the above said judgment was delivered by Shri R. S. Mongia Judge. However, it was further observed by the High Court that Id. counsel for the petitioner submitted that workmen were posted at Silica Mines where no retrenchment was called for and they should not have been retrenched. I am sure that if any representation is made by them the company would consider the same on merits. According to the said judgment petitioner No. 12 A.K. Dalui was required to make representation but it appears that no representation has been made. The same if made must have been rejected by the respondent. Since the petitioners stand retrenched and retrenchment order has been held to be justified, in view of the facts and circumstances of this case by the High Court of Punjab and Haryana in the above said judgment. Said judgment is binding upon the petitioner and he cannot challenge the same. The workman has failed to show that any person junior to him has been engaged or reappointed by the respondent or that the respondent has not complied with the provisions contained in section 25-F of the I.D. Act as claimed by him. Though he has claimed that he has not been given notice and the pay for notice period but on the other hand the management respondent has claimed that it has complied with the provisions and MWI S.N. Sharma Senior Mining Engineer has filed his affidavit in evidence claiming that services of the workman have been retrenched in accordance with section 25-F of

the I.D. Act and notice in compliance of section 25-F have been duly issued and served and that provisions contained in I.D. Act, 1947 have been strictly followed including sections 25-F, H and G etc. but has not been cross-examined on these questions. Not a single question has been asked pertaining to this aspect in cross-examination. Thus, it is proved that the workman has been retrenched following relevant provisions of law and that his retrenchment has been held to be justified even by the High Court. In view of this I am of the opinion that the workman is not entitled to reinstatement/re-employment as claimed. Thus, I am of the view that the action of the management in terminating the services of the claimant is justified. Reference is, thus answered in affirmative and he is not entitled to the relief claimant. Award is given accordingly.

S. S. BAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2004

का. आ. 2682.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में राष्ट्रीय मूना सर्वेक्षण संस्थान के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर (संदर्भ संख्या सी.जी.आई.टी.-35/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-9-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/224/2002-आई. आर. (सीएम-II)]

एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th September, 2004

S.O. 2682.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT-35/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of National Sample Survey Organisation. and their workman, which was received by the Central Government on 24-9-2004.

[No. L-42012/224/2002-IR (CM-II)]

N.P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
JAIPUR

CASE NO. CGIT-35/2003

Reference No. L-42012/224/2002 IR (CM-II)

Sh. Nandlal Balai,
S/o Sh. Pooranmal Balai,
R/o Mohalla Bramchari Dargu Ka Than,
Alwar (Rajasthan)Applicant

versus

1. The Deputy Director,
National Sample Survey Organisation,
Field Operation Division,
70/149, Patel Marg, Mansarovar,
Jaipur.

2. The Superintendent,
National Sample Survey Organisation,
Field Operation Division,
8/41, N.E.B.R.H.B. Colony,
Alwar (Rajasthan)

Non-applicants

PRESENT:

Presiding Officer : SH. K.C. Sharma

For the applicant : Sh. Kunal Rawat

For the non-applicants : Sh. Brahmanand Sandhu

Date of award : 13-09-2004

AWARD

1. The Central Government in exercise of the powers conferred under Clause 'D' of sub-section 1 and 2(A) to Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the 'Act') has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal which runs as under :—

“Whether the action of the management of National Sample Organisation in terminating the services of workman Shri Nandlal Balai S/o Shri Pooranmal Balai w.e.f. 8-2-2000 was legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?”

2. The workman in his statement of claim has pleaded that he was appointed by the non-applicant establishment after selecting him as a 4th class employee who reported for his duty on 3-5-99 and continuously worked up to 8-2-2000 but on 8-2-2000, his service was terminated who raised an industrial dispute before the Conciliation Officer. The Conciliation Officer submitted the failure report to the Central Government which has forwarded this reference. The workman has challenged his termination order on the grounds that his service was terminated in violation of Section 25-F of the Act and that after his termination the fresh hands were recruited by the management in violation of Section 25-H of the Act. He has prayed that the termination order dated 8-2-2000 be declared as null and void and he may be reinstated in the service with all consequential benefits.

3. Disputing the claim, the non-applicants in their counter statement has averred that the claimant was appointed on daily wages basis as a stopgap arrangement because one Sh. Mahesh Chand, Peon or regular basis

was put under suspension w.e.f. 31-3-99 to 8-2-2000 and some operational difficulty and inconvenience was felt in performing day-to-day work of the office, therefore, the petitioner was appointed till the finalisation of the disciplinary proceedings against Sh. Mahesh Chand. They have categorically denied that the workman was employed in a regular pay scale. They have further stated that the workmen only worked for 196 days out of 282 days during the period and the wages were paid to him only for 196 days. They have stated that from 27-11-99 to 30-11-99, the workman was not working with the non-applicant establishment. They have further pleaded that when Sh. Mahesh Chand joined the duty, then the service of the workman was terminated. They have denied the violation of Section 25-H of the Act.

4. In the rejoinder, the workman has reiterated the facts as stated in his statement of claim.

5. On the pleadings of both the parties, the following points for determination were framed :—

- I. Whether the workman was selected by the non-applicant management as Class IV Employee and was appointed vide order dated 26-4-1999 who reported for duty on 3-5-99 and continuously worked up to 8-2-2000?
- II. Whether the service of the workman was terminated in violation of the provision under Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947?
- III. Whether after the termination of the workman, new employees were recruited by the management in violation of the provision under Section 25-H of the Act?
- IV. Whether the workman is entitled to be reinstated in the service with all other consequential benefits?

6. In the evidence, the workman has submitted his affidavit and on behalf of non-applicants, the counter-affidavits of Sh. SL Manaria, Joint Director was brought on the record. Both the parties have led the documentary evidence also.

7. I have heard both the parties and have gone through the record. The point-wise discussion runs as under :—

Points No. I & II

8. Both these points contain the identical facts, which are discussed together hereunder.

9. The Id. representative for the workman contends that the workman had worked with the non-applicant

management continuously from 3-5-99 to 8-2-2000, who was selected in the interview and the appointment letter Ex. W-1 was issued in his favour. He adds that the workman has completed 240 days of work with the non-applicant management and that the plea of the non-applicants that the workman was employed as a stopgap arrangement is not proved from the appointment letter Ex. W-1. The Id. representative then has contended that the management has also disclosed that there was 4 days gap in the continuous working of the applicant, which is artificial and in support of his contention, the Id. representative has relied upon 1995 (3) WLC (Rajasthan) 719.

10. Refuting the submission made on behalf of the workman, the Id. representative for the non-applicants argues that on account of the suspension of one employee named Sh. Mahesh Chand, the workman was employed as a stopgap arrangement who only worked for 196 days and the payment of wages was made to him to this extent only. The next contention of the Id. representative is that there is only one sanctioned post of the 4th Class and after the revocation of the suspension of Sh. Mahesh Chand, he has joined on it. The Id. representative has relied upon the payment sheet by which the wages were paid to the disputant.

11. I have bestowed my thoughtful consideration to the rival contentions.

12. The workman in his affidavit has stated that he was selected to the post of 4th Class vide order Ex. W-1 dated 26-4-99, who continuously worked from 3-5-99 to 8-2-2000 and the management has also issued an experience certificate Ex. W-2 in his favour. He then has deposed that on 8-2-2000, his service was terminated vide order Ex. W-3 issued by the non-applicant management. He has categorically stated that during the period w.e.f. 3-5-99 to 8-2-2000, three days break was given by the management which was artificial and even on these days he had worked under the employment of the non-applicant management.

13. In the cross-examination, the workman has deposed that he used to fill the drinking water in the pitchers and did mopping and dusting in the office and used to place the files to the authorities when required by them. He was the only 4th Class who was working in the office. Although he has admitted that the break in his employment from 26-11-99 to 30-11-99 was given by the management but during this period he regularly attended his official duties. The workman has remained unshaken in his cross-examination.

14. His testimony is further supported from the appointment letter Ex. W-1 dated 26-4-99 which says that he is appointed on the daily wages basis who would have

to perform his duties from 9.30 AM to 6 PM. A certificate of experience Ex. W-2 was also issued by the management in his favour disclosing that he had worked w.e.f. 3-5-99 to 26-11-99 and from 1-12-99 to 8-2-2000 with the non-applicant management. The termination order Ex. W-3 states that his service was terminated w.e.f. the afternoon of the 8th February, 2000.

15. As against it, the management witness Sh. SL Manaria, Joint Director has deposed that the workman was appointed as a stopgap arrangement because Sh. Mahesh Chand, Peon was put under suspension from 31-3-99 to 8-2-2000. The next plea adopted on behalf of the management is that the workman had worked only 196 days out of 282 days during his period of employment. In his cross-examination, this witness has admitted that the name of the workman was called for from the employment exchange, who also appeared in the interview. He has admitted that the workman had continuously worked from 3-5-99 to 8-2-2000, but he did not perform from 27-11-99 to 30-11-99. He has also admitted that the orders Ex. W-1 to W-3 pertain to their department which have got no reference of Sh. Mahesh Chand.

16. On the basis of the aforesaid oral and documentary evidence, it is crystal clear that the workman was selected to the post of the 4th Class on daily wages basis vide order dated 26-4-99, who reported on his duty on 3-5-99 and continuously worked up to 8-2-2000.

17. On behalf of the non-applicants, it has been emphatically stated that the workman had not completed 240 days of work with the management and the break in his functioning is pointed out from 3-5-99 to 8-2-2000. It is fully established on the basis of the workman's evidence as well as on account of the documents pertaining to the non-applicant management that the workman was continuously working with the management from 3-5-99 to 8-2-2000. Even if it is presumed that there was four days break in the employment, then on the basis of the aforesaid evidence, it appears to be an artificial break only. The Id. representative for the workman has drawn my attention towards 1995 (3) WLC (Rajasthan) 719, wherein the Hon'ble Court has held as below :—

“Reliance was also placed by the learned counsel for the petitioner on the judgment of the Apex Court in the matter of Workmen of American Express International Banking Corporation Vs. Management of American Express International Banking Corporation, reported in AIR 1986 S.C. 458, wherein the question which had arisen for consideration of the Apex Court was as to whether Sundays and every paid holiday should be taking into account for the purpose of reckoning the total number of days on which the workman could be said to have

actually worked. It was held by the Apex Court that the principles of statutory considerations are well-settled and has held as under :—

“The expression which we are required to construe is ‘actually worked under the employer’. This expression according to us, cannot mean those days only when the workman worked with hammer, sickle or pen, but must necessarily comprehend all those days during which he was in the employment of the employer and for which he had been paid wages either under express or implied contract of service or by compulsion of statute, standing orders, etc.”

After hearing learned counsel for the parties and examining the rival claims and contentions and perusing the relevant documents placed on the record, I am of the considered opinion that the petitioner is entitled to succeed and the ration of the above referred judgments of the Apex Court as well as of this Court are fully applicable to the facts of the present case.”

18. Thus, the contention advanced on behalf of the workman that the artificial break given by the management would also be included in reckoning the period of working rendered by the workman is fully supported by the judgment cited supra. On the basis of the evidence adduced by both the parties on the record, it is fully established that the workman had completed over 240 days of work in the calendar year under the employment of the non-applicant management.

19. Now, I turn to the next contention advanced on behalf of the non-applicants that the workman was employed as a stopgap arrangement because one employee Sh. Mahesh Chand was placed under suspension. Firstly, the documents Ex. W-1 to W-3 do not demonstrate this fact that the disputant was employed in place of Sh. Mahesh Chand. Secondly, it is the testimony of the management witness Sh. SL Manaria that Sh. Mahesh Chand was put under suspension w.e.f. 31-3-99 to 8-2-2000 and as a stopgap arrangement, the disputant was appointed on daily wages basis. But in support of his testimony, no document could be brought on the record which could suggest that Sh. Mahesh Chand was placed under suspension during this period and in place of him, as a stopgap arrangement, the claimant was appointed. As such, the plea adopted by the management seems to be an afterthought which untrustworthy.

20. In the light of the aforesaid facts and judicial pronouncement, the workman succeeds in establishing that he had worked over 240 days with the non-applicant management in the calendar year preceding to 8-2-2000 and whose service was terminated in violation of the mandates contained under Section 25-F of the Act. Therefore, both these points are decided in favour of the workman and against the non-applicants.

Point No. III

21. The Ld. representative for the workman contends that after the termination of the workman, one Sh. Mahesh Chand was appointed by the non-applicant management. Contrary to it, the Ld. representative for the non-applicants submits that Sh. Mahesh Chand was already on the roll of the management and it was not a fresh appointment.

22. In the claim statement, the workman has not named Sh. Mahesh Chand as an employee who was appointed after his termination, nor he could be able to produce any positive and definite evidence in this context that after his termination, a fresh hand was recruited by the management without providing him an opportunity of employment. As such, the workman has failed to prove the onus on this point. Accordingly, this point is decided against the workman.

Point No. IV

23. On account of the decision on the points No. I & II in favour of the workman, he is entitled to be reinstated in the service. The workman has disclosed in his claim statement as well as in his affidavit that since his termination he is unemployed. No proof of his employment elsewhere could be produced on behalf of the management. Therefore, the workman is also entitled for the back-wages.

24. In the result, the reference is answered in the affirmative in favour of the workman that the order of termination dated 8-2-2000 is illegal and unjustified, which is quashed. The claim of the disputant is allowed and it is held that he is entitled to be reinstated in the service with its continuity and 50 per cent back-wages. An award is passed in these terms accordingly.

25. Let a copy of the award be sent to the Central Government for publication under Section 17(1) of the Act.

R. C. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2004

का. आ. 2683.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, बजाज इलेक्ट्रीकल लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई (संदर्भ संख्या एनटीबी-5/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-9-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-22013/1/2004-आई.आर. (सी-II)]

एन. पी. केशवन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th September, 2004

S.O. 2683.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. NTB-5 of 2003) (Arising out of Reference No. NTB-1 of 1997) of the National Industrial Tribunal, Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bajaj Electric Limited and their workman, which was received by the Central Government on 24-9-2004.

[No. L-22013/1/2004-IR (C-II)]

N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAL
TRIBUNAL AT MUMBAI

PRESENT :

Justice Shri S. C. PANDEY,
Presiding OfficerCOMPLAINT NO. NTB-5 OF 2003
Arising out of Ref. No. NTB-1 of 1997

PARTIES :

V. Subramanian : Applicant
V/s.

Bajaj Electricals Ltd. : Opp. Party

APPEARANCES :

For the Applicant : Shri Chidambaram

For the Opp. Party : Shri C.V. Pawaskar, Adv.

: Shri M.S. Paranjpe, Adv.

State : Maharashtra

Mumbai, dated the 8th day of September, 2004

AWARD

1. This is an application under section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (the Act for short) requiring this tribunal to decide the complaint filed by V. Subramanian (the workman for short) against M/s. Bajaj Electrical Ltd. (the company for short). The workman stated in his complaint that Reference NTB-1 of 1997 was pending before this tribunal. The aforesaid reference workman were represented by All India Bajaj Electrical Employees

Federation (the Federation for short). It was submitted by the complainant that the conditions of service of the workman employed by the company were being decided though the Settlements made by the company and Federation from time to time. The workman stated that pursuant to a domestic enquiry, he was suspended on 9-3-2000. He stated further that the company paid to him by way of suspension allowance 50% of monthly salary drawn by him immediately before the suspension for 90 days period of his suspension, 75 per cent of the aforesaid monthly salary for next 90 days and full monthly salary after expiry of 180 days as per Standing Orders applicable to him. It appears from the complainant that he is however, aggrieved by the aforesaid payment of the suspension allowance on the basis of his monthly salary as on 9-3-2000. It was claimed that the workman was entitled to suspension allowance on the basis of the monthly wage he was entitled to receive during the period of suspension. It was claimed that the workman was entitled to receive basic wages as per wage scale providing for annual increment. It was also claimed that his monthly salary included Dearness Compensatory Allowance (D.C.A.) which is linked with Mumbai Consumer Price Index. According to the workman, this Consumer Price Index varied from month to month. Consequently, he was entitled to the suspension allowance based on the monthly wages as changed in accordance with Mumbai Consumer Price Index. The workman also averred that his entitlement of annual increment should also taken into account for working out his suspension allowance at the aforesaid rate. It was claimed that two aforesaid ingredients of the basic wage could not be ignored by the company. The workman averred that the payment of suspension allowance, on the foundation of salary drawn by him in the month of February 2000 amounted to variation of his service conditions within the meaning of section 33(1)(a) of the Act. It was averred that the workman was the member of Mumbai Labour Union which was affiliated to the Federation. Consequently, his service conditions could not be changed during the pendency of Ref. NTB No. 1 of 1997. It was averred that the pending reference was in respect of number of demands made by the Federation including the fixation of wages. Therefore, the company was not entitled to change the conditions of the concerned workman in the industrial dispute to his prejudice. The workman claimed that he was the concerned workman and that calculation of suspension allowance on the basis of salary drawn by him in Feb. 2003 amounted to violation of Section 32 of the Act. Consequently, this dispute could be decided as if the appropriate Govt. has referred an industrial dispute before this tribunal and grant relief to workman by giving award in his favour by directing correct calculation of suspension allowance and interest on the amount withheld.

2. In the written statement the following plea was taken. That there is no law which required the company to

pay the workman the suspension allowance calculated on the basis of monthly wage of each month along with the Dearness Compensatory Allowance and the annual increment due to workman as if he was in service. It was further averred that workman is not a workman concerned with the industrial dispute in Reference No. NTB No. 1 of 1997 raised by the Federation against the company. The Mumbai General Employees Association has entered into settlement with the company in 1996 and 2000. The workman had taken benefit of those settlement and consequently, this tribunal cannot permit the complainant to invoke the provisions of Section 33A of the Act. On merits it was denied that the company had changed the conditions of service of workman and consequently, the company was not required to seek permission under Section 33(1) (a) of the Act. The dispute was in respect of calculation of suspension allowance and as such, it is covered by Section 33(c)(2) of the Act. It was stated that workman was paid subsistence allowance under the Industrial Employment Standing Orders Act. It was denied that the complainant was a member of Mumbai Labour Union and that the Union was affiliated to Federation. It was claimed that the workman was entitled to subsistence allowance on the basis of monthly salary on the date of suspension but not on every month after suspension as if he was in service.

3. Before embarking upon the disposal of this case on merits, this tribunal decides the question if Section 33(c)(2) of the Act was attracted. In the opinion of this tribunal the dispute between the company of workman is not a dispute only for calculation of the amount regarding no adjudication. It is well established that the powers exercised by a Labour Court under Section 33(c)(2) are akin to powers exercised by an executing Court under the Code of Civil Procedure. An Executing Court under the Code of Civil procedure does not decide substantive dispute between the parties. It has power to execute the decree or orders as the case may be. Although this analogy is not wholly adequate, in describing the powers under Section 33(c)(2) of the Act, the Supreme Court and several High Courts have stated that powers of Labour Court are that of Executing court. The text of Section 33(c)(2) of the Act is as follows :

33-C(2) Where any workman is entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of being computed in terms of money and if any question arises as to the amount of money due or as to the amount at which such benefit should be computed, then the question may, subject to any rules that may be made under this Act, be decided by such Labour Court as may be specified in this behalf by the Appropriate Government (within a period not exceeding three months).

It would be apparent from the words aforesaid that if the dispute between the parties was confined to amount payable and not principles involved in calculating the subsistence allowance, then Section 33(c)(2) of the Act shall apply. In case both the parties were applying the same principle for claiming a particular amount, but there was dispute as to quantum of payment, then Section 33(c)(2) of the Act shall come into play. However, when workmen calculates the subsistence allowance on principle 'A' and the employer on principle 'B' then the dispute not only raise question calculation but also as to applicability of correct principle. The dispute regarding principle is regarding substantive rights of the parties. It is not even a incidental dispute. It has to be decided in an adjudication consequently, the objection that Section 33(c)(2) of the Act applies is hereby rejected.

4. At the very outset it is incumbent upon this tribunal to determine its own jurisdiction under Section 33-A of the Act. It may be noticed that the Central Govt. has power and discretion to refer a dispute to a National Tribunal under clause (1A) of section 10 of the Act even if it is not an appropriate Government. The Central Govt. has referred the Reference NTB No. 1 of 1997 for resolving the industrial dispute between the company and the Federation. It is not in dispute that workman who is employed at Mumbai is a member of Mumbai Labour Union. The Mumbai Labour Union is affiliated to the Federation. Thus, it cannot be disputed that during pendency of Reference NTB No. 1 of 1997, the company cannot change conditions of service applicable a workman immediately before the commencement of Reference NTB No. 1 1997. It cannot be disputed that the prescribed rate of wage at the time of start of pendency of a workman cannot be changed to his prejudice. Ordinarily, the workman would be deemed to be connected with the dispute because the jurisdiction of Federation is for all the units of the company wherever they are situated. However, it has been argued on behalf of the company that Bombay Labour Union had accepted the settlement with the company in 1996 itself. Therefore, the workman who was the member of Bombay Labour Union and had taken the advantage and the benefit provided by the company under two independent settlements. Consequently, the dispute under Section 33-A of the Act cannot be raised by the workman. Countering the aforesaid argument on behalf of the Federation, Shri Chidambaram argued that the workman was not a member of the Mumbai Labour Union. The settlements of 1996 and 2000 of the company with the Bombay Labour Union cannot be taken into consideration for employing the principle of estoppel.

5. It appears to this tribunal that the industrial dispute covered by Ref. No. NTB-1 of 1997 also included the dispute if the company could enter into a separate agreement with a Union which is the part of the Union and if it was valid. Under these circumstances, the argument raised on

behalf of the company on the ground that the Bombay Labour Union had entered into a separate defying the federation cannot be accepted. Nor can this argument that the workman had taken the advantage of the Settlement of the Bombay Labour Union, and therefore, he cannot turn around, and raise the present dispute be accepted. In the opinion of this tribunal, the workman may have taken advantage of the benefits provided to him. However, it has not been specifically pointed out that how the advantage of two settlements has affected the company prejudicially so far as the wages of the workman are concerned. This tribunal has now held that the award given by it shall also bind the Bombay establishment.

6. Next question that has to be decided is if there was any contravention of Section 33 of the Act. The complainant under Section 33-A lies only when there is a violation of Section 33. In the opinion of this tribunal if it comes to the conclusion on merits that the conditions of service of the workman implied that during the period of his suspension the workman was entitled to annual increment as well variable DCA then non-payment of same would be change in the conditions of service. Under these circumstances sub-section 1(a) of Section 33 of the Act will be attracted provided the conditions of service were connected with the pending dispute. The Reference No. NTB-1 of 1997 involved the dispute regarding fixation of wages, annual increment and Dearness Compensatory Allowance. Thus, connection is established. The suspension allowance depended upon the wages and if the workman's wages were not increased according to changed monthly and annually then he can file this complaint. The workman is asking nothing but the maintenance of service conditions to which he is entitled to. He is a 'concerned workman' within the meaning of Section 33(1)(a) of the Act. If there is contravene of Section 33 of the Act then Section 33-A is attracted entitling this tribunal to adjudicate upon the dispute. In the award in Reference NTB-1 of 1997 it has been held that the Bombay Establishment shall be bound by the award. It was held that the Company was unable to prove that the Bombay Union is governed by MRTU & PULP Act.

7. It has been argued before this tribunal on behalf of the workman the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 does not apply to workman because he is working in an establishment when fifty or more workmen are not employed. In this connection, attention of this tribunal was drawn to the Annexure 10 filed by the company itself in the Reference No. NTB-1 of 1997. The companies documents showed that at head quarters i.e. Bombay it has 218 Officers and 36 employees as the staff in 1996 and in 2000 the number of staff was 14 and that of Officers was 265. It was argued that at Bombay the number of workmen never reached 50. Therefore, there was no question of application of Industrial Employments (Standing Orders)

Act 1946 as amended by the Bombay State or the rules framed by the Bombay State.

8. As against this it has been argued on behalf of the company that the establishment at Bombay is registered under Bombay Shops and Establishment Act 1948. It is a Commercial establishment under Section 2(4) of the Act. By virtue of Section 38(B) of the Act the Industrial Employments (Standing Orders) Act 1946 is applicable to Maharashtra State became applicable to the establishment when its employees were more than 50. The employees as defined under 2(6) of that Act is not confined to workman. The Officers shall also be employees because the definition is wider that workman under Section 2(s) of the Act which became applicable to the Central Act as per 2(1) of the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946. The definition 2(1) was inserted in 1982 to clarify that term 'wages' and workman shall be same as defined by the Industrial Disputes Act 1947. Thus it appeared that the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1947 became applicable. It was amended by the Central Govt. by adding Section 10A. It reads as under :

10-A Payment of subsistence allowance : (1) Where any workman is suspended by the employer pending investigation or inquiry into complaints or charges of misconduct against him. The employer shall pay to such workman subsistence allowance—

(a) at the rate of fifty per cent of the wages which the workman was entitled to immediately preceding the date of such suspension, for the first ninety days of suspension; and

(b) at the rate of seventy five per cent of such wages for the remaining period of suspension if the delay in the completion of disciplinary proceedings against such workman is not directly attributable to the conduct of such workman.

(2) If any dispute arises regarding the subsistence allowance payable to a workman under sub-section (1), the workman or the employer concerned may refer the dispute to the Labour Court constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) within the local limits of whose jurisdiction the industrial establishment wherein such workman is employed is situate and the Labour Court to which the dispute is so referred shall, after giving the parties an opportunity of being heard, decide the dispute and such decision shall be final and binding on the parties.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, where provisions relating to payment of subsistence allowance under any other law for the time being in

force in any State are more beneficial than the provisions of this section, the provisions of such other law shall be applicable to the payment of subsistence allowance in that state.

9. However, this tribunal is of the opinion-sub Section (3) of Section 10A of the Act itself saves the sub rule 5A of Rule 23 of the Bombay Industrial Employment (Standing Orders) Rule 1959. The rule 5A of Rule 23 (*ibid*) is more beneficial to the workman because it gives benefit of basic wages eariness allowance, and other compensatory allowances' to the suspended workman for the calculation of subsistence allowance. The workman is treated as if he was on leave during the period of suspension.

10. The workman, therefore, rightly claimed that company was bound to pay him subsistence allowance from 9-3-2000, in the basis his basic salary linked with D.C.A. He was entitled to once half salary after making monthly calculation for first Ninety days. He shall be entitled to three fourth of basic salary plus DCA calculated herewith to month on Bombay Consumer Price Index after ninety days and thereafter full dearness allowance shall be paid to him. His annual increments have also be taken into consideration because the workman is treated as if he was on leave. That means he is deemed to be in service. The company shall calculate the arrears of his salary on the basis of calculation given by this tribunal and pay to him within one month of publications of this award. The company shall pay interest on the arrears at rate of 12% on the aforesid arrears and shall continue to pay suspension allowance on that basis of workman is still under suspension. There shall be no order as to costs.

11. This complaint is adjudicated upon in accordance with Section 33-A of the Act as if the dispute between the parties was referred to this tribunal by the Central Govt. Accordingly, this award is submitted to the central for publication in accordance with this Act.

S. C. PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2004

का.आ. 2684. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, ई. सी. एल. प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण असनसोल (संदर्भ संख्या 98/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-9-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/281/98-आई.आर. (सीएम-II)]

एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th September, 2004

S.O. 2684.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 98/1999 of the Central Govt. Indus.Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of ECL and their workmen, received by the Central Government on 24-9-2004.

[No. L-22012/281/1998-IR (CM-II)]

N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT : Shri Md. Sarfaraz Khan, Presiding Officer

REFERENCE NO. 38 OF 1999

PARTIES:

The Agent, Bahula Colliery of
M/s. Eastern Coalfield Ltd.,
P.O. Bahula, dist. Burdwan (WB)

...Management

Vrs.

Sri Bhim Mahto of Lachipur Colliery
represented Rakesh Kumar,
Secretary :
Koyala Mazdoor Congress,
Asansol

...Workman

REPRESENTATIVES:

For the Management : Shri P. K. Das,
Advocate.

For the Workman : Sri Rakesh Kumar,
(Union) General Secretary,
Koyala Mazdoor
Congress, Asansol.

Industry : Coal. State : West Bengal.

Dated 18-08-2004.

AWARD

In exercise of powers conferred by clause D of Sub-Section (1) and Sub-section 2(A) of the Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 Government of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012/281/98/IR (CM-II) dated 05-05-1999 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by the Tribunal.

"Whether the action of the management of Lachipur Colliery of Kajora Area of M/s. ECL in dismissing the services of Sh. Bhim Mahato, Explosive Carrier is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

After receiving the order of reference summons were sent to the parties concerned by Registered Post. In pursuance to the summons both the parties appeared

through their representatives and filed their respective written statements in support of their claim. Sri P.K. Das, Advocate represented the management and the workman appeared through Sri Rakesh Kumar, General Secretary, Koyala Mazdoor Congress, Asansol.

2. The case of the workman in brief compass as set forth in the written statement is that Bhim Mahto the workman had been working as Explosive Carrier at Lachipur Colliery under Kajora Area of ECL bearing his U.M. No. 552299. He was wrongly dismissed from services of the Company with effect from 9-4-1996 for the alleged misconduct of absence under clause 17(1)(N) of Model Standing Orders applicable to the workman vide General Manager, Kajora Area letter No. K/PM/C-6/10/132/1767 dated 9-4-1996.

3. The further case of the workman is that the total period of absence was only about 5 months i.e. from 27-10-1995 to 20-3-1996 and that was also due to the sickness of the workman and to that effect Doctor's Medical Certificate was also submitted to the management for the consideration. The management was also informed in this regard by his fellow worker. It is also the case of the workman that in such type of cases where absence is less than 6 months management had allowed to join the duty and considered their re-instatement. The fairness validity and the propriety of the enquiry proceeding has also been challenged because of the fact that the workman was not given natural justice. The workman has also claimed that second show cause notice was also not served upon him before issuing the dismissal order which is utter violation of the direction of the Apex Court and in this regard direction has also been issued by the CIL. The punishment awarded is also extremely disproportionate to the nature of misconduct. The workman said to be a young man is ready to service the management to the best of its satisfaction for a long period. But he is starving facing miseries of all kinds along with his family member. So it is prayed to take lenient view.

4. On the other hand as per the Written Statements the brief defence case of the management is that the present referred reference is bad in the eye of law and the same is not maintainable and the dispute referred does not come under the purview of the Industrial Dispute.

5. The main defence case of the management is that Bhim Mahto the workman, Ex-Explosive Carrier of Lachipur Colliery remained absent from his duty unauthorisedly without any prior permission or information since 27-10-95 for which he was issued chargesheet dated 20-3-1996 by the management under clause 17(1)(N) of the Model Standing Order applicable to the establishment. The workman concerned submitted the explanation of the chargesheet but the same was found totally unsatisfactory and ultimately a domestic enquiry was held by an independent enquiry officer which was duly participated

by the workman. The Enquiry Officer after conducting the proceedings submitted its report to the appointing authority and the charge of misconduct was duly established.

6. It is also the case of the management that the Ex-workman was also a habitual absentee and his attendance was very poor for the last few years. So the punishment awarded to the workman is quite proportionate and justified in view of the gravity of misconduct proved against him. It is denied by the management that the workman was absent due to sickness and he had never been under the medical treatment of any Doctor. No any information was sent to the management by any source about the alleged sickness. So the workman is not entitled to any relief and the action of the management is totally justified.

7. On perusal of the record it transpires that on 21-7-2004 after hearing both the parties on the preliminary point an order was passed holding that the enquiry was found to be fair and valid as the union had not challenged the fairness, validity and propriety of the alleged enquiry proceeding and both the parties had submitted for hearing on the merit of the case and ultimately the hearing of the dispute on merit was concluded on 18-8-2004 and the order was reserved for passing the award.

8. It is further clear from the record that none of the parties had examined any oral evidence rather some documents were filed by the respective parties in support of their case. The workman has filed the Xerox Copy of the order of Hon'ble Supreme Court circulated to all CMS'S and D(P)'S of the Subsidiary Companies of CIL by the Coal India Limited signed by D(P) CIL (W-1) Xerox Copy of the Minutes of the Corporate JCC in which CMD allowed to join duty to those employee who absented even for 1 year. (W-3) Xerox Copy of the letter of D(P) CIL (W-2). Like wise the management has also filed the Xerox Copy of the chargesheet dated 20-3-1996 (M-1). Xerox Copy of the application dated 20-3-1996 sent by the workman praying therein for the grant of special leave w.e.f. 24-10-1995 (M-2) Xerox Copy of the order of dismissal dated 9-4-1996 issued by the General Manager of the Colliery Kajora Area to the workman (M-3) Xerox Copy of the enquiry report (M-4). Xerox Copy of the enquiry proceedings (M-5). Xerox Copy of the order of the Agent of the Colliery dated 21-3-1996 appointing an enquiry officer (M-6). Copy of the notice dated 23-3-1996 issued by the enquiry officer to the workman, fixing the date 28-3-1996. All the aforesaid documents filed by either of the parties have not been challenged by the side of either parties. So their legality and genuineness can't be disputed and questioned.

9. Let us see as to what are the admitted facts by the parties. It is the admitted fact that the workman Bhim Mahto was working as Explosive Carrier under the management concerned who was dismissed by the management on 9-4-1996 for the alleged misconduct of absence.

10. It is the further admitted fact that the workman was absent with effect from 27-10-1995 to 20-2-1996 i.e. about five months which amounts to misconduct of absence under clause 17(1)(N) of the Model Standing Orders of the establishment.

11. It is also the admitted case of the parties that an enquiry proceeding was started against the workman and explanation was also submitted by the delinquent and he had participated in the enquiry proceeding.

12. It is pleaded in para 9 of the W/S filed by the workman that no second show-cause notice was ever issued to the workman, which is the directives of the Apex Court. This fact has not been controverted by the management in its W/S which amount to admission by the management in the eye of law. According to the settled principles of the facts admitted need not be proved under such principles. I do not think necessary to discuss the above said points.

13. At the very out-set I would like to mention here that although the management has taken the plea in para 1 of W/S that the instant reference is bad in the eye of law and the same does not come under the purview of the Industrial Dispute. But the aforesaid point has not been raised in course of hearing of the dispute nor the management has proved the same. As such I do not find any defect in the maintainability of this reference and the facts of the dispute very well comes under the purview of the Industrial Dispute Act, Which has been rightly referred to the Tribunal by the Government of India for the adjudication of the same. The aforesaid point is accordingly disposed off against the management.

14. The workman has taken the plea in para 3 of his statements of claim that he had sent intimation by his fellow worker to the management about his absence which has been vehemently denied by the management vide para 7 of its W/S. Besides this the workman concerned has neither examined the co-worker through whom he had informed the management nor he has filed any chit of paper in this respect. The copy of the enquiry proceeding. (M-5) filed by the management goes to show that during his statement before the enquiry officer the workman has clearly admitted that due to shortage of sufficient time he could not be able to send any information to the management. In the repeated question of the Enquiry Officer he again replied that due to business and tention he could not be able to send any information. So the contradictory statement of the workman itself creates grave doubt and goes to prove that no any intimation was sent by him to the management about his alleged absence.

15. Having considered the above facts and circumstances. I am satisfied to hold that the workman was absenting form his duty with effect from 27-10-1995 to 20-3-1996 continuously without seeking prior permission which comes under the purview of clause 17(1)(N) of Model Standing Order and thereby the workman has been found guilty of misconduct for which he deserves punishment.

16. Now the only point to be considered by the Court is to see as to how nor the punishment passed by the management is proportionate to the alleged nature of misconduct committed by the delinquent.

17. It was submitted by the learned lawyer of the workman (Union) that it is a simple case of absenteeism or unauthorised leave only for about two months and the reason for the same has been fully explained before the Enquiry Officer. The attention of the Court was drawn towards the averments made in the explanation submitted by the workman in reply to the charges. It is also submitted that satisfactory reason has been assigned in his evidence before the Enquiry Officer during the enquiry proceeding. It has been mentioned by the Enquiry Officer in his report that, "In view of the above it reveals it that due to health problem of the parents Sri Bhim Mahto left his native place without information." There is no allegation that without satisfactory reason the delinquent was absent rather the reason of the absence of the workman has been found to be satisfactory. Admittedly the workman was under the compelling circumstances absent to discharge his pious duty towards his parents. It is further clear from the record that there is no any adverse remark about the previous conduct in respect of his attendance and he had never been over held guilty for committing any misconduct during the tenure of his service. There is no pleadings of the management side in its W/S on this point. I also find force in the submission of the learned lawyer of the workman that no second show-cause notice was issued to the workman before passing the order of dismissal which is the deliberate violation of the mandate of the Apex Court.

18. Besides this when the Model Standing Order applicable to the establishment under 27.1 (page-15) provide various minor punishments. I fail to understand as to why only maximum punishment available under the said clause should be awarded on the facts of the present case. I am of the view that the punishment of dismissal for an unauthorised leave for a few months under the compelling circumstance and without any ulterior motive is too harsh a punishment which is totally disproportionate to the misconduct alleged. It is a plain and simple case which should have been dealt with by taking a lenient view.

19. Under the above fact, circumstances and the discussion made I am satisfied to hold that the punishment imposed by the employer is not commensurate with the nature and gravity of the misconduct proved against the delinquent and as such the impugned order of punishment by way of dismissal is hereby set aside and the delinquent is directed to be re-instated with continuity of service with a back wages of 40% from the date of the punishment. Let the award be and the same is passed accordingly. Copies of this award be sent to the Ministry of Labour for information and needful.

MD. SARFARAZ KHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2004

AWARD

का. आ. 2685.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, एफ. सी. आई. के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर (संदर्भ संख्या जे-28/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-9-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-22012/242/98-आई.आर.(सी.एम.-II)]

एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th September, 2004

S.O. 2685.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. J-28/99) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of FCI and their workmen, which was received by the Central Government on 24-9-2004.

[No. L-22012/242/98-IR (CM-II)]

N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM LABOUR COURT, JAIPUR**

Case No. J- 28/99

Reference No. L-22012/242/98/IR/(CM-II)

Shri Ram Chandra,
S/o Sh. Toda Ram,
R/o 3A9, Pratap Nagar,
Housing Board,
Jodhpur

... Applicant

Versus

1. The Distt. Manager,
F. C. I. Residency Road,
Jodhpur.

2. Sr. Regional Manager,
F. C. I., Nehru Place,
Tonk Road,
Jaipur,

.....Non-applicants

PRESENT;

SH. R. C. SHARMA, Presiding Officer

For the applicant :
For the non-applicants :
Date of award :

Sh. Rajiv Bhatia,
Sh. P. C. Shah.
31-8-2004.

The Central Government in exercise of the powers conferred under Clause 'D' of sub-section 1 and 2 (A) to Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the 'Act') has referred the following industrial dispute for adjudication to this Tribunal which runs as under :—

“Whether the action of the management of FCI in retiring the workman Sh. Ram Chandra S/o Toda Ram w.e.f. 25-10-1997 instead of 28-02-98 and not allowing him pension benefits on the pattern of Central Govt. is justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. In his amended claim statement, the workman has pleaded that he had taken over the charge of the Shifter on 13-2-1962 in the Food Department of India, whose service was regularized w.e.f. 4-3-1981. On constituting the Food corporation of India (in short, 'FCI') on 1-1-66, his service was transferred from the Food Department to the FCI. He has further stated that he along with his fellow workman Sh. Bhom Bahadur, Chowkidar has opted all the facilities available in the Food Department and for the said purpose, he had given his option by filling up the prescribed proforma under Section 12-A. It was only by his letter dated 20-2-81 that the Regional Manager had asked Sh. Bhom Bahadur and him for giving their option, that he was the employee of the Central Food Department and the facilities of loan, convenience loan, festival loan, etc. were admissible to him as per the rules of the Central Food Department. He has also stated that the non-applicant management by his order dated 21-4-97 asked him to fill up the form of superannuation, whereby his date of superannuation was disclosed as on 20-2-98, whereas in the letter dated 5-5-97, the Manager in his forwarding letter had described his superannuation date on 28-2-98. He has pointed out that in all the relevant documents his superannuation date was disclosed as 28-2-98, but without any reason he was superannuated w.e.f. 25-10-97, while Sh. Bhom Bahadur had continued in the service up to 60 years of age. On these grounds, the claimant has prayed that the retirement order dated 25-10-97 may be quashed and he may be treated in continuity of the service w.e.f. 25-10-97.

3. In the amended written statement, the non-applicants have averred that the workman was the employee of the FCI, whose date of superannuation was on attaining the age of 58 years and that his service was transferred from the Food Department to the FCI on 1-3-69. They have stated that the case of Sh. Bhom Bahadur is entirely different from that of the workman and the workman had never filled up proforma under Section 12-A. It has been further pointed out that the workman had admitted to be the employee of the FCI on 10-8-78 and thereafter

confirming his service under the corporation, the order was issued on 4-3-81. As per the averment, the workman was previously an employee of the Central Food Department but on account of transferring his service on his option, his service was amalgamated in the corporation. It has also been further stated that he was not entitled to get the benefit of superannuation on attaining the age of 60 years.

4. On 28-10-2003, on the pleadings of both the parties, the following points for determination were framed :—

- I. Whether the services of the workman were transferred to the Food Corporation of India and that he had opted all the benefits admissible to him under the Corporation? BOA
- II. Whether the termination of the service of the workman on 25-10-97 is unjustified and amounts to the unfair labour practice? BOA
- III. Whether the non-applicant management has shown the superannuation date of the workman as on 28-2-98 in his letters dated 5-5-97 as well as in the forwarding letter dated 8-10-97? BOA
- IV. Whether the workman is entitled to be deemed in service from 25-10-97 to 28-2-98 and is entitled to get the salary of the said period? BOA
- V. Whether the workman has obtained the CPF benefits and, therefore, he is restrained to get the pensionary benefits? BOM

5. The workman has submitted his affidavit, In the defence, on behalf of the non-applicants, the counter-affidavits of MW-1, Sh. B. K. Gupta, Distt. Manager & M W-2, Sh. Manoharlal, Assistant Manager have been placed on the record, Both the parties have also placed on record the documentary evidence.

6. I have heard both the parties and have gone through the record. Then point-wise discussion runs as under :—

Point No. I

7. The workman's case is that he was transferred from the central Food Department to the Corporation, when it came into the existence, but he had not opted the benefits admissible to him under the Corporation. In the cross-examination, the workman has deposed that his service was transferred from the Food Department to the Corporation w.e.f. 1-1-66. As against it, the management witness Sh. B. K. Gupta has stated in his affidavit that w.e.f. 1-3-69, the service of the workman was transferred to the corporation and has further

clarified that on account of the Gazette notification, the service of the workman as Shifter was transferred on the said date to the Corporation.

8. This fact thus stands un rebutted that on 1-3-69, the service of the workman was transferred to the Corporation. So far as the question of the exercising the option is concerned, the workman has stated in his affidavit that he along with other two employees, viz., Kali Singh and Bhom Bahadur had opted for the Food Department contrary to it, the management's case is that the workman had duly applied through the prescribed proforma to the Corporation for exercising his option to the service thereof. In support of the management's case, the management has exhibited the application form Ex. M-1 which has been signed by the workman, and wherein he had opted the scale of pay applicable to the post under the Corporation to which he was transferred and the benefits e.g. the leave encashment, provident fund and other terminal benefits admissible to the employees of the Corporation were also opted by him. The other documents are Ex. M-2, M-3 and M-4, the letters written by the workman to the authority of the corporation wherein he has reiterated that all his colleagues' services have already been transferred to the Corporation, who are availing all the facilities as per the rules of the Corporation, but he is being deprived of these benefits, though he had already furnished his option for the FCI benefits. He has subsequently requested therein to provide FCI's facilities as being provided to the other employees of the corporation.

9. In his cross-examination, the workman has admitted that the option form Ex. M-1 and other letters Ex. M-2 to M-4 carry his signatures. He has further admitted that he was working in the Corporation, but he has pointed out that the rules of the Food Department were applicable to him. In support of his statement he could not be able to produce any documentary or other trustworthy evidence on the point. He has further admitted that when the Corporation came into existence, his service was automatically transferred therein, that there was a Gazette notification for his transfer and that the rules of the Food Department were applicable to him but he has not given anything in writing in this context. He has further stated that he opted to continue in the central Government service, but has also further admitted that he has got no copy of such option with him.

10. MW-1, Sh. B. K. Gupta could not be shaken on this point in his cross-examination that the workman had not exercised his option for the corporation. The evidence adduced on behalf of the management is definite and positive which goes to establish that the workman had opted for the service under the corporation and the workman has failed to prove this fact that he had not exercised his option to avail the facilities admissible to the

employees of the corporation. This point is, therefore, decided against the workman.

Point No II & III

11. Since the facts involved under both these points are identical, these are being discussed together hereunder.

12. The workman's stand is that since he was working as an employee of the Food Department, the superannuation age under the rules applicable to the employees of the Food Department was on attaining the age of 60 years, but he was retired w.e.f. 25-10-97 instead of 28-2-98. In his cross-examination, the workman has admitted that the superannuation age of the employees working under the Corporation is 58 years. Admittedly, the employee under the corporation is superannuated on attaining the age of 58 years.

13. In this context, on behalf of the workman it has been contended that the workman was allowed to continue in the service up to the age of 59 years and six months, which shows that he was continuing under the service of the Food Department. Secondly, the letter dated 5-5-97 written by the Assistant Manager, FCI to the District Manager, FCI has been relied upon by the workman which says that Sh. Ram Chandra is retiring from the Food Corporation of India on 28-2-98 after completion of 32 years and two months FCI service.

14. Countering this submission made on behalf of the workman, it has been contended by the Id. representative for the non-applicants that these facts were inadvertently mentioned in this letter and similarly the workman was allowed to continue up to 25-10-97 inadvertently, whereas his date of retirement was due on 28-2-96 when he attained the age of 58 years.

15. Vide order dated 25-10-97, annexure 8, the workman was retired and relieved w.e.f. the afternoon of 25th October, 1997 from the service of FCI. The workman has himself admitted that the employees of the Corporation are retired on attaining the age of 58 years and this legal position remains undisputed. Under the forgoing point, it has been decided that the workman has exercised his option for the pay scale and benefits admissible to the employees of the Corporation and thereafter he continuously worked under the employment of the Corporation. His letters Ex. M-2 to M-4, wherein he has reiterated the same facts, also lead to infer that the workman had opted for the service under the Corporation. On these facts, it appears that the factum of his retirement w.e.f. 28-2-98 as mentioned in the letter dated 5-5-97 was inadvertently written on behalf of the Assistant Manager and simply on account of this letter it cannot be presumed that the workman had been continuing under the employment of the Food Department. Moreover, the workman has admitted in his cross-

examination that on the transfer of his service to the Corporation, he was getting the pay admissible to the employees of the Corporation. On these counts, both these points are answered against the workman and in favour of the management.

Point No. IV

16. The Id. representative for the workman contends that the superannuation age of the workman was 60 years and, therefore, he was permitted to continue even after attaining the age of 59 years and six months. The Id. representative further adds that his retirement w.e.f. 25-10-97 is invalid and he should be deemed to be in service from 25-10-97 to 28-2-98 and the salary of this period should be paid to him. This submission has been opposed on behalf of the non-applicants on the ground that the workman had exercised its option for the service under the Corporation wherein the superannuation age is 58 years.

17. Under the forgoing points, it has been decided that the workman had opted for the service under the Corporation and the benefits admissible to the employees of the Corporation were sought by him. It has been shown on behalf of the non-applicants that inadvertently the workman was permitted to continue on his duties despite the fact that his superannuation age became due on 28-2-96. Looking to the aforesaid facts, it is crystal clear that the workman had exercised his option for the service under the Corporation wherein admittedly the superannuation age is 58 years. Therefore, if the workman was permitted to continue even after his superannuation date i.e. 28-2-96, it does not confer any legal right upon him to be deemed to be continued up to attaining the age of 60 years. Therefore, he is not entitled to this benefit and this point is answered against him.

Point No. V

18. On behalf of the non-applicants, the Id. representative has sought to contend that there are no pensionary benefits admissible under the Corporation rules and, therefore, the workman is not entitled to the pensionary benefits. The next contention canvassed on their behalf is that the workman was allowed the CPF benefits which is admissible to the Corporation employees instead of the pensionary benefits.

19. In the cross-examination, the workman has admitted that he has received the gratuity, CPF final and leave balance encashment payments from the Corporation. The Id. representative for the workman could not be able to point out before me any rule/regulation of the Corporation which entitles the workman to get the pensionary benefits after his retirement. In Ex. M-1, the application for giving his option, the workman has opted for the leave, provident fund and all other terminal benefits admissible to the employees of the Corporation instead of

the leave, provident fund, retirement or other terminal benefits admissible to the employees of the Central Government. As such, as per his option form Ex. M-1, the pensionary benefits were not admissible to him when he opted for the Corporation service. On these facts, the non-applicants succeed in establishing that the workman has obtained the CPF benefits admissible to the employees of the Corporation and in the absence of any pensionary benefits he is not entitled to get them. The point is decided accordingly.

20. For the forgoing reasons, the workman could not be able to establish his claim and the reference is answered in negative against the workman in the terms that the workman is not entitled to be retired w.e.f. 28-2-98 and further the action of the Corporation in not allowing him pensionary benefits on the pattern of the Central Government is justified.

21. Let a copy of the award be sent to the Central Government for publication under Section 17(1) of the Act.

R. C. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2004

का.आ. 2686.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एन. ई. रेलवे के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-कम-लेबर कोर्ट, कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या आई.डी.नं. 49/96) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-09-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/44/95-आई.आर.(बी-1)]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th September, 2004

S.O. 2686.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (ID. No. 49 of 96) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Kanpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of N.E. Railway and their workman, which was received by the Central Government on 27-09-2004.

[No. L-41012/44/95-IR(B-I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI SURESH CHANDRA, PRESIDING
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, 117/9,
SARVODAYA NAGAR, KANPUR

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 49 OF 96

In the matter of dispute between :

Shri Banshi Dhar Singh,
C/o Sri B. D. Tiwari,
96/196, Roshan Bajaj Lane,
Ganesh Ganj, Lucknow

AND

Divisional Safety Officer,
Office of Divisional Railway Manager,
N.E.R., Ashok Marg, Lucknow

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide notification No. L-41012/44/95-IR-B-1 dated 22-4-96 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

“Whether the action of the Railway Administration in demoting Sh. Banshi Dhar Singh from the post of Asstt. Guard to Cabinmen and later termination his services by premature retirement is just and legal. If not, to what relief the workman concerned is entitled?”

2. Briefly stated facts of the case of the concerned workman is that while working as Assistant Guard having head quarter at Gonda under the Station Superintendent, N.E. Railway, Gonda he was served with a chargesheet by Shri V.K. Tewari, Divisional Safety Officer N.E. Railway Lucknow, Junction for the charge of not vacating quarter at Lucknow after 18-12-86. It has been alleged by the workman that there had been some dealing with the concerned workman and the Station Suptd., NE Rly, Lucknow in connection with appointment of his son Sri Ram Singh wherein said Station Suptd. Sri G.C. Bhatnagar could not succeed as a result of which the official as aforesaid became prejudiced against the concerned workman and had also threatened the workman for bad consequences against his service. It is further stated that due to aforesaid straneous relations between the concerned workman and the said Station Suptd., N.E. Railway, Lucknow, the workman thought it fit to get his mutual transfer with another railway employee and the said transfer was accepted by the management on 7-12-86. Workman had also applied for mutual exchange of quarters which was also accepted by the management on the same date. It is alleged that the officer with whom the workman was having straneous relations was later on promoted as AOS (G-Optg) and due to earlier prejudice the said officer any how managed to get the application for exchange of quarters reopened and rejected with effect from 4-2-87 and he also suspended the workman w.e.f. 4-2-87. The suspension of the workman was made effective from 23-1-87 for not having vacated railway quarter at Lucknow while the applicant had moved on

transfer to Gonda. The concerned workman replied the charges whereafter action under Disciplinary & Appeal Rules was initiated against the workman by the then Divisional Safety Officer, N.E. Railway, Lucknow by appointing AOS (Coaching) Sri K.R. Ahirwar as Enquiry Officer for holding departmental inquiry against the workman. The workman sought relevant papers from the management in order to reply the charges from the management but the request of the workman was not acceded to. The workman was never given any notice for vacating the quarter. It is also alleged that during the course of inquiry statement of witnesses recorded during inquiry have not been provided to the workman which resulted adversely the defence of the workman. The written consent of the workman was obtained by the authorities of the Railway under duress whereupon the management managed to proceed ahead against the workman with the enquiry without providing reasonable facilities of self defence and even without providing opportunity to be defended by defence assistant and the dates of the inquiry were also not intimated to the applicant properly and the enquiry virtually held ex parte in disregard to the principles of natural justice. Enquiry report has been submitted by the enquiry office without application of mind and without recording a reasoned finding.

3. It has been alleged by the workman that on the basis of enquiry report the applicant was reverted as Cabinman in grade Rs. 800-1100 for three years and the workman was transferred to Gorakhpur after reversion where he joined his duties as Cabinman on 2-3-88. The appeal of the workman against the order of punishment was rejected by the appellate authority without due application of mind and also contrary to Railway Rules. It has further been alleged by the workman that the prejudice of the concerned authorities against the workman has not stopped at this stage. Rather the workman concerned on 2-3-88 i.e. date of joining at Gorakhpur was sent for vision test before D.M.O., Gorakhpur where the workman was kept under medical treatment upto 4-12-88 and ultimately the workman was declared medically unfit for Category A-2 and was declared fit for Category C-I post. Under provisions of railway rules it is provided that when a running/operating staff is medically decategorised his pay is protected, therefore, the workman requested for protection of his pay and his posting on an alternative job of equal scale of pay but the management did not considered his request. The management attempted to absorb the workman as Daftry grade Rs. 775-1025 Running Room Servant Gr. 750-940. The management also offered the post of Running Room Cook for which the workman has not given any refusal. It is also alleged by the workman that lastly he moved an application for his absorption on any suitable post on 24-3-93, but the management not only failed to provide any job to the applicant but has also stopped his salary w.e.f. 5-12-88 and has informed

the workman that in accordance with the manual Para 1315 the applicant was being retired from the service, without any order in writing. The workman has been verbally informed by the authorities of the Railways the workman is no longer in Railway service. It is thus claimed by the workman that he has straightway been terminated without any order in writing to that effect and a false pretence is being taken that since the workman has not given clear acceptance of a lower post on absorption by the management, therefore, there left no option with the management but to retire the workman from the service of the management. Even workman has not been provided with settlement dues. On the basis of above allegations it has been prayed by the workman that he be reinstated on duty.

4. The claim of the workman has been contested by the management. The management filed written statement against the statement of claim of the workman wherein allegations levelled by the workman against the management have been denied venemently. It has also been pleaded by the management that there is no illegal order passed by the management against the workman. All orders passed by the authorities of the railway after due application of mind. All payment due to workman have been made in accordance with the rules of the railway and no cause of action has ever accrued to the workman. The management on the basis of above pleadings prayed that the claim of the workman be dismissed with cost.

5. Rejoinder statement against the written statement of the management has also been filed by the workman wherein nothing new has been mentioned except reiteration of facts already mentioned by the workman in his statement of claim.

6. On the basis of pleadings of the parties learned predecessor vide order dated 6-11-2000 decided the preliminary issue which was framed as under :—

Whether the domestic inquiry conducted by the management was not fair and proper ?

7. The learned predecessor while deciding the above preliminary issue recorded a finding in favour of the workman holding that the domestic inquiry against the workman was not fairly and properly conied by the enquiry officer and the entire inquiry proceeding stand vitiated. After the said order on preliminary issue the management was directed to substantiate the charge against the workman. The management in support of the charge has relied upon the sole oral evidence given by Sri Jawahar Ram Assistant Operational Management Movement NER Lucknow. The witness reiterated the facts contained on the basis of which the workman was finally reverted from the post of Assistant Guard to the post of

Cabinman and his pay was fixed at Rs. 800 per month and that the workman was transferred to Gorakhpur. As Cabinman the workman was referred for his medical test in A-2 Category which he could not pass. He however was declared fit for the post of G-I category in the medical test and on the basis of that report the workman was again offered the post of Daftry, which he declined to join thereafter he was served with a retirement notice/order on 15-10-93. This witness also admitted that workman also lodge a criminal report against this witness and others but the police did not take any action on the same.

8. In his cross-examination this witness admitted that the workman was allowed by Sri Awadhesh Verma the then Asstt. Station Supdt. for mutual exchange of residential quarters. This witness pleaded his ignorance about the fact that whether the exchange of residential quarters by the workman was acted upon on the basis of the said order. He also admitted that if any employee does not comply with the orders of vacation of the residential quarters action by the Estate Officer can be taken against such employees and also a disciplinary action may be taken for the same. This witness clearly admitted that the workman was punished twice by the management by demoting the workman from the post of Asstt. Guard to the post of Cabinman thereby reducing the grade and after fixing the salary on lower post of Rs. 800. He was again directed to be posted as Daftry a lower grade of the post of Cabinman on account of the workman having declared unfit in the vision test of A-1 category. This witness clearly admitted in his examination in chief that the evidence pertaining to the charge levelled against the workman are with the vigilance cell therefore they could not be filed.

9. The workman produced himself as W.W. 1 and denied the allegations and also stated that no documents were made available to him to meet the charges. This witness also stated that having failed in vision test of A-1 category he applied for his posting as Cabinmen which was lying vacant but he was not posted on any of these posts.

10. Heard the parties representatives in detail and also perused the record. The order passed on preliminary issue has also been considered.

11. It is obvious from the record that no justifiable and proper inquiry was ever conducted against the workman and he was demoted from Asstt. Guard to the post of Cabinmen and later on in the garb of being unfit to pass the category. A vision test he was again offered a

post of Daftry, a post below the rank of Cabinman. The management witness has admitted this fact and further admitted that he was twice demoted on one occasion on the basis of inquiry report and later on the basis of workman's failure to pass the vision test. This witness of the management has not denied the fact that an equivalent post of the grade of Cabinman were not available and the workman was directed to join the post of Daftry a grade below the rank of Cabinman when already several post of the grade of cabinmen were available as claimed by the workman. The finding on preliminary issue holding thereby unjust and improper and illegal inquiry goes to show that the action of the management in awarding punishment was not justified. Even additional evidence adduced by the management is of no help to substantiate the charges against the workman. If for the sake of arguments even if it is assumed that the workman did comply with the order of vacation of residential quarters the action of the workman can be well annulled by the state authorities under law. This fact has duly been admitted by the management witness but his statement to the effect that it was not necessary is of no help to the management. There is nothing on record to substantiate the charges framed against the workman. Therefore, on the basis of evidence on record it can safely be held that management action in demoting Sri Banshi Dhar from the post of Asstt. Guard to the post of Cabinman and later on terminating his service by premature retirement is not just and legal.

12. The workman is therefore entitled for his reinstatement.

13. In the instant case the workman admittedly has attained the age of superannuation during the pendency of the adjudication of the dispute. Therefore a direction to reinstate the workman on his original post is not feasible. Instead the workman would be entitled to all benefits of service of the post of Asstt. Guard till he attains the age of retirement and also the post-retirement benefits as admissible to the workman under rules as if workman has never been terminated from railway service.

14. It is also made clear that the payment made to the workman as Cabinman shall be deducted from the arrears of pay payable to the workman.

15. Reference is therefore decided in favour of the workman and against the railway management.

SURESH CHANDRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2004

का.आ. 2687.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-कम-लेबर कोर्ट, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सीजीआईटी-22/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-9-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/69/2003-आई आर (बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th September, 2004

S.O. 2687.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Case No. CGIT-22/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner & Jaipur and their workman which was received by the Central Government on 27-9-2004.

[No. L-12012/69/2003-IR (B-1)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
JAIPUR**

Case No. GCIT-22/2004.

Reference No. L-12012/69/2003-IR (B-1)

Shri Attar Singh,
S/o Sh. Sumeraram,
Village Singhan Kheda,
Tehsil Bayana,
Distt. Bharatpur-321001.

.....Applicant

Versus

1. The General Manager,
State Bank of Bikaner & Jaipur,
C-Scheme,
Jaipur-302001.

2. The Manager,
State Bank of Bikaner and Jaipur,
Bayana Branch,
Distt. Bharatpur-321001.

.....Non-applicants

PRESENT:

Presiding Officer:

Sh. R.C. Sharma.

For the applicant :

None.

For the non-applicant :

Sh. Anurag Aggarwal

Date of award :

15-9-2004

AWARD

1. The Central Government in exercise of the powers referred under Clause D of sub-section 1 to Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (for short, 'the Act') has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication, which runs as under :—

“Whether action of the management of State Bank Bikaner and Jaipur, Jaipur in terminating the services of Shri Attar Singh S/o Shri Sumeraram w.e.f. 29-8-2001 without serving any notice, notice pay or retrenchment compensation is justified? If not, to what relief the disputant concerned is entitled?”

2. The workman has stated in his statement of claim that he was appointed by the non-applicant bank as a 4th Class employee on 1-8-96 who continuously worked upto 28-8-2001, but on 29-8-2001 his service was terminated without giving him one month's notice or the wages in lieu of such notice and the compensation amount. He has further stated that after terminating his service, the fresh hand viz., Sh. Jaidev Sharma has been employed by the non-applicant bank. He has prayed that the termination order may be set aside and he be reinstated in the service with its continuity and all consequential benefits.

3. On 14-9-2004, at the stage of filing the counter statement on behalf of the non-applicants, none appeared on behalf of the workman. No reasonable ground has been assigned on behalf of the workman for his non-appearance before this Court. It, therefore, appears that the workman is not interested in further contesting his claim.

4. Accordingly, a “No Dispute Award” is passed in this matter.

5. Let a copy of the award may be sent to the Central Government for publication under Section 17(1) of the Act.

R.C. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2004

का.आ. 2688.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 53/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-9-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/180/98-आई आर (बी-II)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 28th September, 2004

S.O. 2688.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 53/99) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur (U.P.) now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Central Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 28-09-2004.

[No. L-12012/180/98-IR (B-II)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

**BEFORE SRISURESH CHANDRA HJS, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
SARVODAYA NAGAR, HOTEL KISHOREE,
KANPUR, U.P.**

Industrial Dispute No. 53 of 99

In the matter of dispute between :

Shri Badloo son of Sh. Maiku Lal
Mohalla Miya Tola, Kasba Konda
Jahanabad District Fatehpur U.P.

AND

The Regional Manager
Central Bank of India,
Regional Office, Pandu Nagar,
Kanpur-208 005

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide notification No. L-12012/180/98 IR (B-II) dated 8-3-99, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:—

“Whether the action of the management of Central Bank of India in terminating the services of Sh. Badloo w.e.f. 22-1-98 is justified ? If not, what relief the workman is entitled for ?”

2. The case in short, relating to the present dispute as set up by the concerned workman, is that he was appointed by the opposite party bank on 1-6-93 at the post of peon-cum-daftary at bank's Laluganj Konda Jahanabad Branch to perform the work of permanent nature. Initially the concerned workman was used to be paid Rs. 10/- per day as daily rate wage which was enhanced to Rs. 12/- per day and subsequently in the year 1998-99 the wages of the workman were again enhanced and he used to be paid his daily wages at the rate of Rs. 15/- per

day. The bank also used to pay the wages through vouchers/cheques and wages were used to be paid to the workman on monthly basis. It has also been alleged by the workman that vouchers were being written by the branch manager/accountant of the bank and work of supply of water, sweeping the branch were being shown for making the payment to the concerned workman and the workman was also used to make initials in the name of others at the back of the vouchers. The workman has further alleged that since he had performed the work of permanent nature but he had been deprived of wages as is given to the regular and permanent employee of the same category in the branch. The action of the bank attracts the provisions of unfair labour practice. It has also been alleged by the bank that when the officers of the bank failed to fulfil their assurance, the workman through UTUC served a notice regarding regularising his service as permanent employee which annoyed the bank as a result of which he was removed from service with effect from 22-1-98. Workman has further stated that after the termination of the service of the workman the bank appointed fresh hands for the job which was being performed by the workman. The workman has also pleaded breach of provisions of Section 25F and 25G of the I.D. Act, and on the basis of these allegations the workman has prayed that the action of the management be declared as unjust and he be reinstated in the service of the bank with full back wages and all consequential benefits.

3. The claim of the workman was contested by the management and the management has filed their reply wherein it has been stated by the bank that the workman was engaged as casual labour for few days for bringing water which work was intermittent, occasional and of fluctuating nature as per exigencies of the bank on the basis of no work no pay. The workman did not hold any regular and permanent post in the bank in any cadre. Workman was also not required to mark his attendance and he was attending the casual work at his own sweetwill. The workman was never issued any appointment letter by the bank for any post nor any termination letter was issued by the bank and that the workman had never worked for 240 days in any calendar year preceding 12 months.

4. It has been denied by the bank that it ever terminated the services of the concerned workman. The engagement of the workman was on day to day basis. The workman lastly engaged on 21-1-98 whereafter he left the job of his own accord w.e.f. 22-1-98 and the service condition are not applicable on the workman. The further allegation of the management is that recruitment in the bank is done as per recruitment rules and that the name of

the workman was never sponsored by the employment exchange. It has been alleged that Sri Suttan Lal Saini was already engaged as a regular and permanent peon at bank's Kora Jahanabad in District Fatehpur during the period 1993 to 1998 therefore, question of engaging the concerned workman as peon on permanent and regular basis does not arise. The workman is trying to seek back door entry by way of litigation Bank has further denied the allegation that the workman had ever been made payment in the fictitious names and the workman has been paid wages for the actual days he worked in the branch on casual basis. The workman has never worked on full time basis as peon-cum-daftari in the bank. The workman worked as casual labour for bringing water in Kora Jahanabad Branch of the bank. On the basis of these allegations it has been prayed that the claim of the workman be dismissed as the workman is not entitled for any relief.

5. Rejoinder statement has also been filed by the workman against the written statement of the bank wherein nothing new has been pleaded, except reiterating the facts already alleged by the workman in the statement of claim.

6. The workman Badloo examined himself to prove his case of his employment and retrenchment from service by the management as aforesaid. Contrary to it the management has produced Sri C.K. Shukla Ex-Branch Manager, of Central Bank of India and also Sri Suttan Lal Saini another employee of the bank to rebut the contention of the workman and to support the case of the management. Both the parties have lead oral as well documentary evidence in support of their respective case.

7. Heard the authorised representatives for the parties at length and have also perused the record carefully.

8. It has been contended on behalf of the workman that the workman has worked with the management of the bank from 1-6-93 to 21-1-98 in continuity as a peon-cum-daftari of the bank. It has also been contended on behalf of the workman that the services of the workman commenced at the rate of Rs. 10/- per day which were later on increased to Rs. 12/- per month and again in the year 1998-99 the daily rate were enhanced to Rs/- 15 per day as wages which was paid to the workman on monthly basis. In his claim statement the workman has admitted that all the payment were made to the workman through vouchers and that the vouchers used to be prepared either in the name of the workman or in the name of others and payments were made to the workman after his signatures. The workman continued in the engagement on the assurance of the management that the services of the workman will be regularised and made permanent after completion of three years as daily wager. On expiry of this assurance the

workman served the management with a notice on the advise of President of UTUC in the month of January, 98 under certificate of posting. The management on receipt of this notice terminated the services of the workman w.e.f. 22-1-98.

9. The management has denied all these allegations and stated that the engagement of the workman was done on casual basis on daily rate or as casual worker due to exigency of work.

10. Considering the rival contentions of the parties it has to be seen whether the workman has worked regularly for more than three years period as claimed by the workman without any interruption. In this regard the workman has only relied on his solitary statement. The photocopies of the documents filed on behalf of the workman have been denied and not admitted by the management. The workman has not attempted to prove all these documents with any other evidence. The workman himself has filed a photocopy alleged statement of payments made in the month of July, August to the workman Badloo Prased and also in subsequent months to Sri Ramadhin, Ram Kishore, Shyam Lal, Saheb Lal Amarsingh etc. Again in the month of February 1995 Badloo Prased was paid for 25 days. The Statement of payment filed by the workman goes to support the case of the management that service of different casual labourers were utilized by the management as per exigency of work. It has been urged by the management that daily wager or casual labour cannot be regularised nor they have any right to the post as has been held by the Hon'ble High Court (Div. Bench) in a case of Rajesh Kumar Awasthi versus D.F.O. Special Forestry Division and others reported in 1993 (Vol. 66) FLR 613. The Hon'ble Supreme Court in the case of Himanshu Kumar Vidyarthi versus State of Bihar and another reported in 1997 (Vol 76) FLR page 237 has clearly laid down that the services of a daily wager if terminated he had no right to the post and his case can not be treated under the Industrial Disputes Act. The Hon'ble Supreme Court has also laid down the law that the workman engaged on the basis of exigency or need of the work they are temporary employees working on daily wages under these circumstances their disengagement from service cannot be construed to be retrenchment under the Industrial Disputes Act, 1947. The concept of retrenchment therefore, cannot be stretch upto such extent as to cover these employees.

11. In the present case the workman is admittedly a daily wager employee and therefore, he has no right to the post.

12. The next contention advanced by the workman is that he had worked for more than three years and has also

completed more than 240 days of service preceding one year from the date of his retrenchment or alleged date of termination, he is entitled for the relief as laid down under provisions of Section 25F and 25H of the Industrial Disputes Act, 1947. In this context the workman as has already stated above, has relied on his solitary statement which has been vehemently rebutted by the management witnesses. The workman himself has admitted in his cross examination that the management witness Suttan Lal Saini had worked with the bank during the period his engagement as daily wager. Even in the rejoinder filed by the workman it has been admitted that Sri Suttan Lal Saini regular peon was working with the bank and one Sri Kunji Lal joined the bank on his transfer from Varanasi in the year 1996. Therefore, the onus lies on the workman to prove that he had worked with the bank for more than 240 days. The submission put by the management also finds support from the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in the case between Rain Forest Officer and ST Hadimany reported in 2000 (Vol. 94) FLR 622.

13. On behalf of the workman the law reported in 1999 Vol. 81 FLR page 746 between Smishtha Dubey Versus State Board Etawah and others decided by the Hon'ble Supreme Court has been relied on. In this case Hon'ble Supreme Court has ruled that the Municipal Board can be treated as Industry within the meaning of the said word in Sec. 2(k) of U.P. Industrial Disputes Act, 1947. In the present case there is no dispute that the bank is an Industry. Therefore, so far as this case law relied on by the workman is concerned there cannot be a dispute that the workman or the bank is not an Industry.

14. The workman has attempted in vain to take shelter of provisions of Section 6(p) of U.P. Industrial Disputes Act, 1947 on the ground that after the termination of the services of the workman management bank engaged other persons. It may be reiterated that the workman has not adduced any evidence in this regard to substantiate his contention. As against it is admitted case of the workman in his oral testimony that Sri Saini and another were already in the continuous service during his engagement with the bank. Therefore, no advantage of provisions of Section 25F and 25H of the Industrial Disputes Act, 1947, can also be given to the workman as claimed by him. As such when two permanent employee of the same category were available with the bank in its branch it is not established as to why the bank management would appoint another person for the same job and that too without taking recourse of their established procedure of recruitment through authorised persons/officers of the bank. The workman has not been able to prove the case that he was a valid appointed person. On the contrary it is the admitted case

of the workman that he was never issued any appointment letter nor served with any termination letter in writing. Daily and casual workers who are engaged in disregard of all rules cannot be allowed to enter in the service from back door and the labour court cannot be allowed to be used as means for such back door entry. The Hon'ble High Court, Allahabad in a case reported in 1999 Vol. 81 FLR 319 between State of U.P. and Labour Court Haldwani and other has clearly laid down that a daily and casual workers who are engaged in disregard of all rules cannot be allowed to enter in service through back door. The facts of the present case appears to be similar and therefore as per his own contentions raised through statement of claim filed by him is that he had worked on daily wages with the assurance that his services will be regularised and on failure he had served a notice and thereafter the services were terminated by the management. Thus it is a clear case of an attempt of the workman to make this entry in the service of the bank through back door which cannot be permitted under the law.

15. For the reasons stated above it is established that the workman has not been able to prove that he had ever been employed by the management on regular basis after following due process of law and that he had worked for more than 240 days regularly on the job preceding the date of his alleged retrenchment. In the absence of proof as above the workman is not entitled for any relief whatsoever.

16. It is, therefore, held that the action of the management in terminating the services of the workman with effect from 22-1-98 is not unjustified. The workman is, therefore, not entitled for any relief.

SURESH CHANDRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2004

का.आ. 2689.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन एयर लाइंस लि., के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 14/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-09-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-11012/31/96-आई आर (सी-1)]

एन.पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th September, 2004

S.O. 2689.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 14/2003) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Airlines Ltd., and their workman which was received by the Central Government on 23-09-2004.

[No. L-11012/31/96-IR (C-I)]

N. P. KESAVAN Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JAIPUR

Case No. CGIT-14/2003

Reference No. L-11012/31/96-IR (C-I)

Kumari Chandra Alwani
D/o Sh. B. C. Alwani,
Quarter No. 504,
Raja Park, Sindhi Colony,
Adarsh Nagar,
Jaipur

.....Applicant

Versus

1. Station Manager,
Indian Airlines Ltd.,
Nehru Comple,
Tonk Road,
Jaipur.

2. General Manager (Personnel),
Indian Airlines (Northern Region),
S. Jung Airport,
New Delhi-110003.

.....Non-applicants

PRESENT:

Presiding Officer	:	Sh. R. C. Sharma.
For the applicant	:	None.
For the non-applicants	:	Sh. Deepak Choudhry
Date of award	:	08-09-2004

AWARD

1. The Central Government in exercise of the powers referred under Clause D of sub-section 1 & sub-section 2 (A) to Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (for short, 'the Act') has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication, which runs as under :—

“क्या इण्डियन एयरलाइंस लिमिटेड, जयपुर के प्रबंधतंत्र द्वारा कर्मकार सुश्री चंद्रा अलवानी, स्टैनो टाइपिस्ट की सेवा दिनांक 10-4-96 से समाप्त किया जाना विधिवत, उचित एवं न्यायसंगत है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस राहत की पात्र है ?”

2. The claimant in her statement of claim has petitioned that she was appointed by the non-applicant management on 8-6-93 as bilingual typist for full time on the payment of wages @ Rs. 75/- per day, who continuously worked up to 10-4-96. Her wages were increased to the tune of Rs. 85/- per day subsequently, but she was refused to join the duty on 11-4-96. She has further stated that she has completed over 240 days whose service was terminated in violation of Section 25-F of the Act. She has also averred that one Sh. Om Prakash Sharma was appointed after her termination without affording her an opportunity of employment. She has prayed that the termination order dated 11-4-96 be cancelled and she may be reinstated in the service with its continuity and back-wages.

3. The non-applicants their written statement have disputed the claim and have stated that she was engaged as a part-time contractual bilingual typist at a consolidated payment of Rs. 50/- per day, who worked only for 2-3 hours a day.

4. On 1-9-2004, at the stage of submitting her affidavit in evidence, none was present on behalf of the workman. No reason could be assigned for her absence. It appears that the workman is not interested to further contest her case. Therefore, a 'No Dispute Award' is passed in the matter.

5. Let a copy of the award may be sent to the Central Government for publication under Section 17(1) of the Act.

R. C. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2004

का.आ. 2690.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन एयर लाईंस लि., के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नई दिल्ली-11 के पंचाट (संदर्भ संख्या 101/95) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-09-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-11012/25/93-आई आर (विविध) (सी-1)]

एन.पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th September, 2004

S.O. 2690.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 101/95) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, New Delhi-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Airlines, and their workman which was received by the Central Government on 23-09-2004.

[No. L-11012/25/93-IR(VIVIDH) (C-I)]

N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Presiding Officer : R. N. RA1

I. D. No. 101/95

SH. JAIPAL SHARMA

Versus

INDIAN AIRLINES LTD.

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-11012/25/93-IR (VIVIDH) (C-I) Central Government Dt. 03-11-1995 has referred the followings point for adjudication.

The point truns as hereunder :—

“Whether the claim of Shri Jaipal Sharma is justified that the management of Indian Airlines now Indian Airlines Ltd. illegally terminated his services on 19-12-1992 after continuously employing him for over 240 days? If so, to what relief Shri Jaipal Sharma is entitled.

The claimant has stated in his statement of claim that he was appointed as Technician in the year 1982 with the management as is evident from the Register of Employment and remuneration-cum-paid vouchers and daily permits (copies annexure A, B & C). He performed technical duties of welder, carpenter, fitter and mechanic and had no control or supervision over the work of any other employee as none worked under him, as he was a workman under Section 2 (s) of the ID Act, 1947. The management after 10 years of service refused to him the

work duty from 19-12-1992 without any notice and retrenchment compensation. He has worked for 240 days so he deserves to be reinstated.

The management has filed written statement. In the written statement, it has been stated that the Hon'ble High Court vide its order dt. 13-5-1991 held that the claimant was acting as an independent contractor and had been collecting money from repairing the vehicles and dismissed the writ petition filed by the claimant. It has been further stated that the workman was given the duty of repairing the vehicles and he charged money for the work done and he was to enter Airlines so he was given pass. In 1991, his case has been rejected by the Hon'ble High Court and he has been treated as Mechanic to repair the vehicles and got money for his durty.

The workman has filed rejoinder and in his rejoinder, he has reiterated the averments of his statement of claim.

Heard arguments from both the sides and perused the papers on the record. It was submitted from the side of the workman that he has been issued pass on 6-1-1990 and payments have been made to him upto 1-1-1990. He has not filed any paper which shows he has received any payment after the order of the Hon'ble High Court. The Hon'ble High Court has specifically held that the claimant was acting as independent contractor and had been collecting money for repairing the vehicles, copies of the estimate admittedly signed by the claimant and payment of bills for those amounts are on record. When his writ was dismissed on 13-5-1991, then he took up a case of work of 240 days upto 19-12-1992 but he has not filed any paper to prove his contention. all the papers which he has filed are of 1990 whereas the Hon'ble High Court rejected his writ petition on 13-5-1991. As such, the claimant has not succeeded in establishing his case that he worked for 240 days after his writ petition was dismissed by the Hon'ble High Court. So he is not entitled to any relief as prayed for.

The reference is replied thus :—

The claim of Shri Jaipal Sharma is not justified that the management of Indian Airlines now Indian Airlines Ltd., illegally terminated his services on 19-12-1992 after continuously employing him for over 240 days. The workman applicant is not entitled to get any relief as prayed for.

The award is given accordingly.

Dt. 16-9-2004

R. N. RA1, Presiding Officer

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

का. आ. 2691.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, पटना के पंचाट (संदर्भ संख्या 6 (C)/98) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-09-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-17012/65/97-आई.आर. (बी. II)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 2004

S.O. 2691.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 6 (C)/98) of the Industrial Tribunal, Patna (Bihar) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of and their workmen, received by the Central Government on 28-09-2004.

[No. L-17012/65/97-IR (B-II)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, PATNA

Reference Case No. 6C of 1998.

Management of Life Insurance Corporation of India, Patna and their workman Sri Dinesh Singh, represented by the General Secretary, Life Insurance Worker's Union, Patna.

For the Management : Sri S.K. Prasad, Advocate.

For the Workman : Sri Ashok Kumar Sinha, Advocate.

Present : Priya Saran, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Patna

AWARD

Patna, dated the 24th September, 2004

By the adjudication order No. L-17012/65/97-IR (B-II) dated the 31st March, 1998 the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi has referred, under Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter to be referred to as 'the Act'), the following dispute between the management of Life Insurance Corporation of India,

Patna and their workman Sri Dinesh Singh represented by Life Insurance Workers' Union, Patna for adjudication to this Tribunals :

"Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India in terminating the services of Sh. Dinesh Singh is legal and justified? If not, to what relief the said workman is entitled?"

2. It is one of such cases wherein the parties although filed written statement putting forward their case but later withdrew themselves from contest. None of them has adduced any evidence whatsoever. Since the validity of termination of the worker Sri Dinesh Singh is in dispute it was entirely on his shoulders to establish his claim, but surprising enough he has backed out and even left attending the Court since 31-8-2000. His lawyer was although informed vide order dated 5-2-2004 but to no effect.

3. Worker's case is that he was appointed by concerned authority and worked at Dehri-on-Sone Life Insurance Corporation as Class IV employee since March, 1990. He worked continuously for three years without any charge and blemishes. The management illegally terminated his services in utter violation of various provisions u/s. 25F.N. & H. of Industrial Disputes Act and resorted to unfair labour practice. He accordingly prayed for reinstatement with back wages.

4. As per management, the worker was appointed purely on casual basis whenever arose such exigency and he was paid for the work done on day to day basis. He never worked for 240 days in any block of 12 months. He was given a chance for appointment alongwith others in the year 1992 but he failed to qualify. In view of all above, the management alleges that he is not entitled to any relief.

5. We have already noted that in the light of the dispute and issue underlying therein it was incumbent on the worker alone to establish his claim for getting the relief he has sought for. Since, no material whatsoever either oral or documentary has been brought on record in support of his claim besides he has totally left participation in the proceeding for more than four years. I have no hesitation in inferring that the worker has no case at all nor a dispute as such ever existed for awarding any relief to him. He has not proved that he was appointed by the Life Insurance Corporation and he served at Dehri-on-Sone since March, 1990 with his entitlement for reinstatement. The result is in absence of any evidence that the worker has not established his case nor his claim deserves any consideration as prayed in his written statement.

6. To sum up I would say that and hold as such that no violation of any legal provision has been proved in the alleged termination of worker's service by the Life

Insurance Corporation and he is not entitled to any relief whatsoever.

7. Award accordingly.

PRIYA SARAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2692.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सार्दन रेलवे के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चेन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या आई.डी. 60/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-09-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/178/2002-आईआर(बी. I)]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st October, 2004

S.O. 2692.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.60/2003) of the Central Government Industrial Tribunal, Patna/Labour Court, Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Southern Railway and their workman, which was received by the Central Government on 30-09-2004.

[No. L-41012/178/2002-IR(B-I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHENNAI

Tuesday, the 27th July, 2004

PRESENT : K. Jayaraman, Presiding Officer

Industrial Dispute No. 60/2003

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), between the Management of the General Manager, Southern Railway, Chennai and their workman)

BETWEEN :

Sri R. Santhanakrishnan : I Party/Petitioner

AND

1. The General Manager, : II Party/Management
Southern Railway, Chennai.

2. The Divisional Railway, Manager,
Southern Railway, Trichy.

3. The Divisional Mechanical Engineer,
Diesel Shed, Southern Railway, Trichy.

APPEARANCE :

For the Workman : M/s. M. Rathinasabapathy,
K. Anbarasan &
K. Thangapandi, Advocate.

For the Management : Mr. P. Arulmudi, Advocate.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L-41012/178/2002-IR (B-I) dated 28-03-2003 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the order of Compulsory Retirement from service imposed on Shri R. Santhanakrishnan by the management of Southern Railway, Trichy is legal and justified and if so, what relief the workman is entitled?"

2. After the receipt of the reference, it was taken on file as I.D. No. 60/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

3. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :—

The Petitioner was appointed as Kalasi in Railways on 6-12-63 at the age of 18 and due to his hard work and sincerity he was promoted to Grade I Fitter in the year 1988 and he was working in that post for more than 12 years. As he was a trade union leader, he solved several problems of staff across the table, even though his union was not recognised. While so, to his surprise and shock he was compulsorily retired on 10-4-2001, while he was having four years of service for his regular superannuation. No doubt, under Rule 1802 (a)/1803(a) read with para 620 (ii) of Manual of Pension Rules-1950/1804(a) of Indian Railways Establishment Code Vol. II the petitioner was compulsorily retired, the order passed by the authorities are illegal. Till the compulsory retirement, he has rendered unblemished record of service without even a single adverse remarks. The Petitioner has submitted representation to Senior DME Diesel Shed, GOC Trichy dated 24-1-2001 for which a reply was received rejecting his claim. Though there is a rule to compulsorily retire an employee on the basis of public interest, the appointing

authority should have given sufficient and satisfying reasons that in what way his performance affects the public interest. But, the order passed by the authorities was without giving any genuine reason and opportunity, therefore, it is illegal and violation of principles of natural justice and also arbitrary one. It is well established by the Apex Court and High Courts that the order of compulsory retirement shall not be passed as a short cut to avoid departmental enquiry when such course is more desirable. Therefore, the order of compulsory retirement in this case is not only unlawful but also motivated, therefore, the said order is invalid as being inconsistent with Article 311(2) of the Constitution. On 29-9-2000 an accident was taken place near Panruti in which the Mechanical Shed has changed the number in the loco so as to prove the derailed loco was in good fettle, it means the reasons for derailment would be defective track. However, this impersonation of loco was discovered by the Engineering Department and an enquiry was conducted and this was also published in newspapers. As a consequential effect, the then Senior DME Diesel Shed Mr. Uma Shankar had been transferred to Mysore and the then AME Mr. Johnson was asked to go on voluntary retirement, then the DME Mr. Chandrasekaran was transferred to Diesel Workshop at Ponmalai. Only to victimize for this, the superior officers have taken action against the Petitioner and compulsorily retired him. The order of compulsory retirement passed is without any basis and therefore, it is not valid in law. Further, the authorities concocted stories to justify their action is unlawful and it is clearly proved that the compulsory retirement against the Petitioner has been ordered with ill motivation and further to curb the trade union activities and also to create terror among the co-workers. The petitioner who is a trade union leader in an unrecognised union was able to solve certain co-workers problems in amicable way across the table, hence the majority of the workers were behind him for which the recognised union leaders got worried and lodged false complaints against the Petitioner which resulted for his compulsory retirement. In addition to this, he was accustomed to represent the attitude of indiscipline and corrupt practices against the recognised union leaders and they have succeeded in their attempt by influencing the officials. Therefore, for all these reasons, the petitioner prays to pass an award to reinstate the petitioner into service with all attendant benefits from the date of compulsory retirement and pass such other further relief.

4. As against this, the II Party/Management in its Counter Statement alleged that the Petitioner cannot raise and agitate the matter of premature retirement from service before this Tribunal, as the subject matter comes within the purview of Service Matters as defined under Section 3(q) of Administrative Tribunals Act, 1985. The Petitioner thought alleged that during his tenure of his service in

diesel shed at Ponmalai he served without any complaint, his performance was continuously below average. In the field work also, it was observed that he was not used to co-operate with the supervisors in discharging the assigned job. Further, he was unwilling to shoulder higher responsibilities which he was supposed to discharge as a highly skilled Grade I Fitter and he was not dependable for entrusting job related to safety aspects pertaining to the maintenance of locomotives in diesel shed, Ponmalai. It is further alleged that in spite of continuous personal counselling during various spells, the Petitioner was not mentally in a position to change his attitude for improving his performance towards betterment of the system. Further, it is also contended that he also used to be very careful and shrewd enough in avoiding a situation which would have otherwise led to disciplinary action. Further, the Petitioner used to instigate the staff directly to work against the system and that was an indication to cause commotion and unrest in diesel shed floor. Due to this attitude, the section supervisors were unable to allot him any safety oriented work pertaining to maintenance of locomotives as they strongly felt that he would play a mischievous role hampering the safety of the locomotives. It is also noted that the Petitioner involved in man handling of his own colleagues of diesel shed by using diesel components as a weapon for fight. During the year ending 1998, 1999 and 2000 the annual confidential reports and reports of Petitioner would show that the Petitioner had not improved his quality of work and did not discharge and perform his duties with devotion to duty, efficiency and sincerity. Therefore, as per provisions contained in Rule 1802(a) and 1802(b) of Indian Railway Establishment Code Vol. II, the appointing authority has passed an order to retire him compulsorily and his case was referred to review committee for scrutiny of performance of duty and quality of work and on the basis of the recommendation of Review Committee the Petitioner was to be prematurely retired. The Petitioner was provided with an opportunity to explain against the proposed action of premature retirement and he had submitted his representation dated 24-1-2001 accepting the premature retirement under provisions. Therefore, the Petitioner was prematurely retired by terminating his service w.e.f. 10-4-2001. It is in consonance with rules and provisions laid down by Indian Railways Establishment Code Vol. II and also the same is in order. Therefore, the Petitioner is not entitled for the relief of reinstatement, continuity of service and back wages as sought for by him. Therefore, the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs.

5. In these circumstances, the points for my consideration are—

- (i) "Whether the order of compulsory retirement from service imposed on the Petitioner by the II Party/Management is legal and justified?"

(ii) To what relief, the Petitioner is entitled?"

Point No. 1 :—

6. The main contention of the Petitioner in this case is that the order passed by the II Party/Management compulsorily retiring him from service was passed with an ill-motivation particularly to curb his trade union activities and also to create terror among the co-workers, therefore, it is unlawful, motivated and invalid and inconsistent with Article 311 (2) of the Constitution. To substantiate his claim, the Petitioner has examined himself as WW1 and also examined one Mr. Sankaranarayanan as WW2. On his side, he has marked documents Ex. W1 to W7 and on the side of the Respondent/Management one Mr. Rajendra Prasad who is working as Welfare Inspector was examined as MW1 and on the side of the Respondent, seven documents namely Ex. M1 to M7 were marked. On behalf of the Petitioner, it is contended that the Petitioner was holding the post of Assistant General Secretary in the Southern Railway Employees Union, which is a registered trade union, though unrecognised. The Petitioner served in the union and helped his colleagues. There were some ill-feelings between the recognised union such as SRMU and SRES with the Petitioner's Union. Therefore, due to inter-party rivalry and on the instigation of the recognised union, the Petitioner was sent out of service on compulsory retirement. Usually, the recognised union leaders were not doing their work properly and further, it is not possible to extract work from them. This sort of lapse on the part of recognised union leaders were raised time and again by the Petitioner and as a result, enmity was widened between the recognised union leaders and the Petitioner and this was the root cause for sending the Petitioner on compulsory retirement. Further, during 2000, the Tripathi Express train engine had derailed near Panruti and the derailed loco was re-railed and brought to diesel shed at Ponmalai for examination and related enquiry. At that time, the loco people wanted to escape from the derailment have impersonated another loco, which was stationed at the loco shed. But, it was discovered subsequently by the Engineering Department and the matter was also brought to the higher ups and this fact also was published in newspapers. As a consequential for this, several senior officers have been transferred from the station. But, the affected persons were under wrong impression that the Petitioner only has released this fact to the press and also to Engineering department and therefore, the Petitioner was made as a scapegoat and victimised by way of compulsory retirement.

7. But, though the Petitioner alleged that the order of compulsory retirement was based on the inter-party

rivalry and also victimisation, he has not produced any solid proof to substantiate his claim. Though he has examined one person Mr. Sankaranarayanan namely WW2, on perusal of oral evidence adduced on the side of the Petitioner, I find it is not established that the Petitioner was victimized and made as a scapegoat for all these reasons and no documentary proof was produced before this Tribunal to substantiate the contention of the Petitioner.

8. Then, the learned counsel for the Petitioner argued that as per Railway Board's orders, an employee can be compulsorily retired by the appointing authority under certain circumstances, the only phrase mentioned in that Rule "Public Interest" has no definition in the statute book. Hence, order of compulsory retirement is contrary to Board's order and against the natural justice and further, it is settled by Apex Court and High Courts judgements that railway servant should not be compulsorily retired on the ground of specific acts of misconduct as short cut to initiating action under DAR. Further, it was held in number of judgements that when an employee is to compulsorily retired, the entire performance of his full service is to be assessed and if there is no progress, then only the extreme step of compulsory retirement that too under Article 311 by giving reasonable opportunity has to be effected. But, in this case, in the order except he was compulsorily retired in public interest, no reason was stated by the appointing authority. Further, though it is stated that the performance of Petitioner was below average in the Annual Confidential Reports, the Respondent/Management had never pointed out the poor performance of the Petitioner at any point of time during the Petitioner's 37 years of service except the last two years of confidential reports. Even for these adverse confidential reports, the Petitioner has given representation to the adverse remarks. But, till now, the Respondent/Management has not given any reply and therefore, it cannot be presumed that the performance of the Petitioner was below average. It is an admitted fact that no charge sheet was given to the Petitioner with regard to his performance. Under such circumstances, except the adverse confidential report that too for the years 1999 and 2000, there was no adverse remarks against his long past service. Under such circumstances, adverse remarks made by the officers was only to victimize the Petitioner for the reasons stated above. Further, the Senior Section Engineer (Loco Foreman) is having some unlawful dealings with the recognised union leaders who are all money lenders and only on their ill-adverse, the Senior Section Engineer had gone to the extent of saying that the performance of Petitioner is below average. Under such circumstances, no inference can be

drawn from the adverse remarks made by the Senior Section Engineer.

9. But, I find though on behalf of the Petitioner, these allegations were made, there is nothing to show that the Senior Section Engineer (Loco Foreman) had made these adverse remarks on the instigation of recognized union leaders. Further, the Petitioner in his cross examination has admitted that he has no enmity against the Respondent/Management. Under such circumstances, I find these allegations on behalf of the Petitioner are made only as an afterthought.

10. Further, it was argued on behalf of the Petitioner that the order of compulsory retirement was issued by the Senior DME only on the personal vengeance and also on biased nature therefore, it is highly illegal and there is no justification on the part of the Respondent/Management.

11. But, as I have already stated that so many allegations were made against the Senior DME, the appointing authority and since the Petitioner has admitted that he has no enmity with the Senior DME, I find there is no proof to show that the Senior DME has passed the order impugned on the ground of biased nature.

12. As against this, the learned counsel for the Respondent/Management has argued that the decision under Indian Railways Establishment Code, the competent authority can exercise powers based on the subject and satisfaction arrived on the basis of work, conduct and performance of Railway servants. It is only review of the Petitioner's work for certain period and therefore, if the Petitioner wants to complain against the orders of the competent authority, he must establish before this Court the malafide on the part of the authority or to prove that order was founded on the misconduct. But, in this case, the Petitioner has admitted that he has no enmity against the officer, who has passed this order. Further, he has not attributed any motive on the said officer. Therefore, he has not established the alleged malafide on the part of the authority or he has not substantiated his contention that the order was passed in a biased nature. Under such circumstances, he cannot question the order passed by the competent authority in this matter. Further, it was also argued on behalf of the Respondent that though the Petitioner alleged that he has got unblemished record of service, from the records produced by the Respondent namely copy of service book of the Petitioner, it is clear that he was punished for some misconduct and further the Petitioner's work and performance were found to be unsatisfactory and it was also found that he is unfit for

further retention in railways. It is also argued on behalf of the Respondent that Petitioner is trying to confuse the confidential report and compulsory retirement. In the confidential report it is mentioned that his work is below average and further his superior officers have mentioned that he was unwilling to shoulder higher responsibilities which he was supposed to discharge as a highly skilled Grade I Fitter and further he was not dependable for entrusting job related to safety aspects pertaining to the maintenance of locomotives in diesel shed, Ponmalai. Under such circumstances, it cannot be said that the order passed by the concerned authority is illegal. It is further argued that even for the notice issued by the Respondent/Management dated 9-1-2001, the Petitioner in his representation dated 24-1-2001, a copy of which is marked as Ex. W4, has not challenged the order of the Respondent. Further, he represented in the letter dated 24-1-2001 that he is accepting the order passed by the authorities. Though he has stated that it was obtained by coercion and undue influence, there is no proof to substantiate this contention of the Petitioner. Further, it is made only as an afterthought. Since the premature retirement order was not passed under Discipline & Appeal Rules, and the order was passed in public interest by the competent authority, the Petitioner cannot challenge the same before this Tribunal. This decision was taken by the competent authority as a policy decision based on the subject into the satisfaction of the concerned authority and also based on the work performance of the employee namely the Petitioner herein over a period of time, under such circumstances, it cannot be questioned before this Tribunal. It is further argued on behalf of the Respondent that under the provisions of Indian Railways Establishment Code, this compulsory retirement is squarely covered by the definition of service matter under section 3(q) of Administrative Tribunal Act, 1985. Further, the Petitioner has not alleged any violation of provisions under Industrial Disputes Act, 1947. Therefore, Industrial Dispute Act is not applicable in respect of the employees to whom fundamental and supplementary rules, Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules apply. In this case, since the Petitioner has not alleged any violation under Industrial Disputes Act, 1947, he cannot file this Claim Statement before this Tribunal.

13. But as far as this contention is concerned, the Respondent has not established that the Petitioner cannot challenge the order impugned of the Respondent/Management before this Tribunal. Further, the Respondent has not stated under which provisions of the Act, it is barred. Under such circumstances, I am not accepting the contention of the learned counsel for the Respondent

with regard to this matter. But, with regard to the contention of the Petitioner, since he has not established before this Tribunal that the competent authority has not passed the order as per the provisions/ rules, I find the competent authority has got every right to pass an order of compulsory retirement by assessing the individual's work performance and also by satisfying the continuance of individual's services. In this case since the competent authority after satisfying the work performance of the Petitioner over a period of time and also after perusing the confidential reports of the superior officers, has passed the order against the Petitioner compulsorily retiring him from service, which was also approved by the review Committee and therefore, under such circumstances, I find in this case the order passed by the competent authority of the Respondent/Management is legal and justified. Therefore, I find this point against the Petitioner.

Point No. 2 :—

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioner is entitled ?

14. In view of my above findings that the order passed by the Respondent/Management against the Petitioner is legal and justified, I find the Petitioner is not entitled to any relief. No Costs.

15. Thus, the reference is disposed of accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 27th July, 2004.)

K. JAYARAMAN, Presiding Officer

Witnesses Examined :—

For the I Party/Workman : WW1 Sri R. Santhanakrishnan
WW2 Sri R. Sankaranarayanan

For the II Party/Management : MW1 Sri Rajendra Prasad

Documents Marked :—

For the I Party/Workman:—

Ex. No.	Date	Description
W1 series(3)	Nil	Xerox copy of the medical receipt, charge sheet and proceedings of Sr. DME Diesal, Ponmalai.

Ex. No.	Date	Description
W2 Series(3)		Xerox copy of the charge sheet representation of Petitioner and letter of Sr. DME Diesal, Ponmalai.
W3	Nil	Xerox copy of the Indian Railways Establishment Code Vol. II (two pages)
W4	24-01-01	Xerox copy of the representation given by the Petitioner
W5	16-03-01	Xerox copy of the reply given by the Respondent
W6	09-04-01	Xerox copy of the order of compulsory retirement issued to Petitioner
W7	16-01-02	Xerox copy of the letter from Divisional Personnel Officer, Trichy to Petitioner

For the II Party/Management :—

Ex. No.	Date	Description
M1	04-10-91	Xerox copy of the penalty advise issued to Petitioner
M2	23-08-00	Xerox copy of the confidential report of the Petitioner
M3	09-01-01	Xerox copy of the order of appointing authority.
M4	15-09-00	Xerox copy of the letter of Sr. DME/DSL/GOC regarding age/ service review.
M5	Nil	Xerox copy of the Indian Railways Establishment Code Vol. II
M6	Nil	Xerox copy of the Railway Services D & A Rules, 1968 relevent pages
M7	Nil	Xerox copy of the service register of Petitioner.

Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2004

New Delhi, the 1st October, 2004

का. आ. 2693.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चैन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या आई०डी० 77/642/643/644/647-2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-09-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-12012/156/1998-आई.आर.(बी. I)]

[सं० एल-12012/160/1998-आई.आर.(बी. I)]

[सं० एल-12012/165/1998-आई.आर.(बी. I)]

[सं० एल-12012/164/1998-आई.आर.(बी. I)]

[सं० एल-12012/163/1998-आई.आर.(बी. I)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

S.O. 2693.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. I.D. 77, 642, 643, 644 & 647/2001) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Chennai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Standard Chartered Bank and their workman, which was received by the Central Government on 30-09-2004.

[No. L-12012/156/98-IR (B.I)]

[No. L-12012/160/98-IR (B.I)]

[No. L-12012/165/98-IR (B.I)]

[No. L-12012/164/98-IR (B.I)]

[No. L-12012/163/98-IR (B.I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
CHENNAI

Friday, the 20th February, 2004

PRESENT : SHRI K. JAYARAMAN, Presiding Officer

Sl. No.	I.D. No.	TNID/ CGID No.	Reference No. & Date	I Party/Petitioner	II Ind Party/Management
1	2	3	4	5	6
1.	77/2001	TNID No. 18/99	L-12012/156/98/IR (B-I) dated 08-01-99	Shri D. Peter, C/o Standard Chartered Bank Employees Union	The Senior Manager, (Emp. Relations & West), Standard Chartered Bank, Chennai.
2.	642/2001	CGID No. 32/99	L-12012/160/98/IR (B-I) dated 29-01-99	Shri D. Kotewara Roa, C/o General Secretary, All India, Standard Chartered Bank, Employees Federation.	The Senior Manager, (Emp. Relations & West), Standard Chartered Bank, Chennai.
3.	643/2001	CGID No. 33/99	L-12012/165/98/IR (B-I) dated 29-01-99	Shri S. Kripakaran, C/o Standard Chartered Bank Employees Union	The Senior Manager, (Emp. Relations & West), Standard Chartered Bank, Chennai.
4.	644/2001	CGID No. 34/99	L-12012/164/98/IR (B-I) dated 29-01-99	Shri I. Magimai Doss, C/o Standard Chartered Bank Employees Union	The Senior Manager, (Emp. Relations & West), Standard Chartered Bank, Chennai.

1	2	3	4	5	6
5.	647/2001	CGID No.122/99	L-12012/163/98/IR (B-1) dated 22-01-99	Shri G. Thirunavukkarasu C/o Standard Bank Employees Union	The Senior Manager, (Emp. Relations & West), Standard Chartered Bank, Chennai.

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), between the Management of Standard Chartered Bank and their workmen).

APPEARANCE:

For the Claimant : Mr. G. Balasubramanian
Advocate

For the Management : M/s. T. S. Gopalan & Co.
Advocates

AWARD

I.D. No. 77/2001:—

The Central Government, Ministry of Labour vide Notification No. L-12012/156/98/IR(B-1) dated 08-01-1999 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication. The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 18/99 and after the constitution of this Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 77/2001.

2. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :—

“Whether the action of the management of Standard Chartered Bank, Chennai in dismissing Shri D. Peter, Sub-staff from service with effect from 21-7-96 is justified? If not, what relief the workman is entitled?”

3. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :—

The Petitioner was employed in the II Party/Management in the year 1992 as a sub-staff. The II Party/Management has only one union namely Standard Chartered Bank Employee's Union and Federation. The bank introduced three voluntary retirement schemes in the year 1994, 1995 and 1996, but there were

not many takers. Finding that the voluntary retirement schemes did not yield the desired results, the bank began to terrorise the workmen coupled with a plan to do away with services of the leading functionaries of the union. While so, the charge memo was served on the Petitioner on 26th March, 1996 alleging assault, riotous or disorderly or indecent behaviour on the premises of the bank and doing act prejudicial to the interest of the bank and the Petition was suspended along with four other employees. While so, departmental enquiry was going on, the suspension was revoked on 1-10-96 and the Petitioner continued to work until dismissal on 21-7-97. An appeal was made by the Petitioner and it was dismissed. Then the Petitioner raised an industrial dispute before the conciliation officer and on its failure, the matter was referred to Govt., which in turn referred this matter to this Tribunal of adjudication.

4. The facts of the case briefly as follows :

In the charge sheet issued to the Petitioner it was alleged that on 26-3-96 at about 3.00 pm two persons entered into the bank's main branch at Madras, where one Mr. S. Saha was working. The two persons did not approach any officers or superiors to the said Mr. Saha and they took the law into their own hands and demanded of the said Mr. Saha of some overdue balance on his credit card to be paid instantaneously. The other employees in the floor gathered there and in the mean time the union leader was also called there. Since the persons did not wear badge as per the bank's rules and till they left they did not exhibit their identity but when asked to leave they left in their motorcycle. In the charge-sheet it was alleged that the Petitioner and four others assaulted the officer, who had wreathing stomach pain, a bleeding nose etc. which were found to be false as could be seen from the medical report furnished by the Respondent/Bank in the course of departmental enquiry. During the enquiry and the subsequent appeal several pertinent points were raised by the Petitioners but the bank had nothing to say except there was nothing wrong in reply. Both the Disciplinary authority and Appellate Authority took erroneous view that no evidence was let in to prove the

innocence of the Petitioners and they conveniently forgot that it was the duty of respondent/Management to prove its charge. Only with the intention of doing away with the award staff and their union, the management had resorted to this drama and dispensed with the Petitioner along with four others. It is nothing but victimisation for trade union activities and it was intended more to terrorise the entire award staff with a view to dispense with them enblock. The Petitioners have not committed any mischief much less any assault or other acts of criminal nature. Hence he prays that an award may be passed directing the Respondent to reinstate the petitioners in these industrial disputes in the services of the bank with back wages and other attendant benefits.

5. As against this, the respondent in counter Statement alleged that the Petitioners were chargesheeted for certain alleged misconducts on 26-3-96. One Mr. Brayan D'Souza, an official of the credit card centre alongwith Mr. Sylvester Jerry, a collection agent met Mr. Srinivasa Saha an employee in Telex Department at about 3.15 pm. At that time, Sri Srinivasa Saha made a telephone call to Mr. Dawood, General Secretary of the Standard Chartered Bank Employee's Union and upon arrival of Mr. Dawood, 20 employees including the Petitioners gathered around Mr. Brayan D'Souza and Mr. Sylvester Jerry and did not allow them to the speak. The Petitioner and other persons commenced pushing and jostling Mr. Brayan D'Souza and Mr. Sylvester Jerry and progressively increased the violence on them by pushing and jostling which were done all the while in a threatening manner and they also pushed them to banking hall, situated adjacent to Telex Department and beat both of them. In spite of repeated requests, they continued to push and beat them. Mr. Brayan D'Souza was hit on his body and was also kicked by back and shoulder by the Petitioners and four persons and as a result, Mr. Brayan D'Souza fell down and he somehow managed to get up with the help of Mr. Sylvester Jerry and ran to 2nd floor for help. Even there, the Petitioner and four others grabbed him from all sides by his clothes and commenced hitting him all over the face, head and body. Mr. Brayan D'Souza was hurt severely and he tried to plead to the five employees not to beat him but they continued the beat on his face, head and body till he fell down screaming. As a result, Mr. Brayan D'Souza was not only shocked but also had bleeding from his nose and was hurt painfully in the ear leading to his hospitalisation from 26-3-96 to 30-3-96. Hence, the Respondent framed charge sheet and issued to the Petitioner and four other employees stating that the above mentioned acts on the part of five employees would constitute gross misconduct and called for an explanation. Since the explanation submitted by the Petitioners was not satisfactory, the Respondent/Management ordered for domestic enquiry. The Respondent/Management examined five witnesses including Mr. Brayan D'Souza and the defence representative of the Petitioners examined two

employees in the domestic enquiry. In the domestic enquiry the Enquiry Officer has strictly followed the principles of natural justice. The Enquiry Officer, after carefully considering the evidences on record, gave his findings on 8-4-97 that the charges were proved against the Petitioner and four other employees. Then the Disciplinary Authority issued show cause notice as to why they should not be dismissed from service. After perusing the submissions made by the Petitioner and four others, the Disciplinary Authority dismissed the Petitioner and four others from the services of the Respondent/Bank. In the domestic enquiry, it is clearly established that Mr. Brayan D'Souza is an employee of the bank. Even assuming without admitting that Mr. Brayan D'Souza is an outsider, the Petitioner and other four persons cannot take the law in their own hands. Mr. Brayan D'Souza obtained permission from the Collection Manager M.S. Rooba and also informed Mr. Srinivasan, Assistant Manager (Communication) on that day. In the medical report it is clearly established that Mr. Brayan D'Souza had bleeding through nose for a short period and also he had difficulty in hearing through left ear and it clearly shows that Mr. Brayan D'Souza was assaulted by the Petitioner and four other employees. The Respondent/Management proved the charges by letting oral and documentary evidence before the Enquiry Officer and Enquiry Officer also after going through the evidences placed before him, gave his findings stating that the charges were proved against the Petitioner and other four employees. It is false to allege that they were victimised for their trade union activities. Hence, the punishment of dismissal is not excessive and disproportionate to the charges as alleged by the Petitioners and the same is justified one and could not be interfered with. Hence, the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs.

I.D. No. 642/2001 :—

6. The Central Government, Ministry of Labour vide Notification No. L-12012/160/98/IR(B-I) dated 29-01-1999 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu Principal Labour Court, Chennai for adjudication and the dispute was taken on its file as CGID No. 32/99 and after the constitution of this Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 642/2001.

7. The Schedule mention dispute in the order of reference is hereunder :—

“Whether the action of the management of Standard Chartered Bank, Chennai in terminating the services of Shri D. Koteswara Rao, with effect from 21-7-96 is legal and justified? If not, to what relief the said workman is entitled?”

8. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :—

The Petitioner was employed in the II Party/ Management in the year 1982 as a Sub-staff. The other allegations averred by the Petitioner in the Claim Statement and facts of the case are similar as that of the allegations and facts made in I.D. No. 77/2001.

9. As against this, the Respondent in their Counter Statement has raised similar contentions as that of I.D. No. 77/2001.

I.D. No. 643/2001:—

10. The Central Government, Ministry of Labour vide Notification No. L-12012/165/98/IR(B-1) dated 29-01-1999 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu Principal Labour Court, Chennai for adjudication and the dispute was taken on its file as CGID No. 33/99 and after the constitution of this Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 643/2001.

11. The Schedule mention dispute in the order of reference is hereunder.—

“Whether the action of the Management of Standard Chartered Bank, Chennai in terminating the services of Shri S. Kripakaran with effect from 21-7-96 is legal and justified? If not to what relief the said workman is entitled to?”

12. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :—

The Petitioner was employed in the II Party/ Management in the year 1981 as a Clerk. The other allegations averred by the Petitioner in the Claim Statement and facts of the case are similar as that of the allegations and facts made in I. D. No. 77/2001

13. As against this the respondent in their Counter Statement has raised similar contentions as that of I. D. No. 77/2001.

I.D. No. 644/2001:—

14. The Central Government, Ministry of Labour vide Notification No. L-12012/164/98/IR(B-1) dated 29-01-1999 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu Principal Labour Court Chennai for adjudication and the dispute was taken on its file as CGID No. 34/99 and after the constitution of this Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 644/2001.

15. The Schedule mention dispute in the order of reference is hereunder.—

“Whether the action of the Management of Standard Chartered Bank, Chennai in terminating the services of Shri I. Magimai Doss, with effect from 21-7-96 is legal and justified? If not to what relief the said workman is entitled to?”

16. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :—

The Petitioner was employed in the II Party/ Management the year 1980 as a sub-staff. The other allegations averred by the Petitioner in the Claim Statement and facts of the case are similar as that of the allegations and facts made in I.D. 77/2001.

17. As against this, the Respondent in their Counter Statement has raised similar contentions as that of I.D. No. 77/2001.

I.D. No. 647/2001 :—

18. The Central Government, Ministry of Labour vide Notification No. L-12012/163/98/IR(B-1) dated 22-01-1999 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu Principal Labour Court, Chennai for adjudication and the dispute was taken on its file as CGID No. 122/99 and after the constitution of this Central Govt. Industrial Tribunal cum Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 647/2001.

19. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :—

“Whether the action of the management of Statndard Chartered Bank, Chennai in terminating the services of Sri G. Thirunavukkarasu, Clerk from service with effect from 21-7-96 is justified or not? If not justified, to what relief the said workman is entitled?”

20. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :—

The Petitioner was employed in the II Party/ Management in the year 1981 as a Clerk. The other allegations averred by the Petitioner in the Claim Statement and facts of the case are similar as that of the allegations and facts made in I.D. No. 77/2001.

21. As against this, the Respondent in their Counter Statement has raised similar contentions as that of I.D. No. 77/2001.

22. In such circumstances, the points for my determination are :—

- (i) “Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing these Petitioners from service w.e.f. 21-7-96 is justified?”
- (ii) “To what relief the Petitioners are entitled?”

Point No. 1 :—

23. Since the issue involved in all these five industrial disputes is common, both sides have filed a joint memo stating that all the five cases may be tried together and a common award may be passed. The memo is recorded and as such a common Award is passed in these five industrial disputes.

24. The charge against the Petitioners in these cases is that on 26-03-1996 one Mr. Brayan D'Souza, an official of the Credit Card Centre of Respondent/Bank along with one Mr. Sylvester Jerry, a collection agent came and met Mr. Srinivasa Sah, an employee in Telex Department of the Respondent/Bank at about 3.15 pm and the said Mr. Brayan D'Souza sought to remind Mr. Srinivasa Sah about his over due outstanding on the credit card issued to him by the bank. In that Mr. Srinivasa Sah was evasive and offending in his remarks. Again Mr. Brayan D'Souza pointed out that he was there in his official capacity, immediately Mr. Srinivasa Sah made a telephone call to Mr. Dawood, General Secretary of the Employees Union and upon the arrival of the General Secretary about 20 employees including the Petitioner gathered strictly around Mr. Brayan D'Souza and Mr. Sylvester Jerry and began to attack them and did not allow them to speak. The Petitioners were pushing and jostling Mr. Brayan D'Souza and Mr. Sylvester Jerry and progressively increased the violence of pushing and jostling and pushed both of them to the banking hall situated adjacent to Telex Department and beat both of them and even in spite of their requests, the Petitioners and others beat them, Mr. Brayan D'Souza was hit on his body and was also kicked by five employees on his back and shoulder and they were running upto second floor. The Petitioners went along with them and further assaulted them and as a result of this assault on the face, head and body of Mr. Brayan D'Souza, he has got bleeding injuries in the nose and was hurt painfully in the ear. As a result of this Mr. Brayan D'Souza was hospitalised from 26th March to 30th March, 1996 and therefore, the domestic enquiry was held and in which the Petitioners were found guilty of the charges framed against them and the punishment of dismissal was imposed on them.

25. As against this, the Petitioner contended on several grounds. They alleged that the suspension order was issued to them and the allegations in the suspension order and in charge sheet are different versions and they are not corroborated with each other and therefore, they have totally vitiated the enquiry proceedings. Secondly, Mr. Brayan D'Souza and Mr. Sylvester Jerry have no *locus standi* to enter into the Telex Department without permission, which is a most prohibited area. Thirdly, the following situation will prove that the alleged complaint was concocted by the Respondent/management and the officials namely Mr. Ramesh and not a true one—

- (i) The alleged complaint was not given to the officer of the premises nor before the nearest police station by Mr. Brayan D'Souza, but it was given to Mr. Unni Narayanan at R. R. Towers of the Respondent/Bank situated far away from the place of alleged occurrence. Further, it is also admitted by Mr. Brayan D'Souza as MW1 that as per the suggestion of Mr. Unni Narayanan, it was given to him. But on the other hand, Mr. Unni Narayanan, who is a material witness in this case was not examined before the enquiry;
- (ii) The complaint alleged to have been given by Mr. Brayan D'Souza has not mentioned the name of the second victim;
- (iii) The complaint was silent with regard to the alleged injuries on the nose of the first victim;
- (iv) The time of occurrence was not mentioned in the complaint. Further, it is not proved how the victim has identified the alleged assaulters subsequently, even the eye witness, who was examined on the side of the management, who alleged to have been present at the time of occurrence namely Mr. Srinivasa Sah has not stated about the alleged assault made by the Petitioners against the victim. Even though, Mr. Sylvester Jerry has witnessed the occurrence and even though he was alleged to have been assaulted by the Petitioners, no reason was stated by the management for non-examining the said eye witness.

For all these reasons, it can be inferred that the complaint made against the Petitioners is a concocted one and the management wanted to victimise the trade union activities and intended to terrorise the entire award staff with a view to dispense with them en bloc.

26. As against this, the learned counsel for the Respondent contended that all the employees of the respondent branch at Armenian Street even though have assaulted Mr. Brayan D'Souza and Mr. Sylvester Jerry, the said persons have gone to the chamber of Mr. Sitaraman Bhat in the second floor and even then the Petitioners and other employees have assaulted them and hurt them severely and only when the Branch Manager namely Mr. Ramesh came to the place, they were rescued from the Petitioners and others and therefore, out of fear Mr. Brayan D'Souza has not given any written complaint immediately and he has rushed to the Apollo Hospital immediately and was admitted in the Apollo Hospital till 30th March, 1996. Under such circumstances, it cannot be contended that the complaint must be given to the officer of the premises or to the nearest police station. Similarly, even though the victim has given a complaint out of fear and shock, which

he has met in the hands of the Petitioners and others, he has not narrated the full incident in detail. In this case, from the evidence of other management witnesses, it is clearly established that the incident has taken place as alleged by the Respondent/Management and it was proved beyond doubt that the Petitioners were involved in that incident and have committed the offences as alleged against them. Even though, it is alleged that the victim namely Mr. Brayan D'Souza has not mentioned the injury on the nose, from the records of the Apollo Hospital produced before the enquiry, it has been established that he had bleeding injury in his nose and also in the ear. Though, it is contended that the time of occurrence and also the name of other victims and other particulars were not mentioned in the complaint only due to the shock, the victim Mr. Brayan D'Souza has not mentioned all the particulars in detail, but he has mentioned that he and another person were involved in the incident and he has mentioned only in plural and not in singular. Further, even though it is alleged that the complaint given by Mr. Brayan D'Souza, he has not mentioned the names of the assaulters, the Branch Manager namely Mr. Ramesh has clearly stated in the enquiry that he has brought the victims to the first floor and he has noted the persons who were identified by the victims and therefore, it cannot be contended that the assaulters have not been identified by the victims. Further, though it is contended that the Witness No. 3 Mr. Srinivasa Sah has not stated the incident of assault the incident has taken place in the banking hall and they have dragged the victims to banking hall and in such circumstances, it cannot be said that Mr. Srinivasa Sah must have seen the occurrence. Further, the learned counsel for the Respondent argued that disciplinary proceedings is not a criminal trial and the standard of proof required in such proceedings is that of preponderance of probability and not proving guilt beyond reasonable doubt and in this case. The management has clearly established from the examination of five witnesses before the Enquiry Officer and has proved the charges framed against the Petitioners that they have bodily assaulted the said Mr. Brayan D'Souza who is an officer of the Respondent/Bank, Credit Card Centre and thus, made a grave misconduct and therefore, it cannot be said that the domestic enquiry held against them is not fair and proper. Further, it is the contention of the counsel for the Respondent that the Petitioners have not disputed the presence of Mr. Brayan D'Souza and another man in the premises of the bank, but on the other hand, they have contended that without permission and against the rules, they have entered into the bank premises and that too in the prohibited area. Even for an argument sake without conceding that Mr. Brayan D'Souza and Mr. Sylvester Jerry have entered into the bank, the Petitioner and others cannot take law into their own hands and assault the said persons.

27. But, on the other hand, the learned counsel for the Petitioner argued that the enquiry held by the

Respondent/Management in this case is not proper and they have not followed the principles of natural justice and in such case, it cannot be held that domestic enquiry conducted in this case is fair and proper one. He further argued that even during the enquiry proceedings the bank was represented by more than one Presenting Officer namely Sri S.T. Krishna, Assistant Manager, Internal Control was first appointed as Presenting Officer but he was soon replaced by Sri C. Krishnamurthy, a top professional in the field and no reason was however, given for the change of Presenting Officer. Even when it was taken up in the proceedings the Enquiry Officer has stated that it is not necessary to give reason in this regard and he relied on the rulings reported in 1983 LAB IC 419 the BOARD OF TRUSTEES OF BOMBAY Vs. DILIP KUMAR, wherein the Supreme Court has held that "where in an enquiry before domestic Tribunal, the delinquent officer is pitted against a legally trained mind, if he seeks permission to appear through a legal practitioner, the refusal to grant this request would amount to denial of reasonable request to defend himself and essential principles of natural justice would be violated." Relying on this judgement, the counsel argued that even the request of the Petitioner to engage a legal practitioner has been refused by the Enquiry Officer and in such circumstances, it cannot be said that the Enquiry Officer has followed the principles of natural justice in this case. He further argued that non-examination of material witness in this case are fatal to the case of the management and in this case, the alleged second victim namely Mr. Sylvester Jerry's name was not mentioned in the complaint. He was also not examined before the Enquiry Officer. Further, the management has not given any application for his non-examination. But his alleged letter was marked without any proof through one Mr. Priyadharshan Manager, MW4 and in such circumstances, it cannot be said that the incident has happened as alleged by the management. Further, though the charge sheet has been issued against the Petitioners it is not mentioned how many persons involved in the incident and there is also no mention about how the incident has happened. Under such circumstances, it cannot be said that charges framed against the Petitioners have been proved by the management. It is also the contention of the learned counsel for the Petitioners that there is interpolating in the charge with regard to 19.5(c) of the Bipartite Settlement and in such circumstances, it cannot be held that the charges framed against the Petitioners have been proved. It is also the contention of the learned counsel for the Petitioner that even assuming for an argument sake without conceding that the charges have been proved against the Petitioners, this Tribunal has got ample powers under Section 11A of the Industrial Disputes Act, 1947 to modify the punishment because the punishment in this case is not proportionate to the misconduct alleged against them and the dismissal from service is shockingly disproportionate to the charges alleged against them and therefore, the Tribunal may modify

the punishment given to them and he relied on rulings reported in-

- (i) 1999 I LW 28 (SN) Ganesha Murthy Vs. Presiding Officer, I additional Labour Court, Madras and Others;
- (ii) 1999 3 LW 62 (SN) Chinnaiyan and Another Vs. Presiding Officer, I Additional Labour Court, Chennai and Another;
- (iii) 2002 4 Supreme Court Today 592 - Hindustan Motors Ltd. Vs. Tapan Kumar Bhattacharya and Another; and
- (iv) 2003 III LLJ - Steel Authority of India Ltd., Coimbatore Vs. Presiding Officer, Labour Court, Coimbatore and Another.
- (v) 2003 III LLJ 823 - Dev Singh Vs. Punjab Tourism Development Corporation Ltd. and Another.

28. Now, we will see the contentions of the Petitioners one by one. It is alleged on behalf of the Petitioners that Mr. Brayan D'Souza is an outsider and he has no locus standi to be present at Armenian Street Branch Office of the Respondent/Bank on 26-3-96 and that too in the Telex Department, but I find there is no substance in the contention of the Petitioner because, even assuming for an argument sake without conceding that Mr. Brayan D'Souza is an outsider, which fact is disproved by the Respondent/Management's witnesses, the Petitioners cannot take law in their own hands and assault the outsider. Similarly, the Petitioners contended that they entered into the office without signing into visitor's book and they entered into the prohibited area and they did not display their identity card before the concerned officers and so on. But from the evidence of the management witnesses, it is clear that they have enquired the officer in-charge and also the superior officer of Mr. Sah namely one Mr. Srinivasan with regard to Mr. Sah they have also expressed their identification before them. Under such circumstances, it cannot be said that Mr. Brayan D'Souza is an outsider and he has no locus standi to be present in the Armenian Street branch of the Respondent/Bank. Even though the Petitioners contended that the bank has changed the Presenting Officer and they appointed a legal person to present the case and when their request was denied, it is a failure on the part of the Enquiry Officer and it is against the principles of natural justice, the learned counsel for the Respondent argued that merely changing the Presenting Officer does not vitiate the enquiry conducted by the Respondent against the Petitioners and further the new Presenting Officer is not a lawyer, but on the other hand, he is only a bank employee and he further argued that there was no Standing Order prohibiting the Respondent/Bank asking the legal person to present the case before the Enquiry Officer and further, it cannot be said that the legal officer of the Respondent/Bank has acted as a prosecutor

and the learned counsel for the Respondent relied on the rulings 1970 I LLJ 26, wherein the workmen contended that in enquiry proceedings, the Mill Manager did not conduct the enquiry proceedings as laid down under the Standing Order and the recording of the findings by the Mill Manager was violative and the Senior Labour Officer acted both as Labour Officer and Judge and the Supreme Court negating the contention of the Union and accepting the contention of the management held that the Senior Labour Officer merely confined himself the evidence and the Mill Manager after giving full and fair opportunity had found the workmen guilty of charge and consequently passed the order of dismissal. Similarly, in this case, thought the person appointed for presenting the case was a legal officer of the bank, he has only presented the case and only the Enquiry Officer after giving fair and full opportunity to the Petitioners had found the petitioner are guilty of the charges framed and therefore, there was no violation of principles of natural justice.

29. I find much force in this contention of the learned counsel for the Respondent. Even though, the Petitioners contended that change of Presenting Officer and that too a legal person is against the principles of natural justice, the Enquiry Officer has clearly stated while rejecting the contention of the Petitioners that Sri S.T. Krishna, the first Presenting Officer has to be relieved on certain exigencies of internal control work and taking into account his personal request, the change has been effected. Under such circumstances, I find it cannot be contended that principles of natural justice has been overruled. Even though the counsel for the Petitioner argued that the punishment is not proportionate to the misconduct alleged against the Petitioners and the misconduct is not so serious and they are entitled to the punishment to sentence of economic death by dismissing them from service and they alleged that there is no consideration about the past record of service while considering the question of punishment, I find, the charge against the Petitioners are assault against an officer of the Respondent/Bank. The Petitioners were employed in the Respondent/Bank, where the confidence of customer is paramount for the success of banking business. Further, the Petitioners assaulted the officer of the Respondent/Bank that too inside the premises of the bank, where large number of employees are working and if this Tribunal inclined to interfere with the punishment imposed by the Disciplinary Authority in the domestic enquiry, I think, the employee should get a wrong signal and it would make an impression that they can assault either an employee or officer and would go scot-free and it would only create industrial unrest and render enforcement of discipline by the bank impossible. I further find, this is not a case which warrants this Tribunal to set aside the order of dismissal and to order reinstatement. I further find this Tribunal cannot interfere in the quantum of

punishment which was proved that the misconduct committed is grave in nature and which warrant the punishment of dismissal from service. I also find that though this Tribunal has got powers to modify the punishment imposed, this is not a case in which this Tribunal can interfere and therefore, I find this point against the Petitioners.

Point No. 2 :—

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioners are entitled ?

30. In view of my foregoing findings, I find the Petitioners in these industrial disputes are not entitled to any relief as claimed by them. No Costs.

31. Thus, all the above references are answered accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 20th February, 2004.)

K. JAYARAMAN, Presiding Officer

Witnesses Examined :—

On either side : None

Common Documents Marked :—

For the I Party/Workman :—

Ex. No.	Date	Description
W 1	26-03-96	Xerox copy of the suspension order issued to Mr. Peter.
W 2	26-03-96	Xerox copy of the suspension order issued to Mr. Koteswara Rao
W 3	26-03-96	Xerox copy of the suspension order issued to Mr. Thirunavukkarasu.
W 4	26-03-96	Xerox copy of the suspension order issued to Kirupakaran
W 5	26-03-96	Xerox copy of the suspension order issued to I. M. Doss
W 6	Nil.	Xerox copy of the report given by Mr. Brayon D'Souza
W 7	26-03-96	Xerox copy of the report given by Mr. Sylvester Jerry
W 8	30-03-96	Xerox copy of the discharge summary issued to Mr. Brayon D'Souza

W 9	30-03-96	Xerox copy of the health report given by Apollo Hospital
W 10	03-04-96	Xerox copy of the charge sheet issued to Peter
W 11	03-04-96	Xerox copy of the charge sheet issued to D. K. Rao
W 12	03-04-96	Xerox copy of the charge sheet issued to Thirunavukkarasu
W 13	03-04-96	Xerox copy of the charge sheet issued to Magimai Doss
W 14	03-04-96	Xerox copy of the charge sheet issued to Kirupakaran
W 15	04-04-96	Xerox copy of the memo issued by Martin Fish to staff.
W 16	13-09-96	Xerox copy of the letter issued by Respondent to Thirunavukkarasu
W 17	03-10-96	Xerox copy of the withdrawal order of suspension To Mr. Peter
W 18	03-10-96	Xerox copy of the withdrawal order of suspension To Mr. Kripakaran
W 19	03-10-96	Xerox copy of the withdrawal order of suspension in respect of Sri G. Thirunavukkarasu
W 20	03-10-96	Xerox copy of the withdrawal order of suspension in respect of Koteswara Rao
W 21	07-10-96	Xerox copy of the memorandum of settlement arrived at Before Regional Labour Commissioner (Central)
W 22	19-07-97	Xerox copy of the final order of dismissal issued to Sri D. Peter
W 23	19-07-97	Xerox copy of the final order of dismissal issued to Kirubakaran
W 24	19-07-97	Xerox copy of the final order of dismissal issued to Sri Magimai Doss
W 25	19-07-97	Xerox copy of the final order of dismissal issued to Thirunavukkarasu
W 26	20-10-97	Xerox copy of the order of Appellate Authority issued in respect of Mr. D. Peter

W 27	20-10-97	Xerox copy of the order of Appellate Authority issued in respect of Mr. G. Thirunayukkarasu	M 14	Nil	Xerox copy of the list of witnesses
W 28	20-10-97	Xerox copy of the order of Appellate Authority issued in respect of Mr. D. Kotteswara Rao	M 15 (2)	06-09-96	Xerox copy of the letter from S. Jerry to Respondent
W 29	20-10-97	Xerox copy of the order of Appellate Authority issued in respect of Mr. Magimai Doss	M 16 (3)	1/96 to 3/96	Xerox copy of the statement of salary of Mr. S. Sah
W 30	20-10-97	Xerox copy of the order of Appellate Authority issued in respect of Mr. S. Kripakaran.	M 17	22-07-96	Xerox copy of the statement of account of Sri Sah
For the II Party/Management :—			M 18 (2)	26-03-96	Xerox copy of the extract from cash statements
Ex. No.	Date	Description	M 19	26-03-96	Xerox copy of the ROC vouchers of Respondent
M 1 Series (5)	24-04-96	Xerox copy of the explanation given by Petitioners to Charge sheet	M 20	21-02-97	Xerox copy of the notice issued by Union.
M 2	17-06-96	Xerox copy of the order appointing Presenting Officer	M 21	28-12-96	Xerox copy of the 46th Annual General Body Meeting Report of the Union.
M 3	03-07-96	Xerox copy of the letter from Presenting Officer To Disciplinary authority enclosing list of witnesses	M 22	29-06-96	Xerox copy of the letter of AISCBEF along with copy of resolutions.
M 4	16-08-96	Xerox copy of the appointment letter of Presenting Officer.	M 23	04-04-96	Xerox copy of the letter from Respondent/Bank to General Secretary of the Employees' Union of Respondent/Bank
M 5	Nil	Xerox copy of the credit card application form of Sri Srinivasa Sah	M 24	29-08-96	Xerox copy of the letter from Union to Respondent/Bank
M 6	Nil	Xerox copy of the credit card services directory	M 25	26-03-96	Xerox copy of the enquiry proceedings
M 7	05-12-95	Xerox copy of the credit card statement of Sri Sah	M 26 (5)	20-06-97	Xerox copy of the letter from Respondent to Petitioners
M 8	05-03-96	Xerox copy of the credit card statement of Sri Sah	M 27 (5)	07-07-97	Xerox copy of the reply to the 2nd show cause notice
M 9	Nil	Xerox copy of the report of Mr. Bryan	M 28	07-07-97	Xerox copy of the proceedings of personal hearing
M 10	30-03-96	Xerox copy of the discharge summary issued by Appollo Hospital	M 29 (5)	19-07-97	Xerox copy of the final order issued by Respondent to Petitioner
M 11	26-03-96	Xerox copy of the letter from Sri S. Ramesh to the Respondent	M 30 (5)	21-08-97	Xerox copy of the appeal preferred by Petitioners before Appellate Authority
M 12	26-03-96	Xerox copy of the letter from Srinivasan to Respondent	M 31 (5)	20-10-97	Xerox copy of the orders of Appellate Authority issued to Petitioners
M 13 (5)	Nil	Xerox copy of the attendance record to Petitioners			

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2694.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इन्डिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय, नासिक के पंचाट (संदर्भ संख्या 93/97) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-09-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-12012/147/96-आई.आर.(बी. II)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 4th October, 2004

S.O. 2694.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 93/97) of the Labour Court, Nashik as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Central Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 30-09-2004.

[No. L-12012/147/96-IR(B. II)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE LABOUR COURT AT NASHIK

(BEFORE SMT. C. A. NATHANI, JUDGE, LABOUR COURT, NASHIK)

Reference (IDA) No. 93/97

Between

Management
Central Bank of India
Nashik.

.....First Party

And

Shri Atmaram B. Jadhav,
Near Siddarth Nagar,
Sector No.12, CIDCO,
New Aurangabad, Dist.
Aurangabad

.....Second Party

AWARD

This is reference made by the Govt. of India, New Delhi, for adjudication to this Court, on the demand of the second party for reinstatement with continuity of service and back wages. After receipt of this reference, notice were sent to both the parties. The second party remained absent since last many days he has not lead any evidence. Hence this reference is rejected.

Nashik

Dated : 7-8-2004

SMT. C. A. NATHANI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2695.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सिंडीकेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, चेन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या 9, 10, और 11/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-09-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-12011/186/2002-आई.आर.(बी. II)]

[सं० एल-12011/187/2002-आई.आर.(बी. II)]

[सं० एल-12011/188/2002-आई.आर.(बी. II)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 4th October, 2004

S.O. 2695.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.9, 10 and 11/2003) of the Central Government Industrial Tribunal cum- Labour Court, Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Syndicate Bank and their workmen, was received by the Central Government on 30-09-2004.

[No. L-12011/186/2002-IR(B.II)]

[No. L-12011/187/2002-IR(B.II)]

[No. L-12011/188/2002-IR(B.II)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
CHENNAI

Friday, the 28th November, 2003

Present : K. JAYARAMAN,
Presiding Officer

INDUSTRIAL DISPUTE Nos. 9, 10, 11/2003

(In the matter of dispute for adjudication under clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), between the Management of Syndicate Bank and their workmen).

BETWEEN

The General Secretary,
Syndicate Bank Employees
Union.

.....I Party/Claimant

And

The Deputy General Manager,
Syndicate Bank, Chennai.II Party/Management

Appearance :

For the Claimant : Sri S. Vaidyanathan,
Advocate
For the Management : M/s. T.S. Gopalan &
Co. Advocate

AWARD

I.D. NO. 9/2003

1. The Central Government, Ministry of Labour vide Notification Order No. L-12011/186/2002-IR(B-II) dated 29-11-2002 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the imposition of the punishment of reduction in basic pay by one stage for one year to Smt. Vanmathi Jayaseelan, Clerk by the management of Syndicate Bank vide proceedings dated 22-7-2000 is legal and justified? If not, what relief is the workman entitled to?

2. After the receipt of the reference, this case was taken on file as I.D. No. 9/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered through their advocates and filed their respective Claim Statement and Counter Statement.

3. The allegations of the Petitioner Union in the Claim Statement are briefly as follows :—

The Petitioner Union has raised this dispute espousing the cause of Smt. Vanmathi Jayaseelan who is working as Clerk in Purasaiwakkam Branch of the Respondent/Bank. The concerned workman was charge-sheeted on 25-6-99 alleging that she and her colleague led demonstration of part-time employees during the inaugural function of total computerisation of T. Nagar branch was going on and distributed leaflet/pamphlets to the persons who attended the said function on 18-6-99 and thereby tarnished the image of the bank in the eyes of the public and it is an act prejudicial to the interest of the bank. Though the concerned workman has given her explanation to the Respondent/Management, the Respondent Bank has

ordered an enquiry rejecting her explanation. During the enquiry, the management produced three witnesses in support of their case and on the workman side 21 witnesses were examined. But without taking into account the deposition given in the defence witnesses, the Enquiry Officer with pre-determination decided to support the management witnesses and has given a report stating that the charge levelled against the workman was proved. The Disciplinary Authority also without considering the submissions made by the concerned employee proposed to impose the punishment of reduction in basic pay by two stages for two years and after the personal hearing, the Disciplinary Authority has awarded the punishment of reduction in basic pay by one stage for one year. Even, the appeal preferred by the concerned employee before Appellate Authority has been negated. It is submitted that the entire enquiry proceedings are wrongful. The conclusion has been drawn on the basis of pre-determined, bias against the trade union and not based on any direct or circumstantial evidence led against the concerned employee. The observation made by the Enquiry Officer clearly established that he has enquired the case with a pre-determined mind. The Enquiry Officer rejected the entire evidence led by the defence witnesses, since most of them belonging to the category of backward communities, scheduled caste/scheduled tribe and on the ground that they are not qualitative evidences. On seeing the concerned workman in trade union activities, the Respondent/Management has become very critical about it and on their attempt to intimidate her other activities, the chargesheet has been concocted. There is no evidence to implicate the concerned employee to the alleged distribution of pamphlets and even assuming that the concerned employee has distributed the pamphlets, it cannot be said to be an act prejudicial to the interest of the bank. It was a peaceful demonstration exposing the illegal action of the bank in not complying with the settlement. Therefore, the concerned employee has not committed any misconduct and the punishment imposed by the bank for no fault of the concerned employee is illegal, arbitrary, mala fide, victimisation and unfair labour practice. Hence, the Petitioner Union prays for an award in their favour.

4. As against this, the Respondent in their Counter Statement contended that the referred dispute being a collective dispute under section 2k of the Industrial Disputes Act, 1947, the Petitioner Union is bound to establish its competence and authority to take up the cause of the workmen and raise an industrial dispute. In this case, the trade union activities cannot be a shield for indulging in acts of misconduct. On 18-6-99, the Respondent/Bank has organised a function at 8.30 am for total computerisation of T. Nagar branch and it was to be inaugurated by the then Chairman & Managing Director of the bank Sri K. V. Krishnamoorthy in the presence of prominent persons. While so, without any prior notice, the concerned employee

along with two others led a group of part-time sweepers and scavengers who were wearing headbands and they distributed pamphlets purported to be a representation against the non-regularisation of part-time employees. The concerned employee was not an employee of the T. Nagar branch. Therefore, a charge sheet was issued and even in the explanation the concerned employee has not disputed her presence nor she has disputed her participation in demonstration which she would describe as a "call of duty" assigned by the Petitioner Union. The Enquiry Officer, on considering the merits of the case, has held that the charges have been proved against the employee as they were clearly established. In this case, the punishment awarded to the concerned employee for misconduct committed by her is fully justified and valid in law and the same should not be interfered for any of the reasons urged in the Claim Statement filed before this Tribunal. The jurisdiction of this Tribunal in dealing with disputes other than those section 11A of the Industrial Disputes Act, 1947 is to consider whether the finding are wholly unsupported by any evidence so as to call it perverse. It is not permissible for the Petitioner Union to invite this Tribunal to re-appreciate the facts and evidence and to arrive at a conclusion different from that of the Enquiry Officer. Hence, the Respondent prays that the claim of the Petitioner Union may be rejected.

5. In such circumstances, the points for my consideration are —

- (i) "Whether the imposition of punishment of reduction in basic pay by one stage for one year to the concerned employee by the Respondent/Bank is legal and justified ?
- (ii) To what relief the concerned employee is entitled to ?"

I. D. No. 10/2003 :—

6. The Central Government, Ministry of Labour vide Notification Order No. L-12011/187/2002-IR (B-II) dated 10-12-2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the imposition of the punishment of reduction in basic pay by one stage for one year to Smt. Usha Kiran, Clerk by the management of Syndicate Bank vide proceedings dated 22-7-2000 is legal and justified ? If so, what relief the workman is entitled to ?"

7. After the receipt of the reference, this case was taken on file as I. D. No. 10/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered through their advocates and filed their respective Claim Statement and Counter Statement.

8. The allegations of the Petitioner Union in the Claim Statement are briefly as follows :—

The Petitioner Union has raised this dispute espousing the cause of Smt. Usha Kiran, who is working as Clerk in Purasawalkam Branch of the Respondent/Bank. The concerned workman was charge sheeted on 25-6-99 alleging that she and her colleague led demonstration of part-time employees during the inaugural function of total computerisation of T. Nagar branch was going on and distributed leaf let/pamphlets to the persons who attended the said function on 18-6-99 and thereby tarnished the image of the bank in the eyes of the public and it is an act prejudicial to the interest of the bank. Though the concerned workman has given her explanation to the Respondent/Management, the Respondent Bank has ordered an enquiry rejecting her explanation. During the enquiry, the management produced three witnesses in support of their case and on the workmen side 21 witnesses were examined. But without taking into account the deposition given by the defence witnesses, the Enquiry Officer with pre-determination decided to support the management witnesses and has given a report stating that the charge levelled against the workman was proved. The Disciplinary Authority also without considering the submissions made by the concerned employee proposed to impose the punishment of reduction in basic pay by two stages for two years and after the personal hearing, the Disciplinary Authority has awarded the punishment of reduction in basic pay by one stage for one year. Even, the appeal preferred by the concerned employee before Appellate Authority has been negatived. It is submitted that the entire enquiry proceedings are wrongful. The conclusion has been drawn on the basis of pre-determined, bias against the trade union and not based on any direct or circumstantial evidence led against the concerned employee. The observation made by the Enquiry Officer clearly established that he has enquiry the case with a pre-determined mind. The Enquiry Officer rejected the entire evidence led by the defence witnesses, since most of them belonging to the category of backward communities, scheduled caste/scheduled tribe and on the ground that they are not qualitative evidences. On seeing the concerned workman in trade union activities, the Respondent/Management has become very critical about it and on their attempt to intimidate her other activities, the charge sheet has been concocted. There is no evidence to implicate the concerned employee to the alleged distribution of pamphlets and even assuming that the concerned employee has distributed the pamphlets, it cannot be said to be an act prejudicial to the interest

of the bank. It was a peaceful demonstration exposing the illegal action of the bank in not complying with the settlement. Therefore, the concerned employee has not committed any misconduct and the punishment imposed by the bank for no fault of the concerned employee is illegal, arbitrary, malafide, victimisation and unfair labour practice. Hence, the Petitioner Union prays for an award in their favour.

9. As against this, the Respondent in their Counter Statement contended that the referred dispute being a collective dispute under section 2k of the Industrial Disputes Act, 1947, the Petitioner Union is bound to establish its competence and authority to take up the case of the workmen and raise an industrial dispute. In this case, the trade union activities cannot be a shield for indulging in acts of misconduct. On 18-6-99, the Respondent/Bank has organised a function at 8.30 a.m. for total computerisation of T. Nagar branch and it was to be inaugurated by the then Chairman & Managing Director of the bank Sri K.V. Krishnamoorthy in the presence of prominent persons. While so, without any prior notice, the concerned employee along with two others led a group of part-time sweepers and scavengers who were wearing headbands and they distributed pamphlets purported to be a representation against the non-regularisation of part-time employees. The concerned employee was not an employee of the T. Nagar branch. Therefore, a charge sheet was issued and even in the explanation the concerned employee has not disputed her presence nor she has disputed her participation in demonstration which she would describe as a "call of duty" assigned by the Petitioner Union. The Enquiry Officer, on considering the merits of the case, has held that the charges have been proved against the employee as they were clearly established. In this case, the punishment awarded to the concerned employee for misconduct committed by her is fully justified and valid in law and the same should not be interfered for any of the reasons urged in the Claim Statement filed before this Tribunal. The jurisdiction of this Tribunal in dealing with disputes other than those under section 11A of the Industrial Disputes Act, 1947 is to consider whether the finding are wholly unsupported by any evidence so as to call it perverse. It is not permissible for the Petitioner Union to invite this Tribunal to re-appreciate the facts and evidence and to arrive at a conclusion different from that of the Enquiry Officer. Hence, the Respondent prays that the claim of the Petitioner Union may be rejected.

10. In such circumstances, the points for my consideration are—

- (i) "Whether the imposition of punishment of reduction in basic pay by one stage for one year to the concerned employee by the Respondent/Bank is legal and justified?"

- (ii) To what relief the concerned employee is entitled to?"

I.D. No. 11/2003 :—

11. The Central Government, Ministry of Labour vide Notification Order No. L-12011/188/2002-IR(B-II) dated 29-11-2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the imposition of the punishment of reduction in basic pay by one stage for one year to Smt. Sathyabama, Clerk by the management of Syndicate Bank vide proceedings dated 22-7-2000 is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

12. After the receipt of the reference, this case was taken on file as I.D. No. 11/2003 and notices were issued to both the parties and both the parties entered through their advocates and filed their respective Claim Statement and Counter Statement.

13. The allegations of the Petitioner Union in the Claim Statement are briefly as follows :—

The Petitioner Union has raised this dispute espousing the cause of Smt. Sathyabama, who is working as Clerk in Perambur Branch of the Respondent/Bank. The concerned workman was charge sheeted on 25-6-99 alleging that she and her colleague led demonstration of part-time employees during the inaugural function to total computerisation of T. Nagar branch was going on and distributed leaf let/pamphlets to the persons who attended the said function on 18-6-99 and thereby tarnished the image of the bank in the eyes of the public and it is an act prejudicial to the interest of the bank, though the concerned workman has given her explanation to the Respondent/Management, the Respondent Bank has ordered an enquiry rejecting her explanation. During the enquiry, the management produced three witnesses in support of their case and on the workmen side 21 witnesses were examined. But without taking into account the deposition given by the defence witnesses, the Enquiry Officer with pre-determination decided to support the management witnesses and has given a report stating that the charge levelled against the workman was proved. The Disciplinary Authority also without considering the submissions made by the concerned employee proposed to impose the punishment of reduction in basic pay by two stages for two years and after the personal hearing the Disciplinary Authority has awarded the punishment of reduction in basic pay by one stage for one year. Even, the appeal preferred by the concerned employee before Appellate Authority has been

negated. It is submitted that the entire enquiry proceedings are wrongful. The conclusion has been drawn on the basis of pre-determined, bias against the trade union and not based on any direct or circumstantial evidence led against the concerned employee. The observation made by the Enquiry Officer clearly established that he has enquired the case with a pre-determined mind. The Enquiry Officer rejected the entire evidence led by the defence witnesses, since most of them belonging to the category of backward communities, scheduled caste/scheduled tribe and on the ground that they are not qualitative evidences. On seeing the concerned workman in trade union activities, the Respondent/Management has become very critical about it and on their attempt to intimidate her other activities, the charge sheet has been concocted. There is no evidence to implicate the concerned employee to the alleged distribution of pamphlets and even assuming that the concerned employee has distributed the pamphlets, it cannot be said to be an act prejudicial to the interest of the bank. It was a peaceful demonstration exposing the illegal action of the bank in not complying with the settlement. Therefore, the concerned employee has not committed any misconduct and the punishment imposed by the bank for no fault of the concerned employee is illegal, arbitrary, malafide, victimisation and unfair labour practice. Hence, the Petitioner Union prays for an award in their favour.

14. As against this, the Respondent in their Counter State ment contended that the referred dispute being a collective dispute under section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Petitioner Union is bound to establish its competence and authority to take up the cause of the workmen and raise an industrial dispute. In this case, the trade union activities cannot be a shield for indulging in acts of misconduct. On 18-6-99, the Respondent/Bank has organised a function at 8.30 a.m. for total computerisation of T. Nagar branch and it was to be inaugurated by the then Chairman & Managing Director of the bank Sri K.V. Krishnamoorthy in the presence of prominent persons. While so, without any prior notice, the concerned employee along with two others led a group of part-time sweepers and scavengers who were wearing headbands and they distributed pamphlets purported to be a representation against the non-regularisation of part-time employees. The concerned employee was not an employee of the T. Nagar branch. Therefore, a charge sheet was issued and even in the explanation the concerned employee has not disputed her presence nor she has disputed her participation in demonstration which she would describe as a "call of duty" assigned by the Petitioner Union. The Enquiry Officer, on considering the merits of the case, has held that the charges have been proved

against the employee as they were clearly established. In this case, the punishment awarded to the concerned employee for misconduct committed by her is fully justified and valid in law and the same should not be interfered for any of the reasons urged in the Claim Statement filed before this Tribunal. The jurisdiction of this Tribunal in dealing with disputes other than those under section 11A of the Industrial Disputes Act, 1947 is to consider whether the finding are wholly unsupported by any evidence so as to call it perverse. It is not permissible for the Petitioner Union to invite this Tribunal to re-appreciate the facts and evidence and to arrive at a conclusion different from that of the Enquiry Officer. Hence, the Respondent prays that the claim of the Petitioner Union may be rejected.

15. In such circumstances, the points for my consideration are :—

(i) "Whether the imposition of punishment of reduction in basic pay by one stage for one year to the concerned employee by the Respondent/Bank is legal and justified?"

(ii) To what relief the concerned employee is entitled to?"

16. Since the relief claimed in all these three industrial disputes is identical, they are clubbed together and disposed of through this common Award.

Point No. 1

17. The case of the Petitioner is that on 18-6-99, the Respondent/Bank arranged a function at 8.30 a.m. on Friday for the total computerisation of the T. Nagar branch and it was to be inaugurated by the then Chairman & Managing Director Sri K.V. Krishnamurthy. While so, the management of the Respondent/Bank even though entered into the settlement in the year 1986 has not implemented the agreement with regard to the services of casual/temporary workers. Therefore, the union requested the management to implement the settlement failing which demonstration would be conducted and the Union asked the concerned employees to participate in the silent demonstration. As such, the concerned employees participated in the silent demonstration in which pamphlets were also issued by the temporary employees/part-time sweepers. For this the Respondent/Bank management has charge sheeted the concerned employees on the ground that they have tarnished the image of the bank in the eyes of public and it is an act prejudicial to the interest of the bank and the domestic enquiry was conducted by the Respondent/Management and a punishment was also imposed against the concerned employees. In this dispute the Petitioner Union has not questioned the conduct of the domestic enquiry but the Petitioner Union has raised doubt about the findings given by the Enquiry Officer on the ground that it was perverse and mala fide. On the other hand, the

Respondent/Management has raised a preliminary objections, as the first objection that being a collective dispute under section 2(k) of the Industrial Disputes Act, the Petitioner Union is bound to establish its competence and authority to take up the cause of the workmen and raise industrial dispute; secondly, it was contended on behalf of the Respondent/Management that adjudication of this industrial dispute does not fall within the scope of Section 11A of the Industrial Disputes Act. In the matter of adjudication of disputes other than that falling under Section 11A of Industrial Disputes Act, the Tribunal cannot act as an Appellate Court. The jurisdiction of this Tribunal in dealing with the dispute is to consider whether the finding is wholly unsupported by any evidence so as to call it as perverse. Therefore, it is not permissible for the Petitioner Union to invite this Tribunal to re-appreciate the facts and arrive at a different conclusion from that of Enquiry Officer and therefore, the Respondent/Management prays to reject the claim of the Petitioner Union.

18. In these circumstances, the Tribunal is to see whether the finding of the Enquiry Officer against the concerned employees is perverse i.e. to say, 'whether it is wholly unsupported by any evidence', 'whether the finding is mala fide in nature'.

19. Both sides have not examined any party as a witness before this Tribunal. They have marked only the enquiry proceedings. On the side of the I Party Ex. W1 to W9 were marked and on the side of the II Party/Management Ex. M1 to M15 were marked.

20. The attack of the Petitioner Union on the Enquiry Officer's report is that the Enquiry Officer has not taken into consideration the depositions made by twenty one defence witnesses and with a pre-determination decided to support the management and proceeded to say that the allegations against the concerned employees were proved. The Enquiry Officer termed all the defence witnesses as 'unreliable', 'only a story and unreliable evidence', 'evidence suffers from vagueness' 'evidence suffers from accuracy', 'evidence lacks authenticity', 'evidence is contrary to evidence on records', 'nothing but a fairy tale', 'lacks credibility' etc. On the other hand, he has relied on the pampered and tutored two management witnesses namely the Sub-Manager of T. Nagar branch of the Respondent/Bank and also an Officer from Zonal Office. This clearly proves that he is biased against the concerned employees.

21. It is further argued on behalf of the Petitioner that the management witness No. 1 has clearly admitted that she might have come out of the branch premises one or two occasions to receive the guests and she has clearly admitted that she was assigned the job of organising the programme to be conducted inside the branch premises. It is her further admission that some temporary servants and employees were in the demonstration, while so, she has

only identified only the concerned employees alone and this clearly prove that she has been tutored to make this evidence before the Enquiry Officer. It is further argued that the Enquiry Officer has relied on the photographs taken on the occasion and produced before the enquiry. But, these photographs did not indicate that the concerned employees were in the act of distributing the pamphlets of Union. They were standing like any other spectators and merely she had a paper in her hand. It does not mean that she has distributed pamphlets to the public. Further, the Enquiry Officer has rejected the deposition of one Mr. M.A. Balakrishnan, Joint Treasurer of the Union on the ground that two other activists of the Union namely Mr. N.G. Chandrasekar, Treasurer of union and Smt. E. Sriranjani, Workmen Director in T. Nagar Branch presented in the occasion were not taken part in the protest and he has been harping on as to why these persons have not been examined in the enquiry. On the other hand, he has not taken note of the Deputy General Manager and Assistant General Manager, who have been taken part in the meeting, have not been examined on the side of the Respondent/Management. This shows his biased view and also his prejudicial nature in conduct of the enquiry and his pre-determined bias against the concerned employees and also the trade union activities.

22. Even though, it is stated that the participation of the concerned employees in the silent demonstration is prejudice to the interest of the bank, it has not been established how it was prejudiced to the interest of the bank. Even though, the management witnesses MW1 and MW2 have been examined on the side of the management, they have not established before the Enquiry Officer how it was prejudiced to the interest of the bank management. Further, in this case though the defence witnesses have stated that they have also participated in the peaceful demonstration outside the T. Nagar branch of the Respondent/Bank, the Respondent/Management has chosen only the concerned employees and charge sheeted against them will amply prove their biased nature against the concerned employees. The finding of the Enquiry Officer in this regard is perverse and with mala fide intention, the Enquiry Officer in a predetermined bias has come to the conclusion that the charge against the concerned employees had been proved.

23. But, on the other hand, the counsel for the Respondent argued that without any prior notice to the Respondent/Management, the concerned employees led a group of part-time sweepers and they distributed leaflets to the public and it vitiated the atmosphere of celebration and an ugly scene was deliberately created by the concerned employees. Further, the concerned employees were not employees of T. Nagar branch and they continued to stay outside the T. Nagar branch till the function was over. The concerned employees have not disputed the fact with regard to their presence nor they disputed their

participation in the demonstration for which they call it as "a call of duty" assigned by the Petitioner Union. In this case, the concerned employees have not disputed the manner in which the enquiry was conducted. They disputed only the finding given by the Enquiry Officer on several grounds for which they have no right to question the same because, this Tribunal is not an Appellate Authority and concerned employees cannot question the appreciation of evidence given by the Enquiry Officer. It is his further contention that the Deputy Chief Officer of Regional Officer Mrs. R. Jayalakshmi and Chief Manager of T. Nagar branch have clearly and categorically stated that the concerned employees have distributed the pamphlets and also participated in the demonstration and therefore, on relying on the evidence of management witnesses, the Enquiry Officer has held that the charges against the concerned employees have been proved. At the same time, he has rejected the evidences of defence witnesses examined on the side of the concerned employees on the ground that they are unreliable and they are not trustworthy. Under such circumstances, it cannot be said that the findings of the Enquiry Officer are perverse. Further the punishment awarded to the concerned employees for the misconduct committed by them on 18-6-99 was fully justified and valid in law and the same should not be interfered with for all or any of the reason urged by the Petitioner Union. Further, on 18-6-99 the concerned employees have not applied for leave and they have remained unauthorisedly absent. Further, the part played by the concerned employees in front of T. Nagar Branch on 18-6-99 cannot be treated as legitimate trade union activities. In any event, the concerned employees were the first and foremost, employees of the Respondent/Bank and then only the members of union. Therefore, they were expected not to indulge in any act which would be prejudicial to the interest of the bank and their memberships of the Union would not confer immunity against indulgence of misconduct. In this case, since this Tribunal is not an Appellate Authority and since the conduct of the enquiry was not questioned by the concerned employees, this Tribunal cannot question the punishment awarded by the Respondent/Bank by conducting the domestic enquiry. It is his further argument that it is only in cases of discharge or dismissal by way of punishment Section 11A vests discretionary jurisdiction in the Tribunal to direct reinstatement with or without any terms or conditions or to vary the punishment as the circumstances of a case may warrant and therefore, Section 11A only apply to the cases of punishment of dismissal or discharge and it does not apply to other cases such as warning, fine, withholding of increment, demotion or suspension etc. Since this dispute is not coming under Section 11A of the Industrial Disputes Act, this Tribunal cannot vary or reduce the punishment imposed by the Respondent/Bank on the concerned employees. Though, I find much force in this contention, in this case the Enquiry Officer has held that the evidence

given on the side of the concerned employees are unreliable and unsatisfactory. But, to what reasons that the evidence given by the defence witnesses were unreliable are not stated by the Enquiry Officer. Even from the beginning of the report, I find the Enquiry Officer with a prejudicial view has approached the case and has come to the conclusion that the charges framed against the employees were proved as alleged by the Respondent/Management. When he relied on the evidences given on the side of the management, he has not stated any valid reasons for rejecting the evidences given by the defence witnesses, which clearly proves that his approach is prejudicial in nature and the finding is perverse.

24. Then the other question to be decided is the technical objection raised by the Respondent/Management side. On behalf of the Respondent/Management, it is contended that being a collective dispute under section 2(k) of the Industrial Disputes Act, the Petitioner Union is bound to establish its competence and authority to take up the cause of the workman and raise the industrial dispute. In this case, the Petitioner Union has not produced any document to show that by a resolution or by an authority, the Petitioner Union is permitted to espouse the cause of the concerned employees and raise industrial dispute. Under such circumstances, this dispute cannot lie before this Tribunal as an industrial dispute. Further, he relied on the ruling reported in 1973 II LLJ 341 *The Management of Madura Mills Co. Ltd. Vs. Presiding Officer, Industrial Tribunal, Madras and Others*, wherein the Madras High Court has held that "*if the dispute relates to any of the other matters contemplated in Section 2K, then the parties to the dispute should have a direct or substantial interest. In other words, the persons who seek to support the cause of the concerned workman must themselves be directly or substantially interested in the dispute and such persons should be considerable or substantial in number*". Further, they relied on the ruling reported in 1961 II LLJ 436 *Bombay Journalists Union Vs. Hindu*, wherein the Supreme Court has observed that "*the dispute in the present case being prima-facie an individual dispute in order that it may become an industrial dispute, it had to establish that it had been taken up by the Union of employees or by appreciable number of employees*." Again the Division Bench of the Calcutta High Court in *Deepak Industries Ltd. Vs. State of West Bengal* 1975 Lab IC 1153 has held that "*when the authority of the union is challenged by the employer, it must be shown by production of material evidence before the Tribunal to which such a dispute has been referred to prove that the union has been duly authorised either by a resolution of its members or otherwise that it had an authority to represent the workmen whose cause it was espousing*." Therefore, it is argued on behalf of the Respondent that the Petitioner Union has not proved before this Court that they have got an authority to represent the concerned employees and to

raise industrial dispute before this Tribunal and therefore, the present disputes cannot be termed as industrial disputes as contemplated under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act.

25. On the other hand, on behalf of the Petitioner Union it was contended that this plea has not been taken during the conciliation proceedings and therefore, now they cannot take the same before this Tribunal. But, the Petitioner Union has not established this contention by producing any documents before this Tribunal. As such, I find the contention of the learned counsel for the Respondent is valid in law. Therefore, I find this point against the Petitioner Union.

Point No. 2 :—

The next point to be decided in these cases is to what relief the concerned employees are entitled?

26. In view of my relevant findings, I find this point also against the Petitioner Union. As such, the claim of the Petitioner Union is dismissed in all the three industrial disputes. No Costs.

27. The references are answered accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 28th November, 2003.)

K. JAYARAMAN, Presiding Officer

Witnesses Examined :—

On either side : None

Common documents Marked :—

For the I Party/Claimant :

Ex. No.	Date	Description
(1)	(2)	(3)
W1	25-06-99	Xerox copy of the charge sheet issued to Concerned employee.
W2	07-07-99	Xerox copy of the explanation submitted by Concerned employee to Respondent.
W3	07-03-2000	Xerox copy of the enquiry proceedings.
W4	22-07-2000	Xerox copy of the letter from the Respondent Enclosing the order of Disciplinary Authority.
W5	24-08-2000	Xerox copy of the letter from Smt. Usha Kiran to Appellate Authority.
W6	19-10-2000	Xerox copy of the order of Appellate Authority.
W7	05-04-2000	Xerox copy of the written brief submitted by Concerned employees on enquiry proceedings.

(1)	(2)	(3)
W8	15-05-2000	Xerox copy of the written submissions submitted by Smt. Vanmathi Jayaseelan to Disciplinary Authority.
W9	27-02-2002	Xerox copy of the industrial dispute raised by Petitioner Union before Regional Labour Commissioner (Central).

For the II Party/Management :—

Ex. No.	Date	Description
M1	22-06-99	Xerox copy of the letter from Senior Branch Manager to Regional Manager.
M2	Nil	Xerox copy of the notice.
M3	Nil	Xerox copy of the photos relating to T. Nagar Branch function.
M4	Nil	Xerox copy of the invitation of T. Nagar function Regarding total branch mechanisation.
M5	03-04-87	Xerox copy of the Minutes of joint meeting between I party and II party.
M6	28-03-89	Xerox copy of the Minutes of joint meeting between I party and II party.
M7	08-09-99	Xerox copy of the Minutes of joint meeting between I party and II party.
M8	06-06-99	Xerox copy of the circular issued by Petitioner Union.
M9	03-06-99	Xerox copy of the circular issued by Petitioner Union.
M10	07-05-99	Xerox copy of the letter from Petitioner Union to General Manager of Respondent/Bank.
M11	24-03-99	Xerox copy of the circular issued by Petitioner Union.
M12	27-01-99	Xerox copy of the circular issued by Petitioner Union.
M13	23-03-99	Xerox copy of the letter from Petitioner Union to Chairman and Managing Director of Respondent.
M14	05-10-94	Xerox copy of the circular issued by Petitioner Union.
M15	05-10-94	Xerox copy of the minutes of meeting between I party and II party.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

का. आ. 2696.—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस मंत्रालय के दिनांक 6-7-2000 की अधिसूचना सं. ए-11016/1/99-सी एल एस-II के अनुक्रम में उक्त अधिनियम की दूसरी अथवा तीसरी अनुसूची में उल्लिखित औद्योगिक विवाद के किसी भी मामले के निर्णय हेतु और उक्त अधिनियम के अंतर्गत सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए एक औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन करती है, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा तथा श्री एन.के.आर. मोहपात्रा को दिनांक 30-7-2004 (पूर्वाह्न) से उस न्यायाधिकरण का पीठीसीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-11016/1/99-सी.एल.एस.-II]

पी. के. ताम्रकार, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 30th September, 2004

S.O. 2696.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 7 (A) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in continuation of this Ministry's notification No. A-11016/1/99-CLS-II dated 6-7-2000, the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Headquarters at Bhubaneswar for the adjudication of industrial disputes relating to any matter specified in the Second Schedule or the Third Schedule and for performing such other functions as may be assigned to it under the said Act, and appoints Shri N.K.R. Mohapatra as Presiding Officer of the Tribunal with effect from 30-7-2004 (F.N.).

[F. No. A-11016/1/99-CLS-II]

P. K. TAMRAKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

का. आ. 2697.—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस मंत्रालय के दिनांक 6-7-2000 की अधिसूचना सं. ए-11016/1/99-सी एल एस-II के अनुक्रम में उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित औद्योगिक विवाद के किसी भी मामले के निर्णय हेतु और उक्त अधिनियम के अंतर्गत सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए एक श्रम न्यायालय का गठन करती है, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा तथा श्री एन.के.आर. मोहपात्रा को दिनांक 30-7-2004 (पूर्वाह्न) से उस न्यायालय का पीठीसीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-11016/1/99-सी.एल.एस.-II]

पी. के. ताम्रकार, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 2004

S.O. 2697.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and in continuation of this Ministry's notification No. A-11016/1/99-CLS-II dated 6-7-2000, the Central Government hereby constitutes Labour Court with Headquarters at Bhubaneswar for the adjudication of industrial disputes relating to any matter specified in the Second Schedule to the said Act and for performing such other functions as may be assigned to it under the said Act, and appoints Shri N.K.R. Mohapatra as Presiding Officer of that Court with effect from 30-7-2004 (F.N.).

[F. No. A-11016/1/99-CLS-II]

P. K. TAMRAKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2698.—गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54) की धारा 9 और गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कल्याण) नियमावली, 1990 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 89 (अ) दिनांक 21-1-2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 9 के लिए और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“9. कैप्टन वी.के. सिंह
मैसर्स ब्रेयास शिपिंग लिमिटेड,
912 इम्बेसी सेक्टर,
नरिमन प्वाइंट,
मुम्बई-400021

[फा. सं. एस.-17025/2/93-आई एस एच-II]

सी. ए. भास्करन, निदेशक

टिप्पण : मूल आदेश अधिसूचना सं. का.आ. 89 (अ) दिनांक 21-1-02 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 21-1-2002 में प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 8th October, 2004

S.O. 2698.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986 (54 of 1986) and rule 9 of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Rules, 1990, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 89(E) dated 21st January, 2002, namely :—

In the said notification, for serial number 9 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“9. Captain V. K. Singh, Member
M/s Shreyas Shipping Limited
912 Embassy Centre,
Nariman Point,
Mumbai-400021.

[F. No. S-17025/2/93-ISH-II]

C. A. BHASKARAN, Director

Note : The principal order was published vide Notification No. S.O. 89 (E) Dated 21-01-2002 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 21-01-2002

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2699.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 नवम्बर, 2004 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“तूतुकुडी जिला में कोविलपट्टी तालुक के नालाट्टिन्दूर, मुडुकुमीण्टानपट्टी, वानरमुट्टी तोणुकाल और तिरूणलवेली जिला में संकरनकोयिल तालुक के जमीन देवरकुलम वडक्कुपट्टी, इलेयरसनेन्तल, अटयनेरी, अप्पनेरी, पिल्लैयारनत्तम आदि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।”

[सं. एस-38013/74/2004-एस.एस.-1]
के.सी. जैन, निदेशक

New Delhi, the 12th October, 2004

S.O. 2699.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st November, 2004 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (i) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

“Areas comprising the revenue villages of Nalattinpu, Mudukkumeendanpatti, Vanaramutti,

Thonukal of Kovilpatti Taluk in Tuticorin District & Zamin Devarkulam, Vadakkupatti, Ilayarasanenthall, Ayyaneri, Appaneri, Pillayarnatham of Sankarankoil Taluk in Tirunelveli District.”

[No. S-38013/74/2004-SS.I]

K. C. JAIN, Director

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2700.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 नवम्बर, 2004 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला तिरूणलवेली के संकरनकोयिल तालुक में राजस्व ग्राम-नार्थ कुरिविकुलम, साउथ कुरिविकुलम, अथिपट्टी एवं रामलिंगपुरम के अधीन आने वाले क्षेत्र।”

[सं. एस-38013/73/2004-एसएस-1]
के. सी. जैन, निदेशक

New Delhi, the 12th October, 2004

S.O. 2700.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st November, 2004 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (i) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

“Areas comprising the revenue villages of North Kuruvikulam, South Kuruvikula, Athipatti & Ramalingapuram in Sankarankoil Taluk of Tirunelveli District.”

[No. S-38013/73/2004-SS.I]

K.C. JAIN, Director

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2701.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 नवम्बर, 2004 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है)

अध्याय-5 और 6 [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“तिरुणलवेली जिला तालुक के गंगैकोण्डान भाग-I एवं भाग-II और अलंगारपेरी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।”

[सं. एस-38013/75/2004-एस.एस. 1]
के. सी. जैन, निदेशक

New Delhi, the 12th October, 2004

S.O. 2701.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st November, 2004 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

“Areas comprising the revenue villages of Gangaikondan Part I & Part II and Alangaraperi of Tirunelveli Taluk and District.”

[No. S-38013/75/2004-SS.1]

K.C. JAIN, Director

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2702.—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 47) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 907 दिनांक 29-3-2004 द्वारा सिक्कुरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 21 में शामिल हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-4-2004 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-10-2004 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/16/97-आई.आर. (पी.एल.)]
जे.पी. पति, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th October, 2004

S.O. 2702.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 907 dated 29-3-2004 the service in the Security Paper Mill, Hoshangabad which is covered by item 21 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 15th April, 2004.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 15th October, 2004.

[F. No. S-11017/16/97-IR (PL)]

J.P. PATI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2703.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 नवम्बर, 2004 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“तिरुणलवेली जिला में पालयमकोट्टे तालुक के सिक्कुरिटी पेपर मिल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।”

[सं. एस-38013/76/2004-एस.एस. 1]
के.सी. जैन, निदेशक

New Delhi, the 14th October, 2004

S.O. 2703.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st November, 2004 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and

45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

“Areas comprising the revenue villages of Sivanadiyarkulam of Palayamkottai Taluk in Tirunelveli District.”

[No. S-38013/76/2004-SS.I]

K.C. JAIN, Director

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2004

का. आ. 2704.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 नवम्बर, 2004 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“तमिलनाडु राज्य के जिला वैल्लूर के तालुक कडपडी में राजस्व ग्राम अम्मननकुप्पम के अधीन आने वाले क्षेत्र।”

[सं. एस-38013/77/2004-एस.एस. I]

के.सी. जैन, निदेशक

New Delhi, the 15th October, 2004

S.O. 2704.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st November, 2004 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu namely :—

“Areas comprising the revenue villages of Ammanankuppam of Kadpadi Taluk in Vellore District.”

[No. S-38013/77/2004-SS.I]

K.C. JAIN, Director